



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 50] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 13—दिसम्बर 19, 2003 (अग्रहायण 22, 1925)
No. 50] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 13—DECEMBER 19, 2003 (AGRAHAYANA 22, 1925)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]
[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

(बैंक ऑफ बडौदा)

दिनांक

संदर्भ सं.

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 19 की उपधारा (2), (1970 का 5)/(1980 का 4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए बैंक ऑफ बडौदा के निदेशक मंडल ने भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श के उपरांत तथा केन्द्र सरकार की पूर्व मंजूरी के अनुसार बैंक ऑफ बडौदा सामान्य विनियम, 1998 में पुनः संशोधन स्वरूप निम्नलिखित संशोधन किए हैं :--

- (i) विनियम को बैंक ऑफ बडौदा सामान्य (संशोधन) विनियम 2003 कहा जाए।
(ii) सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से ये विनियम प्रभावी होंगे।
- “बैंक ऑफ बडौदा सामान्य विनियम 1998” को “बैंक ऑफ बडौदा सामान्य (शेयर एवं बैठक) विनियम 1998” के नाम से जाना जाएगा।
- यथानामित बैंक ऑफ बडौदा सामान्य (शेयर एवं बैठक) विनियम 1998 के विनियम 2 में।
 - खंड (इ) को निम्नलिखित शब्दों, प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात्
(इ) “समिति” से तात्पर्य “विनियम 2 के तहत गठित समिति से है”।
 - खंड (जे) के अंत में निम्नलिखित शब्द एवं आंकड़े प्रविष्ट किए जाएंगे, अर्थात्
“डिपोजिटरी अधिनियम, 1996 (1996 का 22) की धारा 11 के तहत डिपोजिटरी द्वारा धारित हिताधिकारी स्वामियों का रजिस्टर”।

4. विनियम 2 के उपरांत निम्नलिखित नया विनियम प्रविष्ट किया जाएगा, अर्थात्
- "2क (i) विनियम 67 के उपबंध (ii) में यथा उपलब्ध को छोड़कर निदेशक मंडल, जब कभी आवश्यक समझे, इन विनियमों हेतु एक समिति का गठन कर सकता है, जिसमें अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक अथवा उनकी अनुपस्थिति में कार्यकारी निदेशक तथा दो अन्य निदेशक, जैसा वह उचित समझे, होंगे.
- (ii) इस विनियम के तहत गठित समिति निदेशक मंडल द्वारा विनिर्दिष्ट प्रक्रिया नियमों का पालन करेगी.
5. विनियम 5 के उपबंध (v) को हटा दिया जाएगा.
6. विनियम 5 के पश्चात निम्नलिखित विनियम जोड़ा जाएगा, अर्थात् -
- "5क (i) यदि बही में, अनुक्रमणिका बनाने, अनुक्रमणिका रखने, जोकि शेयरधारकों के नामों की कार्ड अनुक्रमणिका के रूप में हो सकता है, की संभावना नहीं है तो बैंक शेयरधारकों की बही में किए गए किसी परिवर्तन की तारीख से 14 दिनों के अंदर अनुक्रमणिका (Index) में आवश्यक परिवर्तन कर लेगा.

(ii) अनुक्रमणिका को शेयरधारकों के रजिस्टर के साथ रखा जाएगा.

7. विनियम 7 के उपबंध (ii) में "फर्मों के संबंध में" शब्दों के स्थान पर "साझेदारी फर्मों के संबंध में" प्रतिस्थापित किया जाएगा.
8. विनियम 8 के उपबंध (ii) के पश्चात् निम्नलिखित उपबंध जोड़ा जाएगा, अर्थात्
(iii) सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 (2000 का 21) में इलेक्ट्रानिक रिकार्डों को सुरक्षित रखने हेतु निर्धारित सुरक्षा मानकों के अधीन रहते हुए इलेक्ट्रॉनिक रूप में रजिस्टर रखा जाएगा.
9. विनियम 11 के उपबंध (ii) में "प्रति 100 शब्दों के लिए रु.5/- की दर से" को "प्रति 1000 शब्दों के लिए रु.5/- की दर से अथवा ऐसी दर से जिसे निदेशक मंडल निर्धारित करें" से प्रतिस्थापित किया जाएगा.
10. विनियम 12 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :

"12 बही बंदी-लागू दिशानिर्देशों तथा स्टॉक एक्सचेंज के साथ सूचीबद्धता समझौता के अनुपालन को सुनिश्चित करने, भारत में प्रचलित कम से कम दो समाचार पत्रों में विज्ञापन के रूप में न्यूनतम 7 दिनों की पूर्व सूचना देने के उपरांत बैंक किसी भी अवधि अथवा प्रति वर्ष कुल 45 दिनों से अनधिक परंतु एक बार में 30 दिनों से अधिक नहीं, जैसा आवश्यक हो, शेयरधारकों की बही को बंद करा सकता है".

11. विनियम 13 में

- (i) उपबंध (ii) के "निदेशक मंडल द्वारा नियुक्त कोई अन्य अधिकारी" शब्दों को "कोई अन्य अधिकारी, जो वेतनमान-II अथवा कंपनी सचिव से नीचे का न हो" से प्रतिस्थापित किया जाएगा.
- (ii) उपबंध (v) को हटा दिया जाएगा.

12. विनियम 15 में "शेयर प्रमाणपत्रों का नवीनीकरण" शीर्षक को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा.

"नया अथवा डुप्लीकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करना"

13. विनियम 17 में उपबंध (iii) तथा (iv) के लिए निम्नलिखित उपबंध प्रतिस्थापित किया जाएगा.

"(iii) अंतरण को बही में दर्ज करने के अनुरोध के साथ प्राप्त होने पर बैंक द्वारा शेयर प्रमाणपत्र के साथ अंतरण लिखत, निदेशक मंडल अथवा निदेशक मंडल द्वारा नामित समिति उक्त अंतरण लिखत को शेयर प्रमाणपत्र के साथ, तकनीकी आवश्यकताओं के पूर्ण अनुपालन के सत्यापन हेतु, रजिस्ट्रार अथवा शेयर अंतरण एजेंट को भेजेगा. यदि अंतरण लिखत विधिवत् स्टांपित तथा रजिस्ट्रीकरण हेतु समुचित रूप से निष्पादित न हो एवं संबंधित शेयर प्रमाणपत्रों अथवा निदेशक मंडल द्वारा ऐसे अंतरण हेतु अंतरणकर्ता के हक दर्शाने हेतु अपेक्षित अन्य प्रमाणों से युक्त न हो तो रजिस्ट्रार अथवा शेयर अंतरण एजेंट शेयर प्रमाणपत्रों के साथ अंतरण लिखत अंतरिती को पुनः प्रस्तुत करने हेतु लौटा देगा.

व्याख्या :- "तकनीकी आवश्यकताओं के दृष्टांत" से तात्पर्य है.

- क) अंतरण विलेख, विधिवत रूप से स्थापित होना चाहिए.
 - ख) अंतरण विलेख में उल्लिखित प्रमाणपत्र नंबर अथवा डिस्टिक्टिव नंबर को शेयर प्रमाणपत्र के साथ मेल खाना चाहिए.
 - ग) अंतरणकर्ता के हस्ताक्षर मेल खाने चाहिए.
 - घ) अंतरण विलेख साक्षीकृत होना चाहिए.
- iv) निदेशक मंडल अथवा निदेशक मंडल द्वारा नामित समिति, जब तक कि इसके द्वारा विनियम 19 के अंतर्गत अंतरण के पंजीकरण को मना नहीं किया जाता, अंतरण को पंजीकृत कराएगी.
- v) जब तक कि शेयरों का अंतरण विनियम 19 के अंतर्गत मना नहीं किया जाता, अंतरण लिखत के दायर किए जाने की तारीख से 60 दिनों के भीतर अंतरिती को विधिवत रूप से अंतरित शेयर प्रमाणपत्र सुपुर्द करना होगा.

14. विनियम 19 में :-

- i) खण्ड (i) के "निदेशक मंडल मना कर सकता है " शब्दों के स्थान पर "निदेशक मंडल अथवा समिति मना कर सकती है " प्रतिस्थापित किया जाएगा.
- ii) खण्ड (i) के उपबन्ध को हटा दिया जाएगा.
- iii) खण्ड (ii) में -

(क) शुरुआत में "निदेशक मंडल द्वारा " शब्दों के स्थान पर " निदेशक मंडल अथवा समिति द्वारा " प्रतिस्थापित किया जाएगा.

(ख) उप-खण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित उप-खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा :-

" यदि इसने यह राय बना ली है कि ऐसा पंजीकरण उप-विनियम (i) में उल्लिखित किसी भी कारण के आधार पर मना किया जाना है तो इस संबंध में अंतरणकर्ता तथा अंतरिती को, अंतरण फार्म प्राप्त होने के 60 दिनों के भीतर अथवा संबंधित स्टॉक एक्सचेंज के साथ सूचीकरण करार में दी गई अवधि के भीतर ऐसे मना किए जाने के कारणों को देते हुए, लिखत में नोटिस द्वारा सूचित करना होगा ".

15. विनियम 21 में निम्नलिखित स्पष्टीकरण जोड़ा जाएगा अर्थात् :-
 "स्पष्टीकरण - इस विनियम के उद्देश्य हेतु एक शेयरधारक, पंजीकरण के लिए अयोग्य हो जाएगा यदि -
 (क) वह नाबालिग का अभिभावक है तो नाबालिग के बालिग हो जाने पर
 (ख) कर्ता के नाते शेयरों को धारित किए हुए हैं तो उसके कर्ता न रह जाने पर.
16. विनियम 32 में "उस संदर्भ में निदेशक मंडल के संकल्प द्वारा" शब्दों के स्थान पर "विनियम 31 के अंतर्गत जब्ती के नोटिस की अवधि समाप्त होने के पश्चात् आयोजित होनेवाली निदेशक मंडल की अपनी अगली बैठक में उस संदर्भ में संकल्प द्वारा" प्रतिस्थापित किया जाएगा.
17. विनियम 44 में "बैंक के किसी अन्य अधिकारी" शब्दों के स्थान पर "कंपनी सचिव अथवा बैंक का अन्य कोई अधिकारी जो वेतनमान-II के रैंक से कम नहीं होना चाहिए" प्रतिस्थापित किया जाएगा.
18. विनियम 46 में, खण्ड (ii) के उपबंध में
 (i) "पंजीकृत डाक द्वारा पावती सहित अथवा रहित" शब्दों के स्थान पर "पंजीकृत डाक द्वारा पावती सहित अथवा रहित अथवा कुरिअर सर्विस द्वारा अथवा इलेक्ट्रानिक माध्यम द्वारा " प्रतिस्थापित किया जाएगा.
 (ii) मामलानुसार "सामान्य डाक द्वारा" के पश्चात् "अथवा इलेक्ट्रानिक माध्यम" जोड़ा जाएगा.
19. अध्याय III में -
 (i) विनियम 47 में, "एक अथवा अधिक डिपॉजिटरी" शब्दों के स्थान पर "डिपॉजिटरीज अधिनियम, 1996 की धारा 2 (ई) में परिभाषित के अनुसार एक अथवा अधिक डिपॉजिरी" प्रतिस्थापित किया जाएगा
 (ii) विनियम 48 से 55 तक को हटा दिया जाएगा -
20. विनियम 56, खण्ड (i) में "कोई भी प्राधिकृत अधिकारी" शब्दों के स्थान पर "कोई भी अधिकारी जो वेतनमान-VII के श्रेणी से कम न हो अथवा कंपनी सचिव" प्रतिस्थापित किया जाएगा.
21. विनियम 61 के पश्चात्, निम्नलिखित विनियमों को जोड़ा जाएगा, अर्थात् :

61ए मतगणना स्थल पर मतपत्र निरीक्षक

- (i) जहां पर मतगणना होनी है वहां पर किए गए मतदान के मतपत्रों की जांच के लिए बैठक के अध्यक्ष दो मतपत्र निरीक्षकों की नियुक्ति करेगा, जो कि इस बारे में उन्हें रिपोर्ट करेंगे.
- (ii) बैठक के अध्यक्ष को यह अधिकार होगा कि वह मतगणना के परिणाम की घोषणा के पहले किसी भी समय मतपत्र निरीक्षक को उसके पद से हटा सकता है एवं निरीक्षकों को हटाये जाने के फलस्वरूप अथवा अन्य किसी कारण से पैदा हुई रिक्तियों को भर सकता है.
- (iii) अधिनियम के अंतर्गत इस तरह से नियुक्त किए गए दो मतपत्र निरीक्षकों में से एक बैठक में उपस्थित शेयरधारक (बैंक के अधिकारी अथवा कर्मचारी के रूप में नहीं) का होना जरूरी है, बशर्ते कि इस तरह का शेयरधारक उपलब्ध हो, एवं वह इसके लिए सहमत हो.

61बी मतगणना करने एवं उसके परिणाम का तरीका

- (i) बैठक के अध्यक्ष के पास मतगणना करने के तरीके के बारे में विनियमन का अधिकार रहेगा.
- (ii) मतगणना के परिणाम को मतगणना हेतु किए गए संकल्प पर बैठक में लिया गया निर्णय समझा जाएगा.

22. अधिनियम 62 में, खंड (iii) के बाद, निम्नलिखित खंड शामिल किए जाएंगे, अर्थात्:

- (iv) मिनट बुक के निरीक्षण अथवा विशेषीकृत बैठक में मिनट की प्रति के लिए शेयरधारक द्वारा लिखित रूप से किए गए निवेदन पर, बैंक शेयरधारक को संबंधित स्थिति के अनुसार निरीक्षण की स्वीकृति देगा अथवा मिनट की प्रति को प्रस्तुत करेगा.

23. अधिनियम 65 के खंड (i) उपखंड (क) में "100 (एक सौ) शेयरों की धारिता " शब्दों के स्थान पर "100 (एक सौ) शेयरों से कम की धारिता नहीं " से प्रतिस्थापित किया जाएगा.

द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया

पी.बी. नं., 7100 इन्द्रप्रस्थ मार्ग, नई दिल्ली-110002

नई दिल्ली-110002, दिनांक 25 नवम्बर 2003

(चार्टर्ड एकाउंटेंट्स)

3 एनसीए (4)/1/2002-2003 इस संस्थान की अधिसूचना के संदर्भ में चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार विनियम 1988 के विनियम 20 (1) (ग) के अनुसरण में एतद् द्वारा यह सूचित किया जाता है कि उक्त विनियमों के विनियम 18 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार संस्थान परिषद ने अपने सदस्यता रजिस्टर में निम्नलिखित सदस्यों का नाम वार्षिक शुक्ल न जमा कराने के कारण दिनांक 01/10/2002 से हटा दिया गया है।

क्र० सं०	सदस्यता संख्या	नाम एवं पता
1.	000998	श्री बंसल राम कनवर मौहल्ला नीम वाला (हरियाणा), हिसार-125001
2.	001064	श्री सूरि तेज प्रताप सिंह 7106, वरटसिर एव. नॉर्थ हॉलिबुड, सी. ए 91605, यू.एस.ए.
3.	001147	श्री सूरि एस.पी. 5267 कोलहापुर हाऊस कमला नगर, दिल्ली-110007
4.	001199	श्री भंडारी रंजीत मल सी-53 आनन्द निकेतन नई दिल्ली-110021
5.	003275	श्री अग्रवाल नारायण दास एन.डी. अग्रवाल एण्ड कम्पनी विकास मार्ग, दिल्ली-110092
6.	003276	श्री राजाराम टी.बी. 148 अरावली अपार्टमेंट्स कालका जी, नई दिल्ली-110019
7.	003719	श्री कपूर जग मोहन एल-29 सरिता विहार नई दिल्ली-110044
8.	003959	श्री लाल किर्ती भूषण के. बी. लाल एण्ड कम्पनी एफ-13, सेकिण्ड फ्लोर, विजय चौक, लक्ष्मी नगर, नई दिल्ली-110092
9.	004149	श्री मलकानी साहिब कोटूमल 3बी/1 सर गंगाराम हॉस्पिटल रोड नई दिल्ली-110060
10.	004162	श्री जैन पदम कुमार डी-18, ग्रीन पार्क, नई दिल्ली-110016
11.	004197	श्री हल्दीया दूर्गा दास ई-115 ग्रेटर कैलाश वन नई दिल्ली-110048

12.	004312	श्री सहगल जगन नाथ के-10/4 डी.एल.एफ फेस-टू (हरियाणा) गुडगांव
13.	005142	श्री बजाज जगदीश कुमार 13112 वैस्ट गेट ओवर लैंड पार्क, कनसस-66213, यू.एस.ए.
14.	005866	श्री मजूमदार अनिमेश कुमार सी/ओ विनय जैन एण्ड कम्पनी 214 चावडी बाजार, अपोजिट देना बैंक, नई दिल्ली-110006
15.	006799	श्री मेहरा कृष्ण कुमार के.के.मीरा एण्ड कम्पनी ई/32/111 लाजपत नगर नई दिल्ली-110024
16.	007047	श्री बामू पार्थ सारथी मैनेजिंग डायरेक्टर पी.ओ. ट्रेवल इंडिया लि. 10 फ्लोर हेम कुँट टावर, 93 नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019
17.	007525	श्री अरोडा सुभाष चन्द्र पी.ओ. बॉक्स 383, गैबोरन बोत्सवाना
18.	008095	श्री गुप्ता राजेन्द्र पाल 13/5 शक्ति नगर दिल्ली-110007
19.	008361	श्री भल्ला ललित मोहन पी.ओ. बॉक्स 325 दुबई यू.ए.ई.
20.	008505	श्री खन्ना राज कुमार गोयल एण्ड गर्ग कम्पनी 102 स्काई लिंक, ई-588 ग्रेटर कैलाश-II, नई दिल्ली-110048
21.	009168	श्री सेठ राजेन्द्र लाल 85 बटन वूड एवेन्यू सिटी ऑफ यार्क, ऑनटारियो एम.6एम. 2जे.6, कनाडा
22.	009244	श्री मेहरा मन मोहन सिटी क्लीनिक बिल्डिंग, 17-ए/1, आसफ अली रोड, नई दिल्ली-110002
23.	009247	श्री चटवाल अमर नाथ 491 कृष्णा भवन सुभाष रोड गाँधी नगर, दिल्ली-110031
24.	009680	श्री जौहरी मोहन चन्द्र वल्ड हेल्थ आर्गेनाइजेशन ओ.एम.एस.-एफ्रो, बी.पी.-6, ब्राजेविला,
25.	009862	श्री चटर्जी गोरा डी-2 पंचशील एक्स्लेव नई दिल्ली-110017
26.	010331	श्री अनेजा सुरेश कुमार जे.बी.-11 (दूसरी मंजिल) मालवीय नगर, नई दिल्ली-110017

27. 010402 श्री कपूर रमेश चन्द्र
वी.पी. एण्ड ट्रीसूर गूडईयर फिलिपींस
पी.ओ. बॉक्स 1384 मकाटी, फिलिपींस,
28. 010543 श्री गुप्ता ईश्वर चन्द्र
आई.सी. गुप्ता एण्ड कम्पनी
फ्लैट नं. 711, सी.ए. अपार्टमेंट्स,
पश्चिम विहार, नई दिल्ली-110063
29. 010981 श्री आहुजा मुलक राज
बॉक्स-7252 मिस वैली स्टेट यूनिवर्सिटी
ईटा व्रेना, एम.एस. 38941-1400,
मिसौसिप्पी यू.एस.ए.
30. 011125 श्री टंडन धनराज
88, गोल्फ लिंक (एनेक्स) नई दिल्ली-110003
31. 011394 श्री कालरा ठाकर दास
42, जनपथ, टोलस्टॉय लेन, नई दिल्ली-110001
32. 011697 श्री चोपड़ा प्रेम कुमार
72-ए पॉकेट-बी मयूर विहार फेस-II
नई दिल्ली-110091
33. 011725 श्री जैन धनेन्द्र कुमार
43, किरण विहार दिल्ली-110092
34. 011838 श्री कपूर अशोक कुमार
एम/एस. ए.के. कपूर एण्ड ऐसीसिएट्स
सी.ओ. श्री एस.के. अग्रवाल, फ्लैट नं. 27,
शंकर मार्किट, कर्नाट सर्कस नई दिल्ली-110065
35. 012491 श्री सहगल रमेश
आर. सहगल एण्ड कम्पनी डी-852,
न्यू फ्रैंड्स कॉलोनी, नई दिल्ली-110065
36. 012505 श्री खरबंदा किशोर कुमार
यू-112, विधाता हाउस विकास मार्ग,
दिल्ली-110092
37. 012782 श्री अनिल प्रकाश
18 ए निजामुद्दीन वैस्ट नई दिल्ली-110013
38. 013123 श्री खन्ना अशोक चन्द्र
एफ-105 कीर्ति नगर, नई दिल्ली-110015
39. 013260 श्री कृष्णा राव अकेला
सी/ओ. बृज भूषण अग्रवाल ए-17
स्वास्थ्य विहार, दिल्ली-110092
40. 013888 श्री प्रदीप कुमार
एफ-213 ए, लाडो सराय एम.बी. रोड,
नई दिल्ली-110030
41. 014032 श्री सुभाष चन्द्र
टी.यू. विशाखा एन्क्लेव पीतम पुरा,
दिल्ली-110034
42. 014225 श्री रविन्द्र नाथ
जे-6 साकेत नई दिल्ली-110017
43. 014914 श्री शर्मा परेश नाथ
डायरेक्टर (फाइनेंस) एम.एम.टी.सी. लि.
कोर नं. 1, स्कोप कॉम्प्लैक्स लोधी रोड
नई दिल्ली-110003
44. 014916 श्री मित्तल विजेन्द्र
जनरल मैनेजर, फाइनेंस जमबो इलेक्ट्रॉनिक्स
कम्पनी लि., पी.ओ. बॉक्स 3426, दुर्ग
नई दिल्ली-110003
45. 015518 श्री अग्रवाल जगदीश कुमार
सी-2/10 प्रशांत विहार दिल्ली-110085
46. 015519 श्री सिंह अजय कुमार
ए-15/7 बसंत विहार नई दिल्ली-110057
47. 015538 श्री शर्मा बृज भूषण
80/7-बी ग्राउण्ड फ्लोर मालवीय नगर,
नई दिल्ली-110017
48. 015745 श्री जैन गिरीश चन्द्र
30, गगन विहार एक्स्टेंशन, नई दिल्ली-110051
49. 015840 श्री खन्ना अशोक
40 ई पश्चिम मार्ग बसंत विहार,
नई दिल्ली-110057
50. 016116 श्री मेडीरत्ता नरेश
मेडीरत्ता एण्ड बाबा, 606, इरोज अपार्टमेंट्स,
56 नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019
51. 016242 श्री कालरा बिपिन कुमार
फ्लैट नं. 2/15 अबुल फजल रोड, बंगाली मार्किट
नई दिल्ली-110001
52. 016505 श्री कपूर सुधीर
7, बिरहल रोड, जंगपुरा एक्स्टेंशन,
नई दिल्ली-110014
53. 016640 श्री मल्होत्रा प्रदीप कुमार
302, तीसरी मंजिल, 16ए, उदय पार्क,
नई दिल्ली-110049
54. 016766 श्री गुप्ता सुदर्शन के.
2228 ई 54 एवेन्यू वनकोवर बी.सी., कनाडा
बी5पी. 1वाई7 कनाडा
55. 017157 श्री आहुजा संदीप
अमीटैक केन्या लि., नैरोबी, केन्या
56. 017287 श्री पोपली सुनील कुमार
एम/एस एस.के. पोपली एण्ड कम्पनी, 1715,
आर्या समाज रोड, नई दिल्ली-110005
57. 017535 जैन विनय कुमार
विजय जैन एण्ड कम्पनी, 214 चावडी बाजार,
अपोजिट देना बैंक, दिल्ली-1100060
58. 017537 श्री बुद्धराजा सुधीर
बुद्धराजा एण्ड एसोसिएट्स आर-525,
न्यू राजेन्द्र नगर, नई दिल्ली-1100060

59. 017557 श्री घोष अभिजीत
503, प्रगति हाउस 47-48 नेहरू प्लेस,
नई दिल्ली-110019
60. 017563 श्री गुलाटी राजेन्द्र कुमार
जे-111, कीर्ति नगर नई दिल्ली-110015
61. 017584 श्री गुप्ता रमेश चन्द
ए-1/293 जनकपुरी पंखा रोड,
नई दिल्ली-001158
62. 018215 श्री बालासुब्रमण्यम ए.
डा0 जनरल मैनेजर क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन डिवीजन
7 भीकाजी कामा प्लेस तीसरी मंजिल,
नई दिल्ली-110066
63. 018721 श्री रमैया कृष्णन्
1, पीएनबी ऑफिसरस् फ्लेट्स, आर्य समाज रोड,
करोल बाग, न्यू दिल्ली-110005
64. 021339 श्री जॉन समुएल जी
173 काका नगर नई दिल्ली-110003
65. 029379 श्रीमति माला बी
226 उद्योग विहार, फेस-II, गुडगांव-122016
66. 030803 श्री मुखर्जी अत्री
ए.एल.-फट्टम (प्रा.) लि. पी.आ. बॉक्स 152,
दुबई, यू.ए.ई.
67. 032188 श्री सिंह अनुरंजन
अनुरंजन एण्ड कम्पनी 475 मॉडल टाउन,
धरनाल-132001
68. 032814 श्री सांतिकुमार बी.
जनरल मैनेजर टैक्सेशन सी.ओ. बल्लारपुर
इंडिया लि. थापर हाउस, 124 जनपथ,
नई दिल्ली-110001
69. 036354 श्री नागानाथन जी
1815 डब्ल्यू गोल्फ ड्राइव, 120 माउन्ट प्रास्पेक्ट,
आई.एल. 60056 यू.ए.ई.
70. 039948 श्री नायक कृष्णा
बी-3-61/ए लार्सेन रोड, दिल्ली-110035
71. 040689 श्री बील्लि मोरई पर्सीवल
एम-243 ग्रेटर कैलाश पार्ट-II
नई दिल्ली-110048
72. 041537 श्री ओस्टवल दीपक
303 ढाका चैम्बर 2068/38 नईवाला,
करोलबाग, नई दिल्ली-110005
73. 044492 श्री कामध के. सुरेश
के.के. स्त्री एण्ड कम्पनी, 103 सरोजनी मार्केट,
नई दिल्ली-110023
74. 045432 श्री दत्ता राकेश जगदेव
कैस्ट्रोल इंडिया लि. पांचवी मंजिल,
एन.बी.सी.सी. प्लेस, भीष्म पीतामह मार्ग,
नई दिल्ली-110003
75. 045693 श्री गुप्ता विजयेश
190 एस.एफ.एस. हौज खास, नई दिल्ली-110016
76. 046778 श्री जोगिन्द्र सिंह
एस-307 ग्रेटर कैलाश-I नई दिल्ली-110048
77. 046865 श्री मित्र तापस
चीफ फाइनेंसियल ऑफिसर फोर्ट इज हेल्थकेयर,
बी-9, महारानी बाग, नई दिल्ली-110065
78. 049386 श्री कंकरवाडी सुधीरेन्द्र
सी.ओ. भारत एस. रवि एण्ड कम्पनी 511 वल्ड
ट्रेड सेंटर, बाबर रोड, नई दिल्ली-110001
79. 050100 श्री गौतम हाजरा चौधरी
एसोसिएट डायरेक्टर
एच.एस.बी.सी. इनवैस्टमेंट बैंकिंग, 24 बागखम्भा
रोड, तीसरी मंजिल, नई दिल्ली-110048
80. 050333 श्री जालान बिनोद कुमार
बी.के. जालान एण्ड कम्पनी, ए-1/15 जीवन
ज्योति अपार्टमेंट्स, रोहित कुंज कबीर दास मार्ग
पीतमपुरा, दिल्ली-110034
81. 051048 श्री बसक सुरोजित
ए-2 आशिश अपार्टमेंट्स एम्पायर एस्टेट्स,
सुल्तानपुर गांव, नई दिल्ली-110030
82. 051756 श्री सिंह चन्द्र भान
सी.बी. सिंह एण्ड एसोसिएट्स कमरा नं. 4
पहली मंजिल, 769/777 डी.बी. गुप्ता रोड,
नई दिल्ली-110005
83. 052397 श्री विजेन्द्र कुमार
127, ई-15/सेक्टर-बी, रोहिणी, दिल्ली-110085
84. 053132 श्री बिरला मनोज कुमार
सी.ओ. स्कूलमबर्गर पी.ओ. बॉक्स 9261,
दुबई, यू.ए.ई.
85. 053171 श्री चक्रवर्ती प्रदीप कुमार
फ्लैट नं. 6343, सेक्टर सी-6, बसंत कुंज,
नई दिल्ली-110070
86. 053178 श्री पुरकायस्थ प्रोसनजीत
बी-391, चितरंजन पार्क नई दिल्ली-110019
87. 053809 श्री रिज्वी सईद मौहम्मद
एम/एस एस.एम. रिज्वी कम्पनी, 9, जय हाउस,
निजामुद्दीन वैस्ट, नई दिल्ली-110024
88. 054296 श्री तनेजा विनय
के-65, लाजपत नगर-II, नई दिल्ली-110024
89. 054476 श्रीमती गुप्ता माध्वी
32 बोलटन क्रिसेंट विंडसर, बर्कशिर एस.एल.क्यू.
3जे.जी. यू.के.
90. 054623 श्री अग्रवाल राज कुमार
हाउस नं. 578 सेक्टर 19, फरीदाबाद (ओल्ड),
फरीदाबाद-121001

91.	055066	श्री गुप्ता विनोद कुमार सी.ओ. हरियाणा रोड वेस इन्जी. कार्पो. लि. बैहरामपुर रोड, खानडरा, गुडगांव	106.	059445	श्री चक्रवर्ती अरिन्दम सी.ओ. इण्डो मोबाइल लि., 4ए डी.एल. एफ. कार्पोरेशन पार्क, गुडगांव-122001
92.	055693	श्री अजमानी राजीव राजीव अजमानी एण्ड कम्पनी, जे-149 साकेत, नई दिल्ली-110017	107.	059851	श्री चन्द्र विशाल इन्टरनेशनल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट बी-10, एण्ड 31 कुतब इंस्टीट्यूशनल एरिया, तारा क्रिसेंट, नई दिल्ली-110016
93.	055809	श्री पानीग्रही पार्थसारथी पी.ओ. बॉक्स 56921 के.एस.ए., रियाध-11564 सऊदी अरब	108.	060006	श्री प्रवीन कुमार सी.ओ. दिलीप कुमार दुबे तायल कुटीर, डब्ल्यू जैड-521 स्ट्रीट नं. 1, श्री नगर शकूर बस्ती, नई दिल्ली-110034
94.	056126	श्री देवराकोन्डा आनन्द 84 एफ पॉकेट-1 मयूर विहार फेस-1, दिल्ली-110091	109.	060068	श्रीमति चनाना सोनिया बी-84 पंडारा रोड, नई दिल्ली-110003
95.	056206	श्री मित्रा कौशिक गुनाकार जनरल मैनेजर-प्लानिंग फ्रिटो-ले इंडिया, चौथी मंजिल टावर-ए, ग्लोबल बेसिस पार्क, महरोली गुडगांव रोड, गुडगांव-122016	110.	060167	श्री चितलंगिया सचिन सी.ओ. श्री सतीश कुमार 143/9 जे.एन.यू. रोड, कृष्ण गढ़ बसंत कुँज, नई दिल्ली-110070
96.	057157	श्री गुप्ता जयदीप जी-1301 दूसरी मंजिल सी.आर. पार्क, नई दिल्ली-110019	111.	060380	श्री अग्रवाल संदीप सी.ओ. श्री ओम प्रकाश अग्रवाल सी-3/37, अशोक विहार फेस-II, दिल्ली-110052
97.	057428	श्रीमति प्रसाद रतिका सी-1/1550 बसंत कुँज नई दिल्ली-110070	112.	060480	श्री भालोटिया संदीप कुमार 27/174, तीसरी मंजिल, विक्रम विहार, लाजपत नगर, -IV, नई दिल्ली-110024
98.	057497	श्री कार्तिकयेन बी. कार्पोरेशन बैंक-जोनल ऑफिस 16/10 आर्या समाज रोड, करोल बाग, नई दिल्ली-110005	113.	070443	श्री सिन्धवी सुरेश चन्द्र ए-240, डेरावालान नगर, दिल्ली-110007
99.	057636	श्री सोमानी संदीप कुमार सी.ओ. श्री आर.एस. लाढा, म.नं. 1411, सेक्टर-16, (हरियाणा) फरीदाबाद	114.	072886	श्री चरनजीत सिंह 10402/8, स्ट्रीट नं. 13, पहली मंजिल, मुलतानी ढाण्डा, पहाडगंज नई दिल्ली-110055
100.	057746	श्री डार जयदीप कंट्रोलर (एफ एण्ड ए), फिलीप्स इंडिया लि., नौवी मंजिल, अशोका एस्टेट, 24 बाराखम्भा रोड, नई दिल्ली-110001	115.	073172	श्री गुप्ता सुभाष चन्द्र एस. चन्द्र गुप्ता एण्ड एसोसिएट्स, चैम्बर नं. 207 वधवा काम्पलैस, 288-89/10, लक्ष्मी नगर, दिल्ली-110092
101.	058019	श्री डुगर मनीश आर-231 ग्रेटर कैलाश पार्ट-I, नई दिल्ली-110048	116.	073414	श्री शर्मा राज कुमार सी.ओ. राहुल त्रिपाठी 43ए/ए-2 मयूर विहार फेस-III, बेसिडस ग्लोबल बस टर्मिनल, नई दिल्ली-110096
102.	058233	श्री सिन्हा बिधन 18/304 ईस्ट एण्ड अपार्टमेंट मयूर विहार, फेस-I एक्सटेंशन, दिल्ली-110096	117.	073428	श्री आदर्श कुमार 303 सीता राम मेन्शन 718 जोशी रोड, करोल बाग, नई दिल्ली-110005
103.	058667	श्री सिंघानीय पंकज बी-50 क्रिश्चन कॉलोनी पटेल चेस्ट, दिल्ली-110007	118.	073479	श्री संदीप कुमार डी0 मैनेजर (फाइनेंस) पावर फाइनेंस कार्पोरेशन लि., चन्द्रलोक, 36, जनपथ, नई दिल्ली-110001
104.	058926	श्री चौहान राजेश कुमार बी-1/403 दूसरी मंजिल, जनकपुरी, नई दिल्ली-110092	119.	073520	श्री महेश्वरी प्रदुल एम. महेश्वरी एण्ड कम्पनी, करोल बाग, नई दिल्ली-110005
105.	059114	श्री भोला संजय जी-83/105 विजय चौक लक्ष्मी नगर, नई दिल्ली-110092	120.	073615	श्री राम किशोर महेश्वरी 315 बजाज ह्यूस 97 नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110001

121.	073991	श्री वर्मा चन्द्र शेखर चन्द्र वर्मा एण्ड कम्पनी, जी-2 एसोसिएटिड अपार्टमेन्ट्स, 83 आई.पी. एक्स्टेंशन, नई दिल्ली-110092	137.	079430	श्री कपूर सुनील कुमार ई.पी. 26 दलपतानी स्ट्रीट जम्मू तबी-180001
122.	074429	श्री मूलचन्दानी हरीश के-1/32 पहली मंजिल, चितरंजन पार्क, नई दिल्ली-110019	138.	079502	श्री बंसल कृष्णा कुमार I-113 लक्ष्मी नगर दिल्ली-110092
123.	074525	श्री सिंह पुष्पेन्द्र म. नं. - 553, फेस-3बी1, पंजाब, मोहाली-160059	139.	079948	श्री जैन अमित एफ-55 डी.डी.ए. फ्लैट्स बिहाइंड मालवीया मार्ग पुलिस स्टेशन, शेख सराय फेस-1, नई दिल्ली
124.	074677	श्री जैन धर्मा प्रकाश 1097 सैक्टर 7 सी फरीदाबाद-121006	140.	080017	श्री मल्होत्रा अशोक कुमार बी-10/7038 बसंत कुँज नई दिल्ली-110070
125.	074710	श्री शेखर कंचन एस. कंचन एण्ड एसोसिएट्स, 1474 ए, सैक्टर-बी 1, बसंत कुँज, नई दिल्ली-110070	141.	080063	श्री प्रवीन कुमार 31/36, ओल्ड राजेन्द्र नगर नई दिल्ली-110060
126.	074766	श्री सिन्धवी सुधीर कुमार ए-240, डेरावालान नगर, दिल्ली-110007	142.	080161	श्री मेहरा अशोक कुमार आर-690, न्यू राजेन्द्र नगर नई दिल्ली-110060
127.	074852	श्री कंधारी तरून बी-1/543 जनकपुरी नई दिल्ली-110058	143.	080175	श्री सुरी राजन बी-सोमानी नगर साऊथ दिल्ली-110017
128.	075183	श्री किशनानी नन्दलाल किशनानी एण्ड एसोसिएट्स 207 पहली मंजिल विकास कॉम्प्लेक्स, 37 वॉर सावरकर ब्लॉक विकास मार्ग, दिल्ली-110092	144.	080185	श्री सागर प्रदीप कुमार प्रेजिडेंट केनाट्रेड इन्टरनेशनल इन्स केनाट्रेड हाऊस, 151 बोलेवर्ड, जिन लैमन कैंडिडिंग जे5आर 4बी5 क्यूबेक, कनाडा
129.	075440	श्री जिन्दल मन मोहन सी.ओ. एम/एस अजय स्टोर्स खेरा बाजार, जगाधरी-13503	145.	080239	श्री चड्ढा अरविन्दर सिंह हाऊस नं. 240 सैक्टर 9-सी, चंडीगढ़-160017
130.	075990	श्री जैन मनोज कुमार मंजीत सिंह एण्ड एसोसिएट्स. 21 श्याम एन्क्लेव विकास मार्ग I पी. एक्सटेंशन-II, दिल्ली-110092	146.	080252	श्री आनन्द रूपिन्द्र एम.एस.- एच.एस. गुलाटी एण्ड कम्पनी 5640 कुम्हव रोड, नई दिल्ली-110055
131.	078040	श्री राठी राज कुमार इकाई ट्रेडिंग (I) लि. प्लॉट नं. 8 बाला जी एस्टेट, गुरू रवि दास मार्ग, कालकाजी, नई दिल्ली	147.	080261	श्री गोयल बाल राज हरियाणा फाइनेंसल कॉर्पोरेशन सैक्टर-17, 18 एण्ड 19 सैक्टर 17, चंडीगढ़-160017
132.	078333	श्री शर्मा राकेश 885, सैक्टर-14 अरबन एस्टेट, गुडगांव	148.	080359	श्री जोशी सुधीर बी-3, कैलाश कॉलोनी नई दिल्ली-110048
133.	078621	श्री जोशी भुवन चन्द्र 53-एफ पॉकेंट मयूर विहार, फेस-1, दिल्ली-110091	149.	080369	श्री सेठ प्रदीप सी-13, मानसरोवर गार्डन, नई दिल्ली-110015
134.	078681	श्री के. स्वामी नाथन ई-7 आई.डी.पी.एल. अपार्टमेन्ट्स रोड नं. 44 पीतमपुरा, नई दिल्ली-110034	150.	080374	श्री अरविन्द कुमार 4222, पहली मंजिल, i, अंसारी रोड, दरियागंज, नई दिल्ली-110002
135.	078743	श्री तिवारी विभव नाथ मेनेजर - आपरेशन्स लव-लोक एण्ड लीव्स सर्विस प्रा. लि., 1110, कैलाश बिल्डिंग, 26, कस्तूरबा गाँधी मार्ग, नई दिल्ली-110001	151.	080629	श्री अग्रवाल बृज मोहन 46 ऐडिशनल मंडी सिरसा
136.	079090	श्रीमति अग्रवाल स्मीता शिथलाइन बीचम कनज्यूमर हैल्थ केयर लि., डी.एल.एफ. प्लाजा टावर्स, डी.एल.एफ. सिटी फेस-1, गुडगांव-122002	152.	080679	श्री गुप्ता विजय कुमार 303 महावीर श्री हाऊस 4771/23 डा0 भरत राम रोड, दरियागंज, नई दिल्ली-110002
			153.	080702	श्री मूर्ति शिव शंकर एस.एस. मूर्ति एण्ड कम्पनी एक्स. बी-45, हरि नगर निकट माया पुरी डी.डी.ए. एल.आई.जी. फ्लैट्स, नई दिल्ली-110064
			154.	080743	श्री जॉली राजन ए-6 दूसरी मंजिल श्री अग्रसेन सी.जी.एच. सोसाइटी लि., प्लॉट नं. 10 सैक्टर-7, द्वारका फेस-II, नई दिल्ली-110045

155. 080763 श्री साजवाल रमेश
सी.ओ.- डा0 दीपक शर्मा हाऊस नं. 76 इन्दिरा
नगर, सैक्टर-सी (कश्मीर) श्रीनगर-190004
156. 080782 श्री विजय सराशी पी.
ए-7 कर्कातिया अपार्टमेंट्स 86 आई.पी.
एक्सटेंशन, दिल्ली-110092
157. 080856 श्री चौधरी हर्ष कुमार
एच.के. चौधरी एण्ड एसोसिएट्स, सी-530
सरस्वती विहार, दिल्ली-110034
158. 080886 श्री कश्यप सुभाष चन्दर
सी.ओ.-बंसल मितल एण्ड कम्पनी,
स्को 1116-17, पहली मंजिल, सैक्टर 22-बी,
चंडीगढ़-160022
159. 080907 श्री बजाज श्याम लाल
87 लक्ष्मी अपार्टमेंट्स प्लॉट नं. 24/3 रोहिणी
सैक्टर-9, दिल्ली-110049
160. 080993 श्री लखवानी महिन्द्र कुमार
105 जैना एस. रमेश दौन 11 युसूफ सराय
कमर्शियल काम्पलैक्स, नई दिल्ली-110049
161. 081031 श्री मल्होत्रा सतिन्द्र कुमार
35 हेसटन एवेन्यू हैसटन लंदन, मिडलैसेक्स
टी.डब्ल्यू.5 9ई.यू. यू.के.
162. 081102 श्री गुप्ता राज कुमार
आर.के. गुप्ता एण्ड एसोसिएट्स 2503
न्यू कूतब रोड, तेलीवाडा दिल्ली-110006
163. 081114 श्री माथुर आनन्द कृष्ण
आनन्द के. माथुर एण्ड कम्पनी पी.बी. नं. 7200
इन्द्र प्रस्थ हैड पोस्ट ऑफिस, बी.एस. जफर मार्ग,
नई दिल्ली-110002
164. 081117 श्री अग्रवाल अरूण कुमार
अरूण अग्रवाल एण्ड एसोसिएट्स एन-141
साऊथ सिटी, ऑफ दिल्ली जयपुर हाईवे नं. 8,
गुडगांव
165. 081143 श्री कलानी रमेश कुमार
हाऊस नं. 772 सैक्टर 2, पंचकुला
166. 081297 श्री राय अशोक
अशोक राय एण्ड कम्पनी फ्लैट 301, नीलगिरी
अपार्टमेंट्स, 9 बाराखम्भा रोड,
नई दिल्ली-110001
167. 081349 श्री गुप्ता राज भूषण
1368-बी, सैक्टर-14 फरीदाबाद
168. 081393 श्री मेहता सतीश चन्द
काउंसलर, पैरामाउण्ट मिशन ऑफ इंडिया टू दा
यू.एन. न्यू यार्क, सी/ओ.-डिप्लोमैटिक
बैग सैक्शन, मिनिस्ट्री ऑफ एक्स. अफेयर्स साऊथ
ब्लाक, नई दिल्ली
169. 081415 श्री अयंगर आर.प्रसन्न कुमार
सी/ओ.-शोभिता मोहन 174-बी. डी.डी.ए. फ्लैट
राजौरी गार्डनस, नई दिल्ली-110027
170. 081454 श्री लुगानी भुसरत कुमार
105 जैना एस. रमेश दीप 11 युसूफ सराय
कमर्शियल काम्पलैक्स नई दिल्ली-110049
171. 081679 श्री धवन इन्द्र जीत
स्वार्थिक सदन कलिफंट एसटेट,
शिमला-171001
172. 081692 श्री मलिक अनिल
डायरेक्टर (फाइनेंस) इथ लि., 7 शामनाथ मार्ग,
दिल्ली-110054
173. 081722 श्री बंसल वेद प्रकाश
अपो. हरियाणा मिष्ठान भंडार ओल्ड रोहतक रोड,
सोनीपत-131001
174. 081725 श्री शर्मा बलराज
महाराज बलराज एण्ड कम्पनी पी.डी.-1ए
डी.डी.ए. फ्लैट्स विशाखा एन्क्लेव पीतम पुरा,
दिल्ली-110034
175. 081729 श्री कालरा सुरेन्द्र कुमार
बी-139 मानवीया नगर, नई दिल्ली-110017
176. 081734 श्री सदाना राजन
ए-641 सुशांत लोक गुडगांव '122002
177. 081753 श्री अशोक कुमार
सहागल एण्ड कम्पनी बी-4/5 मॉडल टाउन-I,
दिल्ली-110009
178. 081766 श्री अतुल कुमार
ए. माथुर एण्ड एसोसिएट्स, 302 तीसरी मंजिल,
16-ए उदय पार्क, नई दिल्ली-110049
179. 081804 श्री विजय कुमार
डी-191 साकेत, नई दिल्ली-110017
180. 081842 श्री राज कुमार
सी-428, सरिता विहार, नई दिल्ली-110044
181. 081968 श्री गोयल प्रेम कृष्ण
3038 गुरु काशी मार्ग, भर्तीडा-151001
182. 082022 श्री भाटीया हरि ओम
एच-242, अशोक विहार फेस-I,
नई दिल्ली-110052
183. 082031 श्री अग्रवाल सुभाष सी.
50-ए, पॉकेट-I दिलशाद गार्डन, दिल्ली-110095
184. 082050 श्री गुप्त गिरिश
जी. गुप्त एण्ड कम्पनी 5 साधना एन्क्लेव,
नई दिल्ली-110017
185. 082160 श्री शिव कुमार
फ्लैट नं. 13, न्यू डिलक्स अपार्टमेंट्स, सैक्टर-9,
प्लॉट नं. 11, रोहिणी, दिल्ली-110085

186.	082254	श्री भटनागर राजवीर सी. फाइनैस मैनेजर इंडियन ऑयल कार्पोरेशन, युसूफ सराय, नई दिल्ली-110016	203.	083090	श्री छाबडा संजीव 7ए/31 डब्ल्यू.ई.ए. करोल बाग, नई दिल्ली-110005
187.	082303	श्री भटनागर अजय पी.ओ. बाक्स 41155 गेबेरान, बोतस्वाना	204.	083105	श्री मंजीत कुमार 2667 अशवोद सी.टी. ग्रैंड प्रेरी, टी.एक्स. 75032, यू.एस.ए.
188.	082340	श्री वासुदेवा राजीव साचार वासुदेवा एण्ड एसोसिएट्स, एक्स-हौज खास, नई दिल्ली-110016	205.	083155	श्री टंडन लव कुमार 7-ए मैडिकल एन्क्लेव अमृतसर-143006
189.	082369	श्री बंसल अशोक कुमार 304 दिल्ली चैम्बर 3453 दिल्ली गेट, दिल्ली-110006	206.	083191	श्री महेश भूषण एम. भूषण एण्ड एसोसिएट्स, फ्लैट नं.-117 एस.एफ.एस. फ्लैट्स, अशोक विहार फेस-IV, दिल्ली-110052
190.	082388	श्रीमति वर्मा राकेश एम/एस. आर.पी. एण्ड एसोसिएट्स मं.नं. 1099, विकास कृँज, विकास पुरी, नई दिल्ली-110018	207.	083231	श्री अग्रवाल अवनीश कुमार ए-373 ए, सुभाष मार्किट कोटला मुबारकपुर, नई दिल्ली-110003
191.	082414	श्री धवन राजन बी-12 कमपीटेंट हाउस एफ-14 कर्नाट प्लेस, नई दिल्ली-110001	208.	083232	श्री गुप्ता हर्ष के. के.बी. चन्दन एण्ड कम्पनी ई-27, साऊथ एक्स.-II, नई दिल्ली-1100049
192.	082418	श्री मित्तल मुकेश जी-110 अशोक विहार फेस-I, दिल्ली-110052	209.	083236	श्री संजीव कुमार संजीव कुमार एण्ड कम्पनी के-48 कीर्ति नगर, नई दिल्ली-110015
193.	082493	श्री मल्होत्रा संजीव 89, पुर्वी मार्ग बसंत विहार, नई दिल्ली-110057	210.	083247	श्री मेहता अर्जुन राज अर्जुन मेहता एण्ड कम्पनी 401 व्हाइट हाउस, 382 संत नगर ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली-110065
194.	082596	श्री गुलाटी मनु देव एम.डी. गुलाटी एण्ड एसोसिएट्स 8/5 डब्ल्यू.ई.ए. करोल बाग, नई दिल्ली-110005	211.	083263	श्री सुन्दर नूरानी ब्लॉक 643 03-281 हौगंज एवेन्यू 8 शिगापुर-530643
195.	082656	श्री संजय कुमार ई-14 प्रसाद नगर, नई दिल्ली-110005	212.	083270	श्री जैन अनिल कुमार अनिल जैन कुमार एण्ड कम्पनी 10 गुरु नानक मार्किट, हजूर रोड, लुधियाना-141001
196.	082780	श्री शर्मा रमेश कुमार रमेश के. शर्मा एण्ड कम्पनी, बी-1, न्यू यूनिवर्सिटी कैम्पस, अपो. एम.ए.एम. कालेज, जम्पू तवी-180001	213.	083375	श्री कालरा रजनी कांत कालरा एण्ड कम्पनी 241 मॉडल टाउन, हरियाणा, सोनीपत-131001
197.	082787	श्री आहूजा मनोज कुमार एम.के. आहूजा एण्ड एसोसिएट्स, हाऊस नं. 1430 सेक्टर-15, पंचकुला-134115	214.	083440	श्री सयाल संजीव डवलू-20, ग्रीन पार्क, नई दिल्ली-110016
198.	082953	श्री कुमार इन्दर जीत I कुमार एण्ड कम्पनी 33 यू.ए. (5973), जवाहर नगर, दिल्ली-110007	215.	083485	श्रीमति अरोडा मधु अपार्ट. 611-250 वैब ड्राईव मिसीसौगा, अंटारियो एल5बी 3जैड4 कनाडा
199.	082986	श्री मित्र बिसवजीत फ्लैट नं. 305 1191/6 इलाही बकस रोड, नईवाला करोल बाग, नई दिल्ली-110001	216.	083489	श्री गुम्बर रमन कुमार एल-22 इन्द्र प्रस्थ अपार्टमेंट्स प्लॉट नं. 114, पटपड़ गंज, दिल्ली-110092
200.	083019	श्री जोशी अनूप कुमार एम.के. गोस्वामी एण्ड कम्पनी, 4/8 आसफ अली रोड, नई दिल्ली-110002	217.	083525	श्री मार्या मनोज 941, सेक्टर-9, हरियाणा पंचकुला-134109
201.	083038	श्री सतीजा कांति रमन 291 जागृति एन्क्लेव विकास मार्ग, दिल्ली-110092			
202.	083080	श्री महेश्वरी चन्द्रेश सी/ओ. के.ए. जैन एण्ड एसोसिएट्स, आर-10 ग्रीन पार्क एक्स्टेंशन, नई दिल्ली-110016			

218.	083549	श्री कपूर रवि कांत एम/एस. रवि के. कपूर एण्ड एसोसिएट्स 10173/15/2 अब्दुल अजील रोड, डबलू.जे.ए. करोलबाग, नई दिल्ली-110005	233.	083849	श्री कपूर तरविन्द्र सिंह 52 छोटी बारादरी दा मेल, पटियाला-147001
219.	083581	श्री आनन्द सुभाष 831 रोरी बाजार सिरसा 125055	234.	083895	श्री गुलाटी इकबाल सिंह बी.वी/469 मौहल्ला बाग शाह तरन तारन, अमृतसर-143401
220.	083647	श्री सिंह अजीत सतविन्द्र अजीत एण्ड एसोसिएट्स डी-86 गुलमोहर पार्क नई दिल्ली-110049	235.	083990	मल्होत्रा राजीव ए-155, गुजरांबाला टाउन पार्ट-I, दिल्ली-110009
221.	083650	श्री अग्रवाल नरेश चन्द डी-8 गली नं. 8 ज्योति कॉलोनी, शाहदरा दिल्ली-110032	236.	084032	श्री चोपड़ा राजीव सी/ओ. श्री एस.एस. चोपड़ा ए-जैट-23, मियावाली नगर, रोहतक रोड, नई दिल्ली-110041
222.	083692	श्री ग्रेवाल हरचरण सिंह ग्रेवाल एण्ड कम्पनी 204 प्रकाश टावर, जे-ब्लाक मार्केट, अशोक विहार-I, दिल्ली-110052	237.	084038	श्री शर्मा शता नन्द ए-146, तीसरी मंजिल शकरपुर, विकास मार्ग, दिल्ली-110092
223.	083700	श्री बेहल राजेश 805 एन.ए.सी. मनीमाजरा, चंडीगढ़	238.	084106	श्री अशवनी कुमार गलहोत्रा मार्ग एण्ड कम्पनी, टिक्का बिल्डिंग, रेलवे रोड, कुरुक्षेत्र-132118
224.	083704	श्री विरेन्द्र कुमार बिन्डलिश एण्ड विरेन्द्र एसोसिएट्स हाउस नं. 1173, सैक्टर 15-II, गुडगांव	239.	084181	श्री टोडर मल स्को नं. 383 सैक्टर-डी, चंडीगढ़-160017
225.	083742	श्री बक्शी गौतम सी/ओ. दस्क विले टैक्नॉलाजीस लि. 227 ओखला इंडस्ट्रीयल एस्टेट, फेस-III, नई दिल्ली-110020	240.	084185	श्री गुप्ता सुशील कांत डी-131 दूसरी मंजिल न्यू राजेन्द्र नगर, नई दिल्ली-110060
226.	083745	श्री मित्तल प्रदीप कुमार एम/एस. प्रदीप के. मित्तल एण्ड एसोसिएट्स बी-डी8 विशाख एन्क्लेव, पीतम पुरा, दिल्ली-110034	241.	084222	श्री लाल अमरजीत सिंह मैनेजिंग डायरेक्टर लालसन फाइनेंशियल एण्ड मैनेजमेंट सर्विस 1692 आर्या समाज रोड, करोल बाग, नई दिल्ली-110005
227.	083777	श्री चौधरी हरप्रीत 1465 जपौल सन जोस, सी.ए., यु.एस.ए.-95132	242.	084223	श्री अग्रवाल महेश कुमार जी-406, रश्मि अपार्टमेंट्स अमृत कार्पोरेटिव ग्रुप एच.एस.जी. सोसाइटी, हर्ष विहार, पीतमपुरा, दिल्ली-110034
228.	083778	श्री जैन प्रदीप कुमार एम/एस. प्रदीप के. एण्ड एसोसिएट्स दरियागंज, नई दिल्ली-110002	243.	084226	श्री कनोतरा मुकेश प्रदीप जिन्दल एण्ड कम्पनी 2936/43 बिडोनपुरा सरस्वती मार्ग करोलबाग, नई दिल्ली-110005
229.	083787	श्री पारथी दीपक डी-6/10 बसंत विहार नई दिल्ली-110057	244.	084292	श्री चटर्जी जयदीप 85, दयागंज नई दिल्ली-110002
230.	083790	श्री केशवानी गोविन्द राम जी.आर. केशवानी एण्ड कम्पनी 9/6707 देव नगर, करोल बाग, नई दिल्ली-110005	245.	084397	श्री अग्रवाल विवेक कुमार ए-701 सी.ए. अपार्टमेंट्स पश्चिम विहार, नई दिल्ली-110063
231.	083807	श्री धवन रवि रवि धवन एण्ड एसोसिएट्स सी-458, डिफेंस कालोनी, नई दिल्ली-110024	246.	084402	श्री सतीश कुमार सतीश के. सूद एण्ड एसोसिएट्स 5493/2 कैट-II, मार्टन रैजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, मनीमाजरा, चंडीगढ़-160017
232.	083828	श्री मल्होत्रा संदीप 89, पूर्वी मार्ग बसंत विहार, नई दिल्ली-110057	247.	084415	श्री सुरेश कुमार सुरेश के. अलीपुरिया एण्ड एसोसिएट्स मं. नं. 1320 फेस-I, अरबन एस्टेट, जालन्धर सिटी, जालन्धर-144005

248.	084446	श्री जयसवाल राजीव कुमार जयसवाल एसोसिएट्स ए-160 दूसरी मंजिल विकास मार्ग, मेन रोड शाहदरा, दिल्ली-1100092	263.	084829	श्री मेथल अतुल बी.एम-1, पूर्वी शालीमार बाग, दिल्ली-110088
249.	084474	श्री विज हेमन्त हेमन्त विज एण्ड कम्पनी बी-231 ग्रेटर कैलाश-I, ग्राउण्ड फ्लोर (रियर), नई दिल्ली-110048	264.	084849	श्री गुप्ता विजय कुमार 315 साऊथ एक्स. प्लाजा II मस्जिद मोठ नई दिल्ली-110049
250.	084526	श्री रावत रामपाल सी-3ए, फ्लैट नं. 26-बी जनकपुरी, दिल्ली-110058	265.	084850	श्री नरेश कुमार नरेश कपूर एण्ड एसोसिएट्स बी-38 न्यू गोबिन्दपुरा, कृष्ण नगर दिल्ली-110051
251.	084545	श्री लेख राज 9/6872, आर्या समाज स्ट्रीट गाँधी नगर, दिल्ली-110031	266.	084855	श्री गुलाटी अरूण अरूण गुलाटी एण्ड कम्पनी, फ्लैट नं. 5ए ब्लाक सी.ए. एम.आई.जी. फ्लैट्स एन.के. कालोनी, शालीमार बाग, नई दिल्ली-110052
252.	084589	श्री मल्होत्रा अनिल कुमार अनिल के. मल्होत्रा एण्ड एसोसिएट्स फ्लैट नं. 101 बी-95 दुग्गल कालोनी, देवली रोड, नई दिल्ली-110062	267.	084861	श्री सरदाना राजीव राजीव सरदाना एण्ड कम्पनी, बी-2/175 सफदरजंग एन्क्लेव, नई दिल्ली-110002
253.	084604	श्री चोपड़ा विनोद विनोद चोपड़ा एण्ड एसोसिएट्स एन-38 पंचशीला पार्क, नई दिल्ली-110017	268.	084898	श्री गुप्ता अजय कुमार अजय कुमार गुप्ता एण्ड कम्पनी, 4596/2, रघुनाथ भवन 11, दरियागंज, नई दिल्ली-110002
254.	084629	श्री गुप्ता सुधीर कुमार बी-123, गणेश नगर अपो. जनकपुरी चैक पोस्ट, मेन नजफगढ़ रोड, नई दिल्ली-110018	269.	084918	श्री कोहली राजन 2705 बेसमेंट बैंक स्ट्रीट करोल बाग, नई दिल्ली-110005
255.	084654	श्रीमति मीना कुमारी Iए 53ए अशोक विहार फेस-I, दिल्ली-110052	270.	084984	श्री जैन अनिल कुमार 1717, अरबन एस्टेट सेक्टर-4, गुडगांव-122001
256.	084675	श्री सिंह दलजीत दलजीत सिंह एण्ड कम्पनी 2 चन्द्रपुरी, टेलोर रोड, अमृतसर-143001	271.	084987	श्री भार्गव देवेन्द्र डी. 26 नेताजी सुभाष मार्ग, नई दिल्ली-110002
257.	084681	श्री दीवान अश्वनी ए-II/87, सफदरजंग एन्क्लेव नई दिल्ली-110029	272.	084991	श्री बग्गा अमर जीत सिंह 97-बी पॉकैट-सी सिद्धार्थ एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110014
258.	084683	श्री वैकटेश चारी एम/एस. चारी एण्ड रवि 114 जोरबाग, नई दिल्ली-110003	273.	085008	श्री सूरी रवि टी-64, न्यू रोहतक रोड नई दिल्ली
259.	084695	श्री गुप्ता बाबू लाल एम/एस.बी.एल. गुप्ता एण्ड एसोसिएट्स 189, सेक्टर-37, हरियाणा फरीदाबाद	274.	085032	श्रीमति सेतिया सुजाता सुजाता सेतिया एण्ड एसोसिएट्स, ए-64 राजीवी गार्डन, नई दिल्ली-110027
260.	084723	श्री भल्ला हरदीप 3-बी टैगोर नगर लुधियाना-141001	275.	085096	श्री खातीब परवेज इकबाल परवेज खातीब एण्ड कम्पनी, नियर गुरुद्वारा लखदाता बाजार, जम्मू तवी-180001
261.	084735	श्री चोपड़ा संजीव सी-3ए/44ए, जनकपुरी नई दिल्ली-110058	276.	085148	श्री पन्नू गुनजीत सिंह बी-97, अशोक विहार, फेस-1, दिल्ली-110052
262.	084761	श्री जैन संजीव कुमार जैन एण्ड विनय एसोसिएट्स 7575 राम नगर ओल्ड बर्फ खाना, पहाडगंज नई दिल्ली-110055	277.	085169	श्री बक्शी नरेश एन. बक्शी एण्ड कम्पनी, बी-38 इन्दरपुरी, नई दिल्ली-110012
			278.	085190	सुरेन्द्र कुमार एस.के. मेडीरता एण्ड एसोसिएट्स, 51 सिंगल स्टोरी फ्लैट्स, ज्वाला हेडी पश्चिम विहार, नई दिल्ली-110063

279.	085207	श्री अवनीश कुमार 1एफ/40, एन.आई.टी. फदीदाबाद-00	296.	085501	श्री साहबी रमन कुमार सी/ओ. इनोवा प्रोसेसर्स कम्पनी एल.एल.सी. पी.ओ. बाक्स 25902, दुबई यू.ए.ई.
280.	085239	श्री तलवार अशोक एन-125 ग्रेटर कैलाश-I, नई दिल्ली-110048	297.	085520	श्री ओबेराय संजीव सी-5ए/49 जनकपुरी नई दिल्ली-110058
281.	085247	श्री जैन कमल रूम नं. 206, डब्लू.पी. शिव मार्केट, अशोक विहार, दिल्ली-110052	298.	085657	श्री उप्पल संजय 1128, पोम एवेन्यू, सन्निवेल, सी.ए. 94087, यू.एस.ए.
282.	085248	श्री भाटिया संजीव कुमार 1414, डा0 मुखर्जी नगर दिल्ली-110009	299.	085674	श्री हस चन्द्र 501 सैक्टर-23, हरियाणा, गुडगांव
283.	085255	श्री छत्रबहा राजेश कुमार 911, सैक्टर-15 पार्ट-II गुडगांव	300.	085679	श्री कुलकर्णी निखिल पी. निखिल पी. कुलकर्णी एण्ड एसोसिएट्स, ए-137 मधुबन, आई.पी. एक्सटेंशन, दिल्ली-110092
284.	085257	श्री सचदेवा संजय 57-ए, दूसरी मंजिल संत नगर, ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली-110065	301.	085704	श्री गुप्ता अनिल कुमार बी-40 मनु अपार्टमेंट्स मयूर विहार फेस ए-1, दिल्ली-110091
285.	085286	श्री रोहित प्रसाद 3/17 ए आसफ अली रोड ग्रोवर मैनसन तीसरी मंजिल नई दिल्ली-110002	302.	085748	श्री सिंह हरपाल हाउस नं. 2533 फेस-7, मोहाली
286.	085291	श्री गुप्ता श्याम प्रकाश 43, जी.एफ, दरियागंज नई दिल्ली-110002	303.	085792	श्री खन्ना सुनील राय बी.जी-40 शालीमार बाग (पूर्वी) दिल्ली-110088
287.	085298	श्री राकेश कुमार दा न्यू इंडिया एसयोरेंस कम्पनी लि. 19, कम्यूनिटी सेंटर, न्यू फ्रेन्ड्स कालोनी, नई दिल्ली-110065	304.	085837	श्री महिन्द्र कुमार शॉप नं. 33, शालीमार मंडी, रोहतक-124501
288.	085300	श्री राजेश कुमार 23, पॉपुलर अपार्टमेंट्स, 20/1ए सैक्टर-13, रोहिणी, दिल्ली-110085	305.	085840	श्री गुप्ता विनोद कुमार 2169, मेन पटेल रोड, वैस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली-110008
289.	085336	श्री राजेश्वर प्रसाद बी-19 गुलमोहर पार्क नई दिल्ली-110049	306.	085854	श्री अग्रवाल विरेन्द्र कुमार विरेन्द्र के. अग्रवाल एण्ड कम्पनी, ए-2/166 जनकपुरी, नई दिल्ली-110058
290.	085337	श्री जैन राजेश 107 गुप्ता कार्नर बी-1/1 कमर्शियल काम्पलैक्स आजादपुर, दिल्ली-110033	307.	085873	श्री शर्मा राकेश सी-8/1-ए बसंत विहार नई दिल्ली
291.	085351	श्री गोपाला कृष्णन एस. फ्लैट नं. 190 पॉकेट-बी एस.एफ.एस. डी.डी.ए. फ्लैट्स, सुखदेव विहार, नई दिल्ली-110025	308.	085926	श्री टुबलीश संजीव कुमार इ-304, प्रिंस अपार्टमेंट्स पटपडगंज रोड, दिल्ली-110092
292.	085399	श्री आहुजा कमल 1ए/52 ए अशोक विहार फेस-I, दिल्ली-110052	309.	085939	श्री रंधावा संजीत सिंह एस.एस. रंधावा एण्ड कम्पनी 2142 सैक्टर-35सी., चंडीगढ़-160036
293.	085405	श्रीमति सुद बंदना 92 जोर बाग नई दिल्ली-110003	310.	085951	श्री अनिल कुमार अनिल मंजू एण्ड एसोसिएट्स, एम-5 11/8-बी तिवारी चैम्बरस, पूसा रोड, नई दिल्ली-110005
294.	085441	श्री गुप्ता राजेश राजेश प्रकाश एण्ड कम्पनी, सी-781, सैक्टर-7 (हरियाणा), फरीदाबाद-121002	311.	085958	श्री मल्होत्रा रमन कुमार एपी-22बी पीतम पुरा दिल्ली-110034
295.	085488	श्री शर्मा राजन राजन गौतम एण्ड एसोसिएट्स, मं.नं. 16, फदीदाबाद-121002	312.	086031	श्री टंडन राजीव सी-124, लाजपत नगर-1 नई दिल्ली-110024

313.	086151	श्रीमति त्रिपाठी नीलिमा एफ-9-ए, भवन दास नगर ईस्ट पंजाबी बाग, नई दिल्ली-110026	328.	086454	श्री उपाध्याय श्री कान्त आर-52 तीसरी मंजिल विकास मार्ग, शकरपुर, दिल्ली-110092
314.	086199	श्री गुप्ता सुबोध सुबोध गुप्ता एण्ड कम्पनी, ई-36 साऊथ एक्स. पार्ट-1, नई दिल्ली-110049	329.	086457	श्री गुप्ता नीरज कुमार 740 सैक्टर 15ए फरीदाबाद
315.	086213	श्री सुरेन्द्र सिंह एस.एस. संधी एण्ड एसोसिएट्स हाऊस नं. 7 वी एण्ड पीओ डडविंडी, डिस्टी. कपूरथला (पंजाब), डडविंडी	330.	086500	श्री गुप्ता नागेश कुमार नागेश गुप्ता एण्ड कम्पनी, कालंदरी गेट, जी.टी. रोड, करनाल-132001
316.	086247	श्री मारवाह रामन मारवाह रामन एण्ड एसोसिएट्स, मोहन निवास 39 ब्राउन रोड, लुधियाना-110025	331.	086503	श्री शर्मा अरूण सी ओ. पराईस वाटर हाउस कॉपर पी.ओ. बाक्स नं. 294, गैबोरोन बोतस्वाना
317.	086254	श्री माथुर राजेन्द्र बहादुर 91-बी पॉकेट ए, डी.डी.ए. फ्लैट्स सुखदेव विहार नई दिल्ली-110025	332.	086577	श्री कौशल अरूण कुमार 304-सी डी.डी.ए. फ्लैट्स मयूर विहार फेस-II, दिल्ली-110091
318.	086260	श्री गुप्ता भगवान दास 3618/11/1, एन.एस. मार्ग दरियागंज, नई दिल्ली-110002	333.	086581	श्री मदन पंकज डी-64, पहली मंजिल मेन विकास मार्ग, शकरपुर, दिल्ली-110091
319.	086268	श्री गोगिया सतीश सतीश गोगिया एण्ड एसोसिएट्स 133, सत्य निकेतन, मोती बाग-II नई दिल्ली-110021	334.	086605	श्री विरमानी दीपक दीपक विरमानी एण्ड कम्पनी, सी-11 चिंतामन एन्क्लेव, नई दिल्ली-110048
320.	086277	श्री वाही अनिल 15 कम्प्यूनिटी सेंटर ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली-110001	335.	086703	श्री मनोहर कुमार जे-140 सरिता विहार नई दिल्ली-110044
321.	086330	श्री अग्रवाल मुकेश कुमार सी-61 फेस-I, अशोक विहार, दिल्ली-	336.	086757	श्री गुप्ता विजय सी/ओ. फोर टैक इंजीनियर्स 16/5 मथुरा रोड, फरीदाबाद-121002
322.	086345	श्री अलावादी राजीव राजीव अलवदी एण्ड कम्पनी एम-8/23 डी.एल.एफ. कुतब एन्क्लेव, फेस-II, गुडगांव-122002	337.	086778	श्री गुप्ता राकेश कुमार राकेश हंस राज गुप्ता एण्ड कम्पनी, 113, भाग्य लक्ष्मी अपार्टमेंट्स प्लॉट नं. 24/3, सैक्टर-9, रोहिणी, दिल्ली-110085
323.	086369	श्री आजाद संजय पी.ओ. बाक्स-1408 फ्रैंचिस टाउन, बोस्तवाना	338.	086783	श्री अग्रवाल रवि कुमार रवि शुभ एण्ड एसोसिएट्स, जे-6 न्यू गोविंद पुरा एक्स. अनारकली रोड, दिल्ली-110051
324.	086374	श्री श्रीनाथ एस. एस. श्रीनाथ एण्ड एसोसिएट्स, डी-201, यमुना अपार्टमेंट्स, अलकनन्दा कालका जी, नई दिल्ली-110092	339.	086870	श्री शर्मा आनंद मूर्ति स्पेशल प्रोजेक्ट्स मैनेजर एच.एस.बी.सी. बैंक मिडिल ईस्ट, पी.ओ. बाक्स 66, दुबई यू.ए.ई.
325.	086383	श्री मंगल अजय ए-22, आनंद विहार दिल्ली-110092	340.	086907	श्री कपूर राजीव 3017, रंजीत नगर नियर साऊथ पटेल नगर, नई दिल्ली-110008
326.	086400	श्री व्यास योगेश गुलाटी व्यास एण्ड एसोसिएट्स, फ्लैट नं. 47, पॉकेट-ए 1, सैक्टर-7 रोहिणी, दिल्ली-110085	341.	086909	श्री सिक्का राकेश राकेश सिक्का एण्ड एसोसिएट्स, सी-2डी/10सी जनक पुरी, नई दिल्ली-110058
327.	086413	श्री टंडन राजीव कुमार 10-ए/17, शक्ति नगर, दिल्ली-110007	342.	086922	श्री अग्रवाल मनोज कुमार मनोज के. अग्रवाल एण्ड एसोसिएट्स, बी-28, सुभाष चौक, लक्ष्मी नगर, दिल्ली-110092

343.	086959	श्री गर्ग आनन्द स्वरूप शर्मा गर्ग एण्ड बंसल चैम्बर नं. 225, डी-288 वधवा काम्पलैक्स, स्ट्रीट नं. 10, लक्ष्मी नगर, दिल्ली-110092	357.	087315	श्री अग्रवाल सुनील कुमार सुनील के. अग्रवाल एण्ड कम्पनी 1213/5 दूसरी मंजिल पेरेलाल रोड नाईवाला करोल बाग नई दिल्ली-110005
344.	087018	श्री सरिन राजू ई-2/2 झण्डेवालान एक्स. नई दिल्ली-110055	358.	087316	श्री जैन संदेश कुमार 111, जीवन विला दरियागंज, नई दिल्ली-110002
345.	087049	श्री जैन संजय 19 जैन भवन 12 भगत सिंह मार्ग, नई दिल्ली-110001	359.	087376	श्री नरूला रजत रजत नरूला एण्ड एसोसिएट्स, 96 काली जन्नी जम्मू तवी-180001
346.	087051	श्री गोगिया सुभाष चन्द 2137, गली नं. 59 (दूसरी मंजिल) नाईवाला, करोलबाग, नई दिल्ली-10005	360.	087379	श्री जैन कमल कुमार 9ए, विकास काम्पलैक्स (बेसमेंट) 36, बी.एस. ब्लाक, विकास मार्ग, शकरपुर, दिल्ली-110092
347.	087058	श्रीमति गुप्ता प्रवीन बी-40, मानू अपार्टमेंट्स दूसरी मंजिल, मयूर विहार फेस-II, दिल्ली-110091	361.	087413	श्री कामथ उदय कुमार एम/एस यू.के. कामथ एण्ड एसोसिएट्स फ्लैट नं. एम-1 मज्जी नौवी मंजिल, 6 कम्प्यूनिटी सेन्टर नारायना नई दिल्ली-110028
348.	087088	श्री नरेश कुमार नरेश धर्माजा एण्ड कम्पनी, 102 पालको हाउस 2162/टी-10, गुरु अर्जुन नगर वैस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली-110008	362.	087436	श्री कर्वा रमेश कुमार आर.के. कर्वा एण्ड एसोसिएट्स, डी-266, पीतमपुरा, दिल्ली-110034
349.	087160	श्री सुद राजीव कुमार सुद चावला एण्ड एसोसिएट्स जी-55 रॉयल प्लेस, विकास मार्ग लक्ष्मी नगर, दिल्ली-110092	363.	087457	श्री लारोइआ संजीव भल्ला एण्ड लारोइआ 504 सावित्री सिनेमा काम्पलैक्स, ग्रेटर कैलाश-II, नई दिल्ली-110048
350.	087170	श्री कर्म वीर कल्याण देव फ्लैट नं. 23सी नील कांत अपार्टमेंट्स, 46 आई.पी. एक्स. दिल्ली-110016	364.	087473	श्री अबोट संदीप 11104 डोरीवालान करोलबाग, नई दिल्ली-110005
351.	087183	श्रीमति सिंह तान्या ए. एडवैस्ट मार्किटिंग सर्विस प्रा.लि. सो-2 ग्रीन पार्क एक्स. नई दिल्ली-110016	365.	087511	श्रीमति कवालेकर राजेश्वरी जीओक एफेक बिल्डिंग, 1 रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001
352.	087212	श्री खेरा अरूण बी-32, कीर्ति नगर, नई दिल्ली-110015	366.	087515	श्री कश्मीर लाल हाउस नं. 30 शिवालिक अपार्टमेंट्स प्लॉट नं. 105, इन्द्र प्रस्थ एक्स. दिल्ली-110092
353.	087214	श्री हरमिलापति मुकूल 73 स्टेट बैंक कॉलोनी जी.टी. रोड, दिल्ली-110033	367.	087558	श्री रजनीश बहल डडू एण्ड एसोसिएट्स डी-65 प्रीत विहार, दिल्ली-110092
354.	087226	श्रीमति कपूर रीना जनरल मैनेजर-कमर्शियल, वर्ल्डपूल ऑफ इंडिया लि., ए-8, वैटालिक कुतब इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली-110067	368.	087570	श्री भाटिया अनिश अनिश भाटिया एण्ड एसोसिएट्स, 4/57 रूप नगर दिल्ली-110007
355.	087274	श्री गिरोत्रा राजेश सी/ओ. नवरंग साडी हाउस मेन बाजार पठानकोट, डिस्टी. गुरदासपुर (पंजाब), पठानकोट-145001.	369.	087582	श्री अग्रवाल देवेश कुमार सी-51 सूचना अपार्ट. वसुंधरा एन्क्लेव, दिल्ली-110096
356.	087277	श्री रेवारी संजय सी-109 पुष्पांजली एन्क्लेव पीतमपुरा, दिल्ली-110034	370.	087585	श्री गुप्ता अतुल अतुल गुप्ता एण्ड कम्पनी, 2365 सैक्टर-38-सी चंडीगढ़-160036
			371.	087586	श्री दिनेश कुमार 303-ए, सस्को भवन आजादपुर कमर्शियल काम्पलैक्स, दिल्ली-110006

372. 087600 श्री चौधरी रवनीत सिंह
रवनीत सिंह चौधरी एण्ड एसोसिएट्स सी-32
डिफेंस कालोनी, नई दिल्ली-110024
373. 087621 श्री राय संजीव
असिस.वाईस प्रेजिडेंट-फाइनेंस एस्कोर्ट्स
फाइनेंस लि., एन-6 प्रताप बिल्डिंग, कर्नॉट
सर्कस, नई दिल्ली-110001
374. 087625 श्री सिंह हरलीन निर्मल
575, टोरलैंड कोर्ट सन्नीवेल, सीए 94087,
यू.ए.ई.
375. 087688 श्री गुप्ता अजय कुमार
अजय राज गुप्ता एण्ड कम्पनी 104 श्री गणेश
काम्पलैक्स, ई-35 जवाहर पार्क, लक्ष्मी नगर,
दिल्ली-110092
376. 087750 श्री सुशील कुमार
ए-2/37ए, केशव पुरम दिल्ली-110035
377. 087755 श्रीमति बालासुब्रमण्यम उमा
पॉलीमर लैण्ड इंडिया प्लॉट नं. 405-बी
सैक्टर 20, उद्योग विहार फेस-III,
गुडगांव-122016
378. 087813 श्री बेदी गगनदीप सिंह
फाइनेंस एण्ड एकाउंटिंग मैनेजर, फिलीपस मिडन
ऑसटन बी.वी. (फिलीपस ईस्ट), पी.ओ.
बाक्स 7785, दुबई, यू.ए.ई.
379. 087864 श्री विजय सिंह
ए-96/101 पहली मंजिल मेन रोड, गोप इंड.
एरिया, वजीरपुर, दिल्ली-1140046
380. 087894 श्रीमति वर्मा शैली
डब्ल्यूजैड-1247 ए/4 मांगल राया अपो.
जनकपुरी डी-ब्लाक, नई दिल्ली-110046
381. 087919 श्रीमति शर्मा सुजाता रानी
डी-650 सरस्वती विहार, दिल्ली-110034
382. 087960 श्री सहगल राजेश
सहगल राजेश एसोसिएट्स, 16-सी/सी गौंधी
नगर, (अपो. आकफ कमर्शियल काम्पलैक्स),
जम्मू तबी-180004
383. 088005 श्री पारथी विवेक
ए-166 (एस.एफ.) डिफेंस कालोनी,
नई दिल्ली-110024
384. 088036 श्री गर्ग मुकेश कुमार
मुकेश गर्ग एण्ड एसोसिएट्स 2/6095 स्ट्रीट नं.1
देव नगर करोल बाग, नई दिल्ली-110005
385. 088038 श्री टोय राजीव लक्ष्मण
बी-257 ग्रेटर कैलाश-I, नई दिल्ली-110048
386. 088047 श्री योगेन्द्र मेहता
25, चौ. देवी लाल मार्किट, जी.टी रोड,
फरीदाबाद-125050
387. 088062 श्री राज कुमार
राज कुमार जिन्दल एण्ड कम्पनी, लाल बाजार,
मालेरकोटला-148023
388. 088074 श्रीमति मितल अर्चना
12 मुनीरका मार्ग बसंत विहार,
नई दिल्ली-110057
389. 088201 श्री नागपाल रमेश कुमार
23-डी प्लॉट नं. 108 संचार लोक ग्रुप हाउसिंग
सोसाइटी, आई.पी. एक्स पटपडगंज,
दिल्ली-110092
390. 088225 श्री बखरू विनेश कुमार
विनेश बखरू एण्ड कम्पनी, 51-ए डी.डी.ए.
फ्लैटस मस्जिद मोठ, फेस-I,
नई दिल्ली-110048
391. 088296 श्री बहल रवि कान्त
वन/43 निर्मल पुरी ओल्ड डबल स्टोरी लाजपत
नगर-IV, नई दिल्ली-110024
392. 088302 श्री लाम्बा संजय
डी-27 पहली मंजिल सरिता विहार,
नई दिल्ली-110044
393. 088322 श्री दिक्षीत संदीप
कैप जैमिनी अर्नस्ट एण्ड यंग यू.एस.
एल.एल.सी. 2 कॉर्मस एस.क्यू. 2001 मार्किट
स्ट्रीट, फीलाडेलफिया-19103-7096 यू.एस.ए.
394. 088336 श्री राजेन्द्र कुमार
फ्लैट नं. 156 बी पॉकेट-IV, मयूर विहार,
फेस-I, दिल्ली-110091
395. 088339 श्री जैन कमलेश कुमार
कमलेश जैन एण्ड कम्पनी, 139-डी पॉकेट-बी
मयूर विहार फेस-II, दिल्ली-110091
396. 088350 श्रीमति गुप्ता मंजू
28/21 दूसरी मंजिल ओल्ड राजेन्द्र नगर,
नई दिल्ली-110060
397. 088427 श्री सलूजा अक्षय
ए-3/16 सी डी.डी.ए. फ्लैटस ग्रीन अपार्टमेंट्स
पश्चिम विहार, नई दिल्ली-110063
398. 088459 श्री भंडारी नीरज
नीरज भंडारी एण्ड कम्पनी, बी-88, अशोक
विहार, फेस-I, दिल्ली-110052
399. 088465 श्री शर्मा अशवनी
प्रवीण एण्ड शर्मा एसोसिएट्स, 110 गुप्ता
अपार्टमेंट्स, के-138 कालकाजी,
नई दिल्ली-110019
400. 088474 श्री बंसल संजीव कुमार
सी/ओ. विनोद हेमचन्द एण्ड एसोसिएट्स
1574/30, नाईवाला करोल बाग,
नई दिल्ली-110005

401.	088523	श्री टंडन संजय 155, वैस्ट, 68 स्ट्रीट अपार्ट. 612, न्यू यार्क-100023 यू.एस.ए.	417.	088936	श्री गुप्ता राजेश सी-297, सरिता विहार, नई दिल्ली-110044
402.	088537	श्री गुप्ता विनय प्रकाश 3575 लेहाई ड्राइविंग यूनिट नं.-24, सांता कालरा, कैलीफोर्निया-95051 यू.एस.ए.	418.	088939	श्री प्रदुमन कुमार दूसरी मंजिल जय सिंह काम्पलैक्स, 595 मॉडल टाऊन, (पी.बी.) लुधियाना-141002
403.	088556	श्री राजेन्द्र प्रसाद राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल एण्ड कम्पनी, एम.आई.जी. फ्लैट नं. 84 पॉकेट बी-5, सैक्टर-8 रोहिणी, दिल्ली-110085	419.	088969	श्री प्रेम सिंह 11, विवेकानन्द पुरी दिल्ली-110007
404.	088648	श्री सहगल राज कुमार आर.के. सहगल एण्ड एसोसिएट्स, 7-V-बेगम जैदी मार्केट, मोती बाग I, नई दिल्ली-110021	420.	089008	श्री खन्ना अनिल कुमार ए-118 विवेक विहार दिल्ली-110095
405.	088655	श्री चतुर्वेदी आशुतोष बी ए-37 मानसरोवरपार्क शाहदरा दिल्ली-110032	421.	089043	श्री कनोडिया अनिल कुमार ई-89 डी.डी.ए. फ्लैट्स नियर प्रेस एन्क्लेव, साकेत, नई दिल्ली-110017
406.	088660	श्री गोयल मुरारी लाल 2 ए दीपा अपार्टमेंट्स 10 आई.पी. एक्स, दिल्ली-110092	422.	089091	श्री सयाल संजय सी-2/9बी लुधियाना रोड दिल्ली-110035
407.	088666	श्री शर्मा राकेश कुमार डी-650 सरस्वती विहार दिल्ली-110034	423.	089112	श्री चावला हरीश हरीश चावला एण्ड एसोसिएट्स नं. 1, सैनिक विहार, दिल्ली-110034
408.	088734	श्री सुरी सुनील कुमार एस.के. एण्ड एसोसिएट्स मं.नं. 159 सैक्टर-70 एस.ए.एस. नगर, डिस्ट. रोपड़ (पंजाब) मोहाली-160059	424.	089134	श्री वर्मा अनू 305 ई 3081 गलेन ड्राइव कोकितलम (वैनकवर), बी.सी. कनाडा, कनाडा बी3बी 2पी8
409.	088757	श्री परमिन्दर सिंह 1558 सैक्टर-70 मोहाली	425.	089136	श्री सक्सेना अनिल ए-27/बी-6, लेन नं. 2 कृष्ण मार्केट मधुविहार पटपडगंज, दिल्ली-110092
410.	088813	श्री तलवार विनय ई-4, बाली नगर, दूसरी मंजिल नई दिल्ली-110015	426.	089144	श्री अनूप कुमार कुमार अनूप एण्ड कम्पनी बी-112/2 ईस्ट ऑफ कैलाश नई दिल्ली-110065
411.	088820	श्री मल्होत्रा अजय 6222 सैक्टर-सी पॉकेट-6 एण्ड 7, बसंत कुँज, नई दिल्ली-110070	427.	089204	श्री विजय कुमार 26, पहली मंजिल नेहरू सिद्धान्त केन्द्र, फिरोज गान्धी मार्केट, लुधियाना
412.	088834	श्री मलिक संजय संजय मलिक एण्ड कम्पनी, एम-48 कीर्ति नगर, नई दिल्ली-110015	428.	089217	श्रीमति शर्मा रितु सी/ओ. बी.डी. शर्मा पी.ओ. बाक्स 74, सफ्ट 13001, कुवैत
413.	088853	श्री नारायण लक्ष्मी एचएस-524 पहली मंजिल, स्कूल ब्लॉक शकरपुर, दिल्ली-110092	429.	089224	श्री भूपेन्द्र कुमार भूपेन्द्र अरोडा एण्ड एसोसिएट्स, डब्लूजैड-439 एम.एस. ब्लॉक, हरि नगर, नई दिल्ली-110064
414.	088881	श्री विशव ज्योति विशव ज्योति महाजन एण्ड कम्पनी, 715-सी सैक्टर 39, समलारा रोड, लुधियाना	430.	089227	श्री भाटिया रविन्द्र पॉल रविन्द्र भाटिया एण्ड एसोसिएट्स, 329-बी पॉकेट-II, मयूर विहार फेस-I, दिल्ली-110091
415.	088892	श्रीमति महेन्द्र कौर के-14 फतेह नगर नई दिल्ली-110018	431.	089325	श्री अग्रवाल अनुज 55-ए अर्जुन नगर, सफदरजंग एन्क्लेव, नई दिल्ली-110029
416.	088925	श्री अग्रवाल पीयूष पीयूष अग्रवाल एण्ड एसोसिएट्स हाउस नं.3437 सैक्टर-40 डी, चंडीगढ़-160014	432.	089368	श्री गुप्ता आलोक चीफ एकाउंटेंट अलनिमर स्ट्रीट ट्रेडिंग क्लक, पी.ओ. 6169, शरजाह यू.ई.
			433.	089422	श्री भगोलिवार संजय 134 न्यू सूर्य किरण अपार्टमेंट्स 65 आई.पी. एक्स, दिल्ली-110092

434. 089437 आचर्याय विक्रम कुमार
ए-332 डिफेंस कॉलोनी नई दिल्ली-110024
435. 089449 श्री जैन राजीव
1147, सैक्टर 16, फरीदाबाद-121002
436. 089571 श्री संजीव भाटिया
संजीव भाटिया एण्ड कम्पनी
एच-176 अशोक विहार, फेस-I,
दिल्ली-110052
437. 089581 श्री भट्ट सुशील कुमार
79 मुनीर मंजिल रीगल चौक, (जे & के),
श्री नगर,
438. 089594 श्री बंसल अशोक
रॉप नं. 15 मंगल मार्केट चर्खी दादरी,
(हरियाणा) भिवानी-127306
439. 089595 श्री ठकुराल सुनील
एम/एस. सुनील ठकुराल एण्ड कम्पनी 45,
अनूपम अपार्टमेंट्स, एम.बी. रोड,
नई दिल्ली-110030
440. 089598 श्री सुद कमल किशोर
ई-182 सरिता विहार नई दिल्ली-110044
441. 089637 श्री शर्मा वरूणा देवा
अर्नस्ट एण्ड यंग पी.ओ. बाक्स 74,
सफ्ट-13001 कुवैत
442. 089642 श्री माथुर राजीव
सी/ओ. एम.आर. शिवाजी बी 4/74 फेस-II,
अशोक विहार, दिल्ली-110052
443. 089666 श्रीमति प्रुथी विमी
एम/एस विमी अरोडा एण्ड एसोसिएट्स,
338, पॉकेट-सी, शेख सराय, फेस-I,
नई दिल्ली-110017
444. 089741 श्री अनेजा विजय
विजय अनेजा एण्ड एसोसिएट्स, 2467
राजपुरा टाउन, डिस्टी. पटियाला (पंजाब),
राजपुरा टाउन-140401
445. 089744 श्री खन्ना राकेश
पहली मंजिल 461 & 462 एस.सी.ओ.
सैक्टर 35-सी, चंडीगढ़-160022
446. 089817 श्री अरोडा रविन्द्र सिंह
सी4सी-14-120, जनकपुरी,
नई दिल्ली-110058
447. 089845 श्री शर्मा अनूपम
अनूपम शर्मा एण्ड एसोसिएट्स, 4837 गुरु
अर्जुन देव नगर, पी.ओ. खालसा कालेज,
अमृतसर-143001
448. 089887 श्री गोयल नितिन के.
40 इन्डस्ट्रीयल एरिया-1, चंडीगढ़-160002
449. 089903 श्री मधु सूदन
एम. सूदन एण्ड एसोसिएट्स, उप्पल विला,
744-ए, महावीर कालोनी,
यमुना नगर-135001
450. 089920 श्री जैन पंकज
ई-21-33 सैक्टर-III, रोहिणी, दिल्ली-110085
451. 089979 श्री फाजली मुनीब उमर
फैजल इस्लामिक बैंक ऑफ बहरीन पी.ओ.
बाक्स 3005, मनामा, बहरीन
452. 090080 श्री मेहता विशाल
विशाल मेहता एण्ड एसोसिएट्स, ए-367,
डिफेंस कालोनी, नई दिल्ली-110024
453. 090121 श्री मित्तल पंकज
पंकज मित्तल एण्ड एसोसिएट्स,
25 एच.आई.जी. हाउसिंग बोर्ड कालोनी,
कालका-133302
454. 090177 श्री शर्मा राकेश
61-सी, पार्क क्लब एल.एन. विलियम सूस,
न्यू यार्क-14221 यू.एस.ए.
455. 090182 श्री रिशि प्रकाश
रिशि प्रकाश एण्ड कम्पनी, ए-10, गुजरात
अपार्ट्स, परवाना रोड पीतमपुरा,
दिल्ली-110034
456. 090212 श्री सूता राहुल
बी-429, मीरा बाग नई दिल्ली-110063
457. 090260 श्रीमति कौर गुरविन्द्र
3एफ/44 नित फरीदाबाद
458. 090294 श्री गौंधी अजित
413 सुनहरी बाग अपार्टमेंट्स सैक्टर-13
प्लाट नं.-15, रोहिणी दिल्ली-110085
459. 090303 श्रीमति माथुर आभा
ए. माथुर एण्ड कम्पनी, जेडी-7ए क्रिस्टल
अपार्टमेंट्स, पीतमपुरा, दिल्ली-110034
460. 090338 श्री सेन दिबयेनदू
आर-207, ग्रेटर कैलाश-I नई दिल्ली-110048
461. 090340 श्री खरबंदा अरूण
जेपी-115 मौर्या एक्स्लेव, पीतमपुरा
दिल्ली-110034
462. 090346 श्रीमति वही सिमरन
1106, सैक्टर-ए पॉकेट-बी, बसंत कुंज,
नई दिल्ली-110070
463. 090353 श्री सुनील कुमार
सुनील कुमार शर्मा एण्ड कम्पनी,
सी/ओ. लालसन इन्डस्ट्रीज 10-एस स्वर्ण विहार
स्वर्ण धाम मार्ग नियर अग्रसेन हॉस्पिटल,
पटियाला-147001

464.	090371	श्री परनजेष धनंजय एम एफएफ-47, लक्ष्मी नगर दिल्ली-110092	481.	090974	भागी सुरेन्द्र मोहन मं.नं. 8253 मुलतानी बिल्डिंग रौशन आरा रोड, दिल्ली-110007
465.	090374	श्री कसलीवाल अनुज 144-47 ए, पाकेट-सी मयूर विहार-II,	482.	090994	श्री राज कुमार चौहान मं.नं. 3823 ए/7 कन्हैया नगर (त्रीनगर), दिल्ली-110035
466.	090395	श्री शर्मा अजय बी-1/464, जनकपुरी नई दिल्ली-110058	483.	090997	श्री सेठी पंकज 34/16 वैस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली-110008
467.	090435	श्री चौधरी आशीष कुमार एस-1/241 सादिक नगर नई दिल्ली-110049	484.	091008	श्री परवानी हिमांशु हिमांशु परवानी एण्ड कम्पनी, 42/1 ईस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली-110008
468.	090500	श्री संजीव कुमार 2250, लातूर पुरा अरना बरना, पटियाला-147001	485.	091012	श्री दत्ता नीरज मं.नं. सी-9008 बसंत कुँज, नई दिल्ली-110070
469.	090540	श्री राघवन एस. मुरली पी.ओ. बाक्स 27242 17 फ्लोर, अलमोसा टावर-II, शेख जैद रोड, दुबई यू.ए.ई.	486.	091043	श्री नारंग राजेन्द्र आर.के. नारंग एण्ड एसोसिएट्स, थाना रोड, फतेहाबाद-125050
470.	090642	श्री अग्रवाल विशाल पी.ओ. बाक्स 50574 दुबई	487.	091060	श्री शर्मा सुधीर कुमार सी/ओ. विजय शर्मा 306 मस्जिद मोती, एन.डी.एस.ई-II, नई दिल्ली-110049
471.	090651	श्री नन्दा संदीप एस.सी.ओ. 2ए दूसरी मंजिल सैक्टर-7 मध्य मार्ग, चंडीगढ़-160019	488.	091131	श्री छावडा अनुज 216 मॉडर्न अपार्टमेंट्स सैक्टर-15, रोहिणी, दिल्ली-110085
472.	090680	श्री चन्द्र मोहन एस.सी.ओ. 32, शंकर मार्किट, सेठी पैलेस रोड, अबोखर-152116	489.	091153	श्री देवेन्द्र कुमार दूसरी फ्लोर, 31-सी, मौहम्मदपुर, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066
473.	090689	श्री अग्रवाल अनुज एन.के. 244, चरनजीत पुरा जालंधर सिटी, जालंधर-144005	490.	091167	श्री मेहता कुलदीप 347-348 दूसरी मंजिल 12 स्ट्रीट, जोशी रोड, करोलबाग, नई दिल्ली-110005
474.	090725	श्री महारू राजेश कुमार राजेश मेहरा एण्ड कम्पनी, 99 दूसरी फाउंटेन प्लाजा, कम्प्यूजिटी रोड, लुधियाना-141001	491.	091173	श्री विजय कुमार मं.नं. 157 सैक्टर-17 पंचकुला-134109
475.	090738	श्रीमति मंजू लता बी-264 पहली मंजिल नियर पंजाब एण्ड सिंध बैंक, नेहरू ग्राउंड एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001	492.	091209	श्रीमति कौर दलजीत दलजीत एण्ड एसोसिएट्स, के.नं. 582 फेस-VII, मोहाली (नियर चंडीगढ़), मोहाली-160061
476.	090744	श्री अग्रवाल ललीत ई-81 दूसरी मंजिल ग्रेटर कैलाश-I, नई दिल्ली-110048	493.	091230	श्री जैन अरूण कुमार एम.आई.जी. फ्लैट नं. 117 सी पॉकेट- 'सी' फेस-II, झिलमिल, शिवम् एक्लेव, दिल्ली-110032
477.	090753	श्री रमेश कुमार 6/69 डब्लू.ई.ए. करोल बाग, नई दिल्ली-110005	494.	091238	श्री गर्ग कमल बी-2 इन्द्र प्रस्थ टावर वजीरपुर कमर्शियल काम्प्लैक्स, दिल्ली-110052
478.	090833	श्री हिमांशु मित्तल हाउस नं. 3398 सैक्टर-डी, पॉकेट-3, बसंत कुँज नई दिल्ली-110070	495.	091306	श्री गणेश अय्यर बी. 95 सुनील पार्क फिरोजपुर रोड, अपो. राजगुरु नगर, लुधियाना
479.	090865	श्री राजेश कुमार परख स्ट्रीट भद्रा बाजार, सिरसा-125055			
480.	090942	श्री राजपूत आदेश कुमार सी/ओ. के.एस. चौहान, आरजैड 46ए/15ए, गली नं. 2, वैस्ट सागर पुर (मेन), नई दिल्ली-110046			

496.	091363	श्री बहल संजय मैनेजर कापेरिशन एण्ड इंस्टीट्यूशनल दा ब्रिटिश बैंक ऑफ द मिडिल ईस्ट, पी.ओ. बाक्स 57, बहरीन	512.	092032	श्री गर्ग नरेन्द्र कुमार नरेन्द्र गर्ग एण्ड कम्पनी, बी 1-222 राम नगर, इन्द्रा बस्ती, डिस्टी. संगर (पंजाब), सुनम-148028
497.	091403	श्री वशिष्ठ विपिन ए-198, दीपाली, पीतम पुरा, दिल्ली-110034	513.	092035	श्री सुरेन्द्र चावला 554/8 फिल्ड गंज (पंजाब) लुधियाना-141008
498.	091436	श्री कथुरिया वरूण खेडा निवास, बिहाईड एस.बी.आई., दिल्ली रोड हिसार-125001	514.	092052	श्री वालिया समीर अर्कैटर छठी मंजिल, डी.एल.एफ. सेंटर, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001
499.	091475	श्री कपूर शलभ मं.नं. 2427 चिप्पी वाला कला दिल्ली-110006	515.	092293	श्री गुप्ता चन्द्र शेखर सी-9/160 यमुना विहार दिल्ली-110053
500.	091499	श्री शर्मा विनीत कुमार विनीत शर्मा एण्ड कम्पनी 308 प्रकाश मोहल्ला ईस्ट ऑफ कैलाश नई दिल्ली-110065	516.	092336	श्री सक्सेना अखिलेश ए-137 डी.डी.ए. कालोनी न्यू राजेन्द्र नगर, नई दिल्ली-110008
501.	091604	श्रीमति जैन रीना 1178 डी-1 बसंत कुँज नई दिल्ली-110070	517.	092369	श्री अजारियाह अजित एमेनूअल फाइनैस मैनेजर मोटोरोला इंडियोरस, 1500. डब्लू. डूडी; अरलिंगटन, एच.टी.एस. आईएल. 60004, यू.एस.ए.
502.	091694	श्रीमति सागर डौली आरजैडएफ-903/6 राज नगर पार्ट-II, नैक्सट टू चर्च, पालम कालोनी, नई दिल्ली-110045	518.	092370.	श्री सतपाल मं.नं. 3042 सैक्टर-38 डी पंजाब चंडीगढ़-160017
503.	091700	श्रीमति नीरजा भाटिया 109-एफ मयूर विहार फेस-I, पाकेट-IV, दिल्ली-10091	519.	092378	श्री शारदा देवेन्द्र कुमार डी.के. शारदा एण्ड एसोसिएट्स, इंदिरा कालोनी यू.एन.ए. रोड, बी एण्ड पी.ओ. गांगरेट डिस्टी. यू.एन.ए. (एच.पी.), गांगरेट-176209
504.	091739	श्री गुप्ता लक्ष्मी कान्त बी-65 गुप्ता काम्पलेक्स, मेन मार्किट, शकरपुर, दिल्ली-110092	520.	092426	श्री बिजूर दर्शन शरद के.पी.एम.जे. यू.जे. लि. 8, सलीसबरी स्कवेयर, लंदन ईसी4 वाईबीबी यू.के.
505.	091795	श्री अग्रवाल मनोश कुमार मैनेजर-इन्टरनल ऑडिट कैलटैक्स लूब्रीकेंट इंडिया लि., एफ-47, एन.डी.एस.ई. पार्ट-I, नई दिल्ली-110049	521.	092464	श्री ग्रीवर रमन 67, बचित्तर नगर पटियाला-147001
506.	091822	श्री पंकज कुमार 13-बी, दूसरी मंजिल नेताजी सुभाष मार्ग, दरियागंज मार्ग, नई दिल्ली-110002	522.	092465	श्री मंडल रोहित डी-62 मालचा मार्ग चाणक्यपुरी, नई दिल्ली-110021
507.	091843	श्री रविन्द्र कुमार बी-8, सब्जी मंडी रोड, मोहाली एक्स, पी.ओ. बदरपुर, नई दिल्ली-110044	523.	092517	श्री दूदू दिवाकर सी-13, मानसरोवर गार्डन नई दिल्ली-110015
508.	091859	श्री गुप्ता संजय 2782, गली आर्या समाज, बाजार सीता राम, दिल्ली-110006	524.	092566	श्री गोगिया सरवजीत सिंह हाउस नं. 952 सैक्टर 41-ए, चंडीगढ़-160036
509.	091895	श्री सेठ जगमोहन सिंह 94-ए, शिवाजी मार्ग, नियर एस.बी.आई., दा माल, अम्बाला कैंट, अम्बाला	525.	092580	श्री सिंघल परखर डी-213, प्रशांत विहार, नई दिल्ली-110085
510.	091972	श्री राकेश कुमार शॉप नं. नियर एम.के. डिस्टी. फरीदाबाद, पलवल-121102	526.	092602	श्रीमति शर्मा आरती बी-4/97 पश्चिम विहार नई दिल्ली-110063
511.	091975	श्री पाहुजा दिनेश दिनेश पाहुजा एण्ड कम्पनी 15/9 न्यू कालोनी मोड, गुडगांव-122001	527.	092623	श्री सुरेन्द्र पाल सिंह 3058, सैक्टर 37-डी चंडीगढ़
			528.	092651	श्री राज कुमार एल/ओ. बजरंग दाम (क्लाथ मरचेट) नियर पंजाब नेशनल बैंक, डिस्टी. मंसा (पंजाब), वुडलाडा-151502

529.	092751	श्री सकसैना अलोक बी-161 सरिता विहार नई दिल्ली-110044	546.	093142	श्री सिंह महेन्द्र दिनकर मालरा एण्ड कम्पनी, बी-7 एक्स/101, सफदरजंग एन्क्लेव नई दिल्ली-110029
530.	092762	श्री ठकुराल नीरज 154 कादंबरी अपार्टस सैक्टर-9, रोहिणी, दिल्ली-110085	547.	093146	श्री डिल्लो देवेन्द्र जीत 452, सैक्टर-7 पंचकुला-134109
531.	092773	श्री श्रीवास्तव मुकुल बी-50 फ्रैंडस कालोनी (वैस्ट) नई दिल्ली-110065	548.	093160	श्री सहगल संजीव संजीव सहगल एण्ड एसोसिएट्स, 32 देशबंधु अपार्टमेंट्स, कालकाजी नई दिल्ली-110019
532.	092870	श्रीमति पार्वती करन जे-147 मैरिड डाक्टर्स हॉस्टल, पो.जी.आई., चंडीगढ़-160012	549.	093181	श्री शर्मा गविन्द्र कुमार 21 डी, ओवरसीज अपार्टमेंट्स वसुंधरा एन्क्लेव मयूर विहार-III, दिल्ली-110096
533.	092898	श्री काला प्रमोद कुमार डी-1, विजय चौक लक्ष्मी नगर, दिल्ली-110092	550.	093185	श्री मल्होत्रा दीपक डी. मल्होत्रा एण्ड एसोसिएट्स, एफ-66 अशोक विहार-I, दिल्ली-110052
534.	092917	श्री सिंह मनदीप मनदीप सिंह एण्ड कम्पनी, 4 डी नौसेना अपार्ट. 9 वैंस्ट एन्क्लेव पीतमपुरा, दिल्ली-110034	551.	093205	श्री सरीन संदीप राज आर-683 न्यू राजेन्द्र नगर नई दिल्ली-110060
535.	092933	श्री गुप्ता राजीव ए-2/25 शक्ति नगर एक्स दिल्ली-110052	552.	093223	श्री गुप्ता जीत दास नोसिआ यू.के. लि. लैक्टर हाउस, हंटिंग्डान, यू.के.
536.	092946	श्री शर्मा विनोद कुमार एल-1/1ए डी.डी.ए. फ्लैटम कालकाजी, नई दिल्ली-110019	553.	093238	श्री अरोडा रोहित सी-16, ऑक्सफोर्ड अपार्टमेंट्स प्लॉट नं. 11, पटपडगंज, दिल्ली-110024
537.	092962	श्री गुप्ता सलभ आदर्श कालोनी, समाधी कालोनी, खन्ना-141001	554.	093283	श्री सिंघल प्रशांत सी-360 डिफेंस कालोनी नई दिल्ली-110024
538.	092981	श्री अग्रवाल संजय 2743 दूसरी मंजिल यूनियन बैंक बिल्डिंग, चौक कुतब रोड, दिल्ली-110006	555.	093329	श्रीमति कपासी सोनल एफ-3 प्रेस एन्क्लेव साकेत, नई दिल्ली-110017
539.	093003	श्री इडवाल रोहित बाजार बंसा फगवाडा-144401	556.	093330	श्री रविश कुमार फ्लैट नं. एफ-48, पहली मंजिल सशांत लोक-II, सैक्टर-57, हरियाणा, गुडगांव
540.	093026	श्री गोयेल राजेश सी/ओ. मेम एण्ड एसोसिएट्स, तीसरी मंजिल, 3-बी, पूसा रोड, नई दिल्ली-110005	557.	093333	श्री अरोडा जयंत ई-273 ईस्ट ऑफ कैलाश नई दिल्ली-110065
541.	093039	श्रीमति कोटामराजू उमाश्री क्वाटर नं. 531 सैक्टर-V, आर.के. पुरम, नई दिल्ली-110022	558.	093342	श्रीमति रश्मिगी रितू डब्ल्यूजैड-1408 नांगन राया, नई दिल्ली-110046
542.	093058	श्री सेठी गौतम V-6 ग्रीन पार्क (मेन) नई दिल्ली-110016	559.	093343	श्री श्रुति कान्त डब्ल्यूजैड-1408, नांगल राया नई दिल्ली-110046
543.	093101	श्री अग्रवाल धीरज 4/8 आसफ अली रोड नई दिल्ली-110002	560.	093367	श्री वर्मा ललित कुमार 21 सतनाम पार्क चन्द्र नगर, दिल्ली-110051
544.	093103	श्री गुलाटी राजेश कुमार 653 मॉडल कालोनी, मौहल्ला करतारपुरा, यमुना नगर-135001	561.	093398	श्री शर्मा नीरज बी-पी-137 (वैस्ट) शालीमार बाग, दिल्ली-110052
545.	093109	श्री धीमान राकेश 2766 टिम्बर मार्किट अम्बाला कैंट, अम्बाला-133001	562.	093429	श्री माथुर सरवेश 2049 सैक्टर-डी पाकेट-II, बसंत कुंज, नई दिल्ली-110070

563.	093521	श्री सोमानी अनिल कुमार 898 सैक्टर-29 फरीदाबाद	579.	093899	श्री गर्ग विवेक 1010-ए कीर्ति शिखर टावर डिस्ट्री. सैक्टर, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058
564.	093544	श्रीमति जैन हेमा एम/एस एच. जैन एण्ड कम्पनी, ई-161/162 अमर कालोनी, लाजपत नगर-IV, नई दिल्ली-110024	580.	093928	श्री गुप्ता नलिन कुमार क्यू-605 अनुपम अपार्ट. 4 सीबीडी, ईस्ट अर्जुन नगर, दिल्ली-110032
565.	093546	श्री महाजन आशीष एम/एस आशीष महाजन एण्ड एसोसिएट्स, सी/ओ. श्री अशवनी शर्मा, मं.नं.-1303ए सैक्टर-29, हरियाणा फरीदाबाद	581.	093935	श्री शर्मा यतिन 75/7 त्रिकूट नगर जम्मू तबी
566.	093589	श्री गुप्ता शिशिर शिशिर गुप्ता एण्ड एसोसिएट्स, बी-95 चेतक अपार्टमेंट्स अपो. बगोडिया पब्लिक स्कूल सैक्टर-9 दिल्ली-110085	582.	093938	श्रीमति रितू रेखा डी-93 सरिता विहार, नई दिल्ली-110044
567.	093619	श्री एस.बी. कुमार सी-202 यूनैस्को अपार्टमेंट्स प्लॉट नं. 55, आई.पी. एक्स, दिल्ली-110092	583.	093939	श्री गोम्स राहुल अपार्टमेंट्स 207 695 मार्टिन ग्राव रोड, एटोबीकोक, टोरानटो ओनटारियो एम9आर 3टी6 कनाडा
568.	093671	श्रीमति गुप्ता पारूल 80, क्रिश्चन स्कूल-1 सोमबर्ग, आईएल 60195 यू.एस.ए.	584.	093998	श्री गुप्ता मुनीश 198-सी, यमुना एन्क्लेव पानीपत-1261102
569.	093690	श्रीमति अन्जु एच-11/6 मानवीया नगर नई दिल्ली-110017	585.	094016	श्रीमति श्रीनिवासन श्रीकृपा 5/34 दूसरी मंजिल ओल्ड राजेन्द्र नगर, नई दिल्ली-110060
570.	093724	श्री शर्मा विरेन्द्र कुमार 5/212 दूसरी मंजिल लेटा पार्क, लक्ष्मी नगर, दिल्ली-110092	586.	094024	श्री सक्सेना आशु ए-137 डी.डी.ए. फ्लैट्स न्यू राजेन्द्र नगर, नई दिल्ली-110008
571.	093740	श्री कपूर सुधीर प्रिंस वाटर हाउस पीडब्लू सैक्टर, सैदूलाजाब, एम.बी. रोड, अपो. डी-ब्लाक साकेत, नई दिल्ली	587.	094055	श्री कुकरेजा राजेश सी-19 ग्रेटर कैलाश एन्क्लेव-1, नई दिल्ली-110048
572.	093768	श्री सक्सेना अनुराग 1451 रानी बाग नई दिल्ली-110034	588.	094058	श्री मदन भुवन ए-103 अशोक विहार फेस-3 दिल्ली-110052
573.	093776	श्री अखरेमका शिव दयाल ए-82 गुप इन्डस्ट्रीयल एरिया वजीरपुर, दिल्ली-110052	589.	094083	श्री जैन विशाल मैनेजर फाइनेंस इबिलिट टैकनॉलाजी लि. थापर हाउस, 124 जनपथ, नई दिल्ली-110001
574.	093801	श्री परमिन्दर सिंह एमएस-99 हरि नगर नई दिल्ली-110064	590.	094112	श्री दूआ नवीन बजाज मार्केट रेलवे रोड, यमुना नगर, जगाधरी-135003
575.	093805	श्री गारचा राजेश कुमार मं.नं.-1284/10 स्ट्रीट नं.-5 गुरू नानक देव नगर, रोशन रोड, लुधियाना-141007	591.	094128	श्री हीरा लाल 302 काले राम चैम्बर-2 ईस्ट गुरू अंगद नगर, लक्ष्मी नगर, दिल्ली-110092
576.	093818	श्री सिकरी भारत राज एपी-13 शालीमार बाग दिल्ली-110052	592.	094150	श्री झा अशोक कुमार अबोव सिंघला रेडियो एण्ड साइकिल स्टोर जवाहरकेड रोड मंसा मंडी, (पंजाब) मंसा-151505
577.	093873	श्रीमति जैन प्रतिभा 1623 दरिबा कलां चांदनी चौक, दिल्ली-110006	593.	094166	श्री शर्मा सुधीर कुमार पो.बाक्स नं. 10269 जी.पी.ओ., काठमाण्डू नेपाल
578.	093894	श्रीमति सुमन लता आरजैड-263/1, दुर्गा डार्क द्वारका प्रोजेक्ट. पी.ओ. पालम, नई दिल्ली-110045	594.	094177	श्री प्रदीप कुमार लाइफ ब्रेवोरिज कम्पनी लि. पीजार्ट हरकोट रोड आनिस्ता नाईजीरिया

595.	094236	श्री गुप्ता सजल 207/208 वकील चैम्बर 115 शकरपुर, दिल्ली-110092	612.	094656	श्री सूरि अमिन 1225 गीता भवन कश्मीरी गेट, दिल्ली-110006
596.	094261	श्री मलिक जतिन्दर 8 पहली मंजिल न्यू हीरा काम्पलैक्स नियर डेली अजित, एन.जी. रोड जालन्धर-110092	613.	094661	श्री उप्पल तरूण बी-131 फेस-I अशोक विहार दिल्ली-110052
597.	094355	श्री खुराना संजीव ए3/158, पश्चिम विहार नई दिल्ली-110063	614.	094683	श्री कोहली संजय एबीएन अग्रो बैंक, पी.ओ. बाक्स 2567, दुबई-यू.ए.ई.
598.	094387	श्री मो. अली शौकत 119 (दूसरी मंजिल-लिफ्ट) लेन नं.-16, जाकिर नगर, ओखला नई दिल्ली-110025	615.	094699	श्री जैन धीरज शकुंतला काम्पलैक्स पहली मंजिल, पालिका बाजार, पानीपत-132103
599.	094392	श्री मदन मोहन फ्लैट नं. 87 पॉकेट जी-5, सैक्टर-15 रोहिणी दिल्ली-110085	616.	094716	श्री पंत धीरज कुमार 302 श्री गणेश काम्पलैक्स ई-35 जवाहर पार्क, लक्ष्मी नगर, दिल्ली-110092
600.	094395	श्री हान्डा मोहित बी-9/7 बसंत विहार नई दिल्ली-110057	617.	094736	श्री सिंह रविन्द्र पाल 140-3 ईसार बाजार पानीपत-132103
601.	094408	श्री गम्भीर संदीप ल्यूकेंट टेक्नॉलाजीस हिन्दूस्तान लि. 16 वीं मंजिल, डी.एल.एफ. स्कवेयर डी.एल.एफ. सिटी फेस-2, गुडगांव-110063	618.	094804	श्री विपिन कुमार 446 सैक्टर-15ए चंडीगढ़-160017
602.	094420	श्री गुप्ता विनय कुमार ए-2/6 (दूसरी मंजिल) सफदरजंग एन्क्लेव, अपो. भीकाजी कामा प्लेस, अफ्रीका एवेन्यू नई दिल्ली-110029	619.	094806	श्री गुलाटी विशाल 227 राम नगर स्ट्रीट नं.-4 दिल्ली-110051
603.	094454	श्री सेठ अलोक 8ए/19, डब्ल्यूईए पूसा रोड नई दिल्ली-	620.	094807	श्री कृष्णन रघुनाथन फ्लैट 1, एन.डी.एम.सी. फ्लैट्स, काका नगर राम नगर, नई दिल्ली-110003
604.	094484	श्रीमति गंगवार मनीषा 187-ई पहली मंजिल जीवन नगर, नई दिल्ली-110014	621.	094808	श्रीमति मल्होत्रा आरती 234 शेख सराय फेस-I, नई दिल्ली-110017
605.	094507	श्री योगेशवर गोपाल 687-दूसरी मंजिल गिल रोड, नियर एस.बी.आई. लुधियाना-141003	622.	094848	श्री रविन्द्र सिंह IX/3648 धर्मपुरा दिल्ली-110031
606.	094527	श्री शर्मा महेश कुमार मं.नं. 2056 ए सैक्टर-3, बल्लभ गढ़, फरीदाबाद-121004	623.	094877	श्री ठकुराल सौरभ जे-37बी अशोक विहार फेस-I, दिल्ली-52
607.	094547	श्री भाटिया वैभव 132-बी ए/डी शालीमार बाग, दिल्ली-110031	624.	094901	श्री बत्रा मनीष III/बी-18 लाजपत नगर नई दिल्ली-24
608.	094557	श्री बंसल दिनेश एम-72 शास्त्री नगर दिल्ली-110031	625.	094924	श्री जैन तरूण आर-68 पहली मंजिल, ग्रेटर कैलाश-I, नई दिल्ली-110048
609.	094585	श्री भारद्वाज पंकज एकॉटेन्स आफिसर हैन्ज इंडिया लि. दा ग्रेट इस्टर्न सैक्टर 70 नेहरू प्लेस नई दिल्ली-110019	626.	094943	श्री खेर संदीप बी-2-101ए सफदरजंग एन्क्लेव नई दिल्ली-110029
610.	094620	श्री यादव अपाच कुमार पोस्ट बाक्स नं. 10269 सनधारा काठमांडू नेपाल	627.	094961	श्री गुलाटी संजीव 6/18 ईस्ट पंजाबी बाग नई दिल्ली-110026
611.	094645	श्री भगवाल लाल 210 वधवा काम्पलैक्स डी-289 स्ट्रीट नं. 10, नयाँ बजार, दिल्ली-110092	628.	094976	श्रीमति वनजनी मीना ई-18/185 सैक्टर-3 रोहिणी, दिल्ली-110085
			629.	094977	श्री नागपाल आशूतोष 813 नई बस्ती अपो. देशराज डेरी, भटिंडा-151005
			630.	095012	श्री राजेश कुमार सी/ओ. कृष्णा सोईग मशीन वर्क्स रेलवे रोड, रोहतक-124001

631.	095036	श्री जैन वकुल विमल प्रसाद मिडले मार्किटिंग प्राईवेट लिमिटेड, 52 ओल्ड राजेन्द्र नगर मार्किट, तीसरी मंजिल नई दिल्ली-110060	647.	095416	श्री आदित्य नाथ 1/10900ए गली नं-5 सुभाष पार्क, नवीन शाहदरा, दिल्ली-110032
632.	095057	श्रीमति ओहरी प्रिया प्रिंस वाटर हाउस एण्ड कम्पनी, पी. डब्लू सेंटर, महरोली बदरपुर रोड, सैदुलाजब अपो. डी ब्लॉक साकेत नई दिल्ली	648.	095424	श्री चिकारा पवन नं. 487/36 नेशनल मार्किट पीरागढ़ी, दिल्ली-110041
633.	095111	श्री विनय कुमार हंस एस्कोर्ट कम्प्यूनिकेशनस लि. दूसरी मंजिल इन्टरनेशनल ट्रेड टावर्स, नई दिल्ली-110019	649.	095425	श्री मेहता मनदीप सी-1/125 लारेंस रोड दिल्ली-110035
634.	095121	श्रीमति शर्मा अनू ए-90, सेंक्टर-49 बी पुष्पक सोसाइटी चंडीगढ़-160047	650.	095468	श्री गुप्ता मनीष 3/8 पाकेट-ई मयूर विहार-II, दिल्ली-110091
635.	095141	श्री अग्रवाल कपिल यू1 पहली मंजिल ग्रीन पार्क एक्स. नई दिल्ली-110016	651.	095495	श्री इमरान उल हक 19-सी.पाकेट-4 मयूर विहार फेस-I, दिल्ली-110091
636.	095150	श्री मेहता अमित जी-237 सरिता विहार नई दिल्ली-110044	652.	095505	श्री शर्मा सुमित 1652 सेंक्टर-13 करनाल-132001
637.	095164	श्री सुनील कुमार 545 सेंक्टर-31 गुडगांव-122001	653.	095538	श्री मेहता अरविन्द 401 व्हाइट हाउस 382 संत नगर, ईस्ट ऑफ कैलाश नई दिल्ली-110065
638.	095172	श्रीमति एस. राधा सी-1/ई डी.डी.ए. फ्लैटस मुनीरका, नई दिल्ली-110067	654.	095539	श्रीमति गुप्ता पारूल बी-2, इन्द्र प्रस्थ टावर, वजीरपुर कमर्शियल काम्प्लेक्स, दिल्ली-110052
639.	095195	श्री कंदपाल हरीश चन्द्र टी-IV/3 नीपा फ्लैटस (एनसीआरटी कैम्पस) अरविंदो मार्ग, नई दिल्ली-110016	655.	095583	श्री सहानी अनूज 209 हिगरी अपार्टमेंटस जे ब्लॉक, विकास पुरी, नई दिल्ली-110018
640.	095208	श्री श्रींगी ध्रुव आर्थर एन्डर्सन 17वीं मंजिल एसटीसी बिल्डिंग, टोलस्टोय मार्ग, नई दिल्ली-110001	656.	095633	श्री कश्मीर सिंह सोखल म.नं. 168 वीपीओ संत नगर तहसील रानिया, (हरियाणा), सिरसा-125075
641.	095229	श्री कपिल राज किशोर 83/29 चावला कालोनी (नियर डबल फाटक), हरियाणा, रोहतक-124001	657.	095698	श्री ढिंगरा चेतन 18/24/13, ओल्ड गोविन्दपुरी दिल्ली-110051
642.	095243	श्रीमति चावला रितू 9/14 ईस्ट पंजाबी बाग नई दिल्ली-110026	658.	095701	श्री गुप्ता सुधीर सी-137/सी, हरि नगर नई दिल्ली-110064
643.	095307	श्री महाजन नवदीप म.नं. 327 सेंक्टर-11 (हरियाणा), पंचकुला-147001	659.	095703	श्री सुरी संजीव सी-3ए/4ए (एम.आई.जी) पंखा रोड, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058
644.	095378	श्री घनश्याम दास 268 रेवाडी कालोनी बिहाईड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, जम्मू तवी	660.	095765	श्री वासुदेव अमित म.नं.-2139 सेंक्टर 42-सी चंडीगढ़
645.	095402	श्री रिमल सूजीत 5/441 गुरू राम दास नगर लक्ष्मी नगर, दिल्ली-110092	661.	095776	श्री गर्ग विनोद कुमार 32/202 विक्रम विहार लाजपत नगर-IV, नई दिल्ली-110024
646.	095407	श्री राज कुमार डब्ल्यूजैड-565 (ई-70) रिशि नगर शकूर बस्तो दिल्ली-110034	662.	095792	श्री गुरमीत सिंह 28/28 वैस्ट पटेल नगर नई दिल्ली-110008
			663.	095793	श्री वासुदेव गौरव आर-695 न्यू राजेन्द्र नगर नई दिल्ली-110060
			664.	095807	श्री गुप्ता अजय बी-3/317 पश्चिम विहार नई दिल्ली-110063

665.	095817	श्री सिन्हा बिजय प्रकाश 689, वैस्ट गुरू अंगद नगर (गली नं. 17) लक्ष्मी नगर, दिल्ली-110092	684.	096174	श्री कपूर मनीश हाउस नं. 1097 सैक्टर 37, चंडीगढ़
666.	095836	श्री विनीत कुमार ए-477 पंखा रोड अपो. बस टर्मिनल, उत्तम नगर, नई दिल्ली-110059	685.	096235	श्री उमा शंकर 56-ए मानसरोवर पार्क डी.डी.ए. फ्लैट्स (एम.आई.जी.), शाहदरा दिल्ली-110032
667.	095839	श्री शर्मा धीरज बीपी-137 (वैस्ट) शालीमार बाग, दिल्ली-110052	686.	096276	श्रीमति सोफत शिविन्द्र मोहिया खान नियर यूनिन बैंक ऑफ इंडिया, मंडी गाविन्द गढ़-147301
668.	095852	श्रीमति मदन अंजुम सी-90 डिफेंस कालोनी नई दिल्ली-110024	687.	096297	श्रीमति अग्रवाल सविता डी-101 मेफेअर अपार्टमेंट्स 96 आई.पी. एक्स., दिल्ली-110092
669.	095865	श्री विजय कुमार बीयू-84 विशाखा एन्क्लेव पीतमपुरा, दिल्ली-110088	688.	096299	श्री वर्मा विकास सी-2/160 जनकपुरी नई दिल्ली-110058
670.	095879	श्रीमति कौल रेखा सी-19 ग्रेटर कैलाश एन्क्लेव-1, नई दिल्ली-110048	689.	096327	श्री सैनी संदीप डी-224, विवेक विहार, दिल्ली-110095
671.	095886	श्री परमजीत सिंह हाउस नं. 2108 सैक्टर 9, फरीदाबाद-121006	690.	096359	श्री गुप्ता अजय कुमार एस-562, स्कूल ब्लाक, लेन नं.-1, शकरपुर दिल्ली-110092
672.	095898	श्री कंसल दीपक सी-633 न्यू फ्रेंड्स कालोनी नई दिल्ली-110065	691.	096407	श्री कोहली अश्वनि 61/9 यू-ब्लाक डी.एल.एफ. सिटी फेस-III, (हरियाणा), गुडगांव
673.	095927	श्री घोष संदीप जीएच/13-544, एस.एफ.एस. फ्लैट्स, पश्चिम विहार, नई दिल्ली-110041	692.	096427	श्रीमति रस्तोगी श्यामला 280, सैक्टर-28 हरियाणा, फरीदाबाद-121008
674.	095935	श्री सचदेवा हर्ष पाकेट बी-2/27बी लारेंस रोड दिल्ली-110035	693.	096432	श्री भंडारी संजीव बी-88, अशोक विहार फेस-I, दिल्ली-110052
675.	095945	श्रीमति कौर जसप्रीत क्यू-9, लाजपत नगर IV, नई दिल्ली-110024	694.	096433	श्री सेठ नितिन एस-315 ग्रेटर कैलाश पार्ट-II, नई दिल्ली-110048
676.	095970	श्री गोयल मनोज 1/7016 शिवाजी पार्क शाहदरा दिल्ली-110032	695.	096440	श्री सिंह संजय कुमार एकांटस आफिसर एम/एस एच.एम.टी लि. ट्रैक्टर डिवीजन पिजोर, हरियाणा, पंचकुला-134101
677.	095994	श्री भारद्वाज मनीष सी-78 ईस्ट ऑफ कैलाश नई दिल्ली-110065	696.	096472	श्रीमति सैनी रितू सी-17 बाली नगर नई दिल्ली-110015
678.	096011	श्री सुशील कुमार म.नं. 137 सैक्टर-18, हरियाणा, पंचकुला	697.	096493	श्रीमति गुप्ता रेणु डी-10, सुखदायक चैम्बर्स, जे.बी. नगर, अंधेरी (ईस्ट), मुम्बई-400059
679.	096023	श्रीमति छाबड़ा मीता जीई कैपिटल इन्टरनेशनल सर्विस 78 सैक्टर-18 हरियाणा, गुडगांव-122015	698.	096504	श्री जैन अंशुल के.पी. 317 मौर्या एन्क्लेव पीतम पुरा, दिल्ली-110034
680.	096030	श्री कोडिया सिद्धार्थ अर्नसट एण्ड यंग एसआरबी हाउस, 20, कम्प्यूनिटी सैक्टर, पुष्प विहार, नई दिल्ली	699.	096533	श्री अग्रवाल तरुण बीएन-39 (वैस्ट) शालीमार बाग, दिल्ली-110052
681.	096063	श्री आचार्य बुद्ध प्रसाद एच-68, लक्ष्मी नगर, दिल्ली-110092	700.	096557	श्रीमति राचल अन बर्न के.पी.एम.जी. ओमान पी.ओ. बाक्स 641, पोसी-112, रुवि सलतनत ऑफ ओमान
682.	096115	श्री सेठी विक्रम बी-68 विवेक विहार दिल्ली-110095			
683.	096133	श्रीमति लायल गगन दीप 8/23 डब्ल्यूए करोल बाग, नई दिल्ली-110005			

701.	096561	श्री संजीव कुमार केडी-168 पीतमपुरा दिल्ली-110034	717.	096975	श्री बनीत कुमार म.नं. 38 वार्ड नं. 7 भगवत सिंह मार्ग स्ट्रीट देव माडल स्कूल, डिस्टी.-मंसा, (पंजाब), बुडलाडा-151502
702.	096574	श्री जयसिंह राजीव कुमार एम/एस जयसिंह राजीव एण्ड एसोसिएट्स, एस.सी.ओ. 2445-46, सैक्टर 22-सी, चंडीगढ़	718.	096986	श्री गर्ग मनीष एम.आई.जी. सुपर 684/बी फेस-XI, सस नगर मोहाली-160062
703.	096583	श्री मन्नदर संजीव बलागव-16, काठमाण्डू, नेपाल	719.	096993	श्री दास प्रेमजीत सी-100 डिफेंस कालोनी नई दिल्ली-110024
704.	096584	श्री उपाध्याय कमलेश कुमार 10/133 वैस्ट गुरू अंगद नगर मेन गुरूद्वारा रोड, लक्ष्मी नगर, दिल्ली-110092	720.	097012	श्री गुप्ता अमित 38 माडल बस्ती करोल बाग नई दिल्ली-110005
705.	096606	श्री पाण्डे अर्जुन प्रसाद जीए-1, 745 काठमाण्डू-4 पी.ओ. बाक्स 6641, जी.पी.ओ. काठमाण्डू, नेपाल	721.	097035	श्री सुरेन्द्र पाल सिंह 152-सी, सिद्धार्थ एक्स., नई दिल्ली-110014
706.	096636	श्री गुलिया गौरव 2090 सैक्टर डी II, बसंत कुँज नई दिल्ली-110070	722.	097056	श्री पारिक आशिष डी-3/3243 बसंत कुँज नई दिल्ली-110070
707.	096664	श्री संदीप कुमार एस-50ए सुन्दर ब्लाक शकरपुर, दिल्ली-110092	723.	097171	श्रीमति अग्रवाल अनुपमा 143-25, 41 स्ट्रीट एवेन्यू, अपार्ट. 314, फ्लशिंग एनवी-11355 यू.एस.ए.
708.	096681	श्री गुप्ता दिनेश सी. आफिसर फाइनेंस हीरो होण्डा मोटर्स लि., 37 के.एम. स्टोन, दिल्ली-जयपुर हाईवे, गुडगांव-122001	724.	097178	श्री अशोक कुमार एफ-63/बी, लक्ष्मी नगर, लेन नं. 4, दिल्ली-110092
709.	096685	श्री गुरदीप सिंह 4 डूडीयल अपार्टस पीतमपुरा, दिल्ली-110034	725.	097206	श्री जैन अभिषेक 46, कोचर मार्केट, झज्जर रोड, हरियाणा, रोहतक-124001
710.	096689	श्री महाजन भुपेश सी/ओ. के.एस. गुप्ता डी-80 सूरज मल विहार, दिल्ली-110092	726.	097234	श्री प्रधान सुमन कुमार फ्लैट नं. 859, पॉकेट डी, डीडीए फ्लैट्स, दिलशाद गार्डन, दिल्ली-110095
711.	096721	श्री राजेश कुमार डी-57 एण्ड 58, तीसरी मंजिल अमर कालोनी, लाजपत नगर-IV, नई दिल्ली-110024	727.	097262	श्री नारंग जितेन्द्र 318/24 जगदीश कालोनी हरियाणा, रोहतक
712.	096769	श्री मुरारका नीरज कुमार 1-सी सिटीजन अपार्टमेंट्स सैक्टर-14 एक्स., रोहिणी, दिल्ली-110085	728.	097299	श्री भसीन विकास 559 सैक्टर-14 गुडगांव
713.	096850	श्री जैन अमित 1332, डी. बी. गुप्ता रोड, करोल बाग, नई दिल्ली-110005	729.	097301	श्री राजीव कुमार सी/ओ. भंडारी गुप्ता एण्ड एसोसिएट्स 202राज टावर-I, जी-1 अलकनंदा कम्यूनिटी सेंटर, नई दिल्ली-110019
714.	096859	श्री दत्ता चन्द्रचूड एम-19, सी.आर. नई दिल्ली-110019	730.	097308	श्री जयसिंह विनोद बी-295 सरिता विहार नई दिल्ली-110044
715.	096862	श्री अरोडा तरुण सी-108 पुष्पांजलि विकास मार्ग एक्स., दिल्ली-110092	731.	097402	श्री लूथरा शरद ए2/67 राजौरी गार्डन, नई दिल्ली-110027
716.	096898	श्री वैश पीयूष 1119 विकास कुँज विकास पुरी, नई दिल्ली-110018	732.	097463	श्री कपूर मनप्रीत सिंह बी-2/107 जनकपुरी, नई दिल्ली-110058
			733.	097518	श्री अरयाल खुमा प्रसाद पी.ओ. बाक्स 11930 डेरबार मार्ग, काठमाण्डू, नेपाल
			734.	097520	श्री सति कमल किशोर 19/10 ओल्ड राजेन्द्र नगर नई दिल्ली-110060

735.	097562	श्री अपूर्व कुमार 151-सी पाकेट-बी मयूर विहार, फेस-II, दिल्ली-110092	752.	097871	श्री शर्मा रोहित केडी-320 पीतमपुरा, दिल्ली-110034
736.	097563	श्रीमति चतुर्वेदी पल्लवी बी-10 7447 बसंत कुँज, नई दिल्ली-110070	753.	097902	श्री मितल आशिष कुमार डी-211 लक्ष्मण सिंह काम्पलैक्स ए-1 पहली मंजिल, मुनीरका, नई दिल्ली-110067
737.	097575	श्री भाटिया मोहित जे-1/4 डी.एल.एफ. कुतब एन्क्लेव फेस-II, गुडगांव-122002	754.	097957	श्री भूगरा समीर 2343, सैक्टर-13, अरबन एस्टेट, करनाल
738.	097605	श्री सुनील कुमार सी/ओ. श्री रूप चन्द गोयल बार्ड नं. 10, डिस्ट्रीक गुडगांव, हरियाणा पनहाना-121104	755.	097998	श्री तोमर हरविन्द्र सिंह सी-511, चितरंजन पार्क नई दिल्ली-110019
739.	097624	श्रीमति केशवानी ललिता 9/6707, गली नं. 8 देव नगर, करोल बाग, नई दिल्ली-110005	756.	098094	श्री महाजन मन मोहन ब्लाक नं. 5 गली नं. 7 हाउस नं. 3 गीता कालोनी, दिल्ली-110031
740.	097631	श्री पी.वी. वेणु गोपाल 675 कमलजीत संधू ब्लाक एशियाड विलेज, नई दिल्ली-110049	757.	098104	श्रीमति जैन आरती 405 डीआर मुखर्जी नगर दिल्ली-110009
741.	097652	श्री गोविल संतोष एम-115ए ग्रेटर कैलाश-I नई दिल्ली-110048	758.	098152	श्री जय भगवान म.नं. जी-194 के.सी. बडखल रोड, फरीदाबाद-121001
742.	097662	श्री मंगल वैभव जी.ई. कैपिटल इंटरनेशनल सर्विस असिस्टेंट मैनेजर, 78 सैक्टर-18, जिल बिल्डिंग, उद्योग विहार, गुडगांव	759.	098221	श्रीमति शर्मा मिनाक्षी हाउस नं. 60 सैक्टर-21ए, चंडीगढ़-160022
743.	097691	श्री मारवाह रजत जे-4 कैलाश कालोनी, नई दिल्ली-110048	760.	098256	श्रीमति चंहांन बीना 19, सारजा मार्केट नाहरपुर, सैक्टर-7, रोहिणी दिल्ली-110085
744.	097723	श्री गोयल रजनीश सी/ओ. श्री यशपाल गुप्ता बी-93 (पहली मंजिल) शिवालिक, नियर मालवीय नगर, नई दिल्ली-	761.	098285	श्री मनोचा अनिल बाबा बन्दा बहादुर धर्म कान्त नियर डबरा चौक (हरियाणा), हिसार-125005
745.	097745	श्री गोयल हर्ष ए-497 सरिता विहार नई दिल्ली-110044	762.	098356	श्री वोहरा भानू सी-256 डिफेंस कालोनी नई दिल्ली-110024
746.	097782	श्री जैन विकास आर-163 वनी विहार उत्तम नगर, नई दिल्ली-110059	763.	098443	श्री अग्रवाल विजेन्द्र कुमार एन-59 पहली मंजिल लक्ष्मी नगर, दिल्ली-110092
747.	097788	श्री शर्मा अमित सी/ओ. मनिन्द्र शर्मा ब्लाक-सी पाकेट बी म.नं. 27-सी, शालीमार बाग, दिल्ली-110052	764.	098456	श्री तुली अंकुश म.नं. 1220 सैक्टर 18 सी चंडीगढ़
748.	097814	श्री सिंह देवेन्द्र के-64 कृष्णा नगर नियर चाची बिल्डिंग, दिल्ली-110051	765.	098482	श्रीमति प्रीति गर्ग सुकीर्ति जे-9/10 डी.एल.एफ. सिटी फेस-II, (हरियाणा), गुडगांव-122002
749.	097832	श्री बिष्टा संतोष राज पी.ओ. बाक्स 6641 काठमाण्डू नेपाल	766.	098492	श्री जयसवाल पंकज कुमार 1202-1204 अंतरिक्ष भवन के.जी रोड, नई दिल्ली
750.	097841	श्री कीर्तिसिम्हा बी-10 पाकेट-ए इना कालोनी, सफदरजंग नई दिल्ली-110029	767.	098500	श्री चित्तर कुलदीप नं-75, सैक्टर-सी, इन्द्रा नगर, जे एण्ड के, श्रीनगर-190001
751.	097849	श्री पुरी गगनप्रीत सिंह डी-31 जीवन ज्योति अपार्टमेंट्स पीतमपुरा, दिल्ली-110034	768.	098532	श्रीमति अरोडा नीतू डब्ल्यूजैड-382/2 स्ट्रीट नं. 21 शिव नगर नई दिल्ली-110058
			769.	098571	श्रीमति कपूर रूची ए12 ग्रेटर कैलाश एन्क्लेव-II, नई दिल्ली-110048

770.	098575	श्री ठकुराल मोहित 45 अनूपम अपार्टमेंट्स एम.बी रोड, नई दिल्ली-110030	786.	099021	श्री गर्ग संजय कुमार ई17 जवाहर पार्क लक्ष्मी नगर दिल्ली-110092
771.	098576	श्री केजरीवाल उमेश सी/ओ. श्री राजेन्द्र चौधरी 9004 गौशाला मार्ग, किशनगंज, दिल्ली-110006	787.	099096	श्री नरवानिआ अभिशेक कुमार 117/17 नरवानिआ बिल्डिंग, कैथल-136027
772.	098597	श्री सहाई गोपाल कृष्ण ए-12 गुरू राम दास नगर लक्ष्मी नगर, दिल्ली-110092	788.	099141	श्री बैनोट राजन 142, श्रेष्ठ विहार नई दिल्ली
773.	098613	श्री महाजन राजीव हाउस नं. 589 सैक्टर-15ए फरीदाबाद-121007	789.	099169	श्री अग्रवाल नारायण कुमार सी/ओ. पी.के. चावला 26-बी जे एण्ड के एक्स., लक्ष्मी नगर, दिल्ली-110092
774.	098633	श्री शर्मा विजय कुमार 639 पाकेट-1, पश्चिमपुरी नई दिल्ली-110063	790.	099170	श्री अग्रवाल-राजेश हाउस नं. सी-179, गंगोत्री अपार्टमेंट्स, विकासपुरी, नई दिल्ली-110018
775.	098646	श्री गोम्बर अमर ज्योति ई-338 एम.आई.जी. मायापुरी नई दिल्ली-110063	791.	099193	श्री मेहरा कुणाल जीत एफ-10/11 बसंत विहार (एफ.एफ.) नई दिल्ली-110057
776.	098669	श्रीमति जैन रितू सी/ओ. श्री राम गोपाल जैन 85 बी ब्लॉक 25, न्यू डेसू कालोनी, दिल्ली-110014	792.	099221	श्रीमति सुद दीपिका बी-2/205 सफदरजंग एक्स्लेव नई दिल्ली
777.	098690	श्री बंसल नीरज कुमार 5606 मौहल्ला पूजान वाला भर्तीडा	793.	099222	श्री अग्रवाल सुमित 7/8 ईस्ट पंजाबी बाग नई दिल्ली-110026
778.	098719	श्री शर्मा राजन पी.ओ. बाक्स 8913 काठमाण्डू नेपाल	794.	099268	श्रीमति अग्रवाल सारिका ए-43/3 एस.एफ.एस. साकेत नई दिल्ली-110017
779.	098782	श्रीमति मल्होत्रा रिचा भारत एस. रौत एण्ड कम्पनी 511 वल्ड ट्रेड सैक्टर, बाबर रोड, नई दिल्ली-110001	795.	099295	श्री बंसल नीरज एम-22ए जंगपुरा एक्स., नई दिल्ली-110014
780.	098815	श्री राहुल कुमार एम/एस. ठाकुर वैद्यनाथ अय्यर एण्ड कम्पनी 212 दोन दयाल मार्ग, नई दिल्ली-110002	796.	099315	श्री मुकेश कुमार 1574 सैक्टर-37 हरियाणा, फरीदाबाद
781.	098838	श्री जैन आदित्य 2505 मस्जिद खजूर किनारी बाजार, दिल्ली-110006	797.	099325	श्री जैन अभिशेक डी-14/81 सैक्टर-7 रोहिणी दिल्ली-110085
782.	098852	श्री रेशम लाल ए-2/108 प्रिन्टर सोसाइटी सैक्टर-13, रोहिणी, दिल्ली-110085	798.	099575	श्री मंडल अशोक कुमार सी/ओ. श्री वेद प्रकाश गुप्ता एफ-187 मंगल बाजार, लक्ष्मी नगर दिल्ली-110092
783.	098855	श्री वधवा सुमित भारत एस. रौत एण्ड कम्पनी 511 वल्ड ट्रेड सैक्टर, बाबर रोड, नई दिल्ली	799.	099595	श्री सिंघल मितेश बीजी 7/106 पश्चिमविहार नई दिल्ली-110063
784.	098868	श्री साहनी नितिन सी/ओ. आर्थर एन्डर्सन एण्ड एसोसिएट्स दूसरी मंजिल कैपिटल कोट एलएससी फेस-III, ओल्ड पॉम मार्ग मुनीरका, नई दिल्ली-110067	800.	099605	श्री पोखरल सूर्या भक्ता सी/ओ. श्री विनोद कुमार अग्रवाल 52/1794 नईवाला करोलबाग, नई दिल्ली-110005
785.	098898	श्री कपूर निशांत आर्थर एन्डर्सन एण्ड एसोसिएट्स दूसरी मंजिल कैपिटल कोट एलएससी फेस-III, ओल्ड पॉम मार्ग मुनीरका, नई दिल्ली-110067	801.	099705	श्री बेदी अमित बीएम-147 (वैस्ट) शालीमार बाग नई दिल्ली-110088
			802.	099708	श्री जोशी अमन जीई कैपिटल 4ए, डी.एल.एफ. कारपोरेट पार्क, महरीली गुडगांव रोड, गुडगांव-110064
			803.	099717	श्री गंगवानी सुनील कुमार रतन एस. मामा एण्ड कम्पनी 516-517, वल्ड ट्रेड सैक्टर, बाराखम्भा लेन, नई दिल्ली-110001

804.	099750	श्री गमरा रोहित ए-4/602 प्रिन्टर अपार्टमेंटस प्लॉट नं. 18 सेक्टर-13, रोहिणी दिल्ली-110085	812.	205458	श्री कृष्णा मोहन भावाराजू 319, जसवंत नगर, गरहा रोड, पी.बी. जालंधर
805.	099831	श्री कालरा सौरभ प्राइस वाटर हाउस कॉर्पोरेशन पी. डब्लू. सी. सेंटर सौदूलाजब, एम.बी. रोड, अपो. डी ब्लॉक साकेत, नई दिल्ली-110030	813.	205629	श्री आर. सुरेश फाइनैस मैनेजर पिटारा किडस नैटवर्क प्रा. लि. 4195 बी-5 एण्ड 6 बसंत कुंज, नई दिल्ली-110070
806.	099855	श्री मित्तल नितिन 1346-डी, माडल टाउन एक्स. लुधियाना-141001	814.	208185	श्री प्रनीत येडामुरी इनवैस्टमेंट एनालिस्ट-इनटल फाइनैस कार्पो. नं. 1 पंचशील मार्ग, चाणक्य पुरी, नई दिल्ली-110021
807.	099917	श्री मल्होत्रा समीर 172-ई कमला नगर, दिल्ली-110007	815.	209806	श्री श्रीनिवासन पी.एस. जीई कैपिटल इंटरनेशनल सर्विस असिस्टेंट मैनेजर-क्वालिटी, 90ए, बिल्डिंग, सेक्टर-18, गुडगांव-122001
808.	099934	श्री गुप्ता कपिल बी-1 इन्द्र पुरी नई दिल्ली-110012	816.	500082	श्री सिद्धार्थ लाल सी/ओ. आर्थर एन्डर्सन एण्ड एसोसिएट्स दूसरी मंजिल कैपिटल कोट एलएससी फेस-III, ओल्ड पोम मार्ग मुनीरका, नई दिल्ली-110067
809.	099941	श्रीमति पदमागिरीश जयश्री डी/4 4098 बसंत कुंज, नई दिल्ली			
810.	102287	श्री सिन्हा अमरेन्द्र कुमार सेन्टरल वेयर हाउसिंग कार्पो. एससीओ नं. 19 सेक्टर 16, हरियाणा, पंचकुला-134109			
811.	104832	श्री बेन्डर सुहास विनायक 706-पाकेट-ई डी.डी.ए. फ्लैट्स मयूर विहार फेस-II, नई दिल्ली-110092			

अशोक हल्दिया
(सचिव)

(BANK OF BARODA)

Ref. No. _____

DATED _____

In exercise of the powers conferred by sub-section(2) of section 19 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970) / (4 of 1980), the Board of Directors of Bank of Baroda, after consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following amendments further to amend Bank of Baroda General Regulations 1998 namely,

1. (i) These regulations may be called the Bank of Baroda General (Amendment) Regulations, 2003.
(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. "Bank of Baroda General Regulations 1998" shall be renamed as "Bank of Baroda General (Shares and Meetings) Regulations 1998.
3. In Regulation 2 of Bank of Baroda General (Shares and Meetings) Regulations 1998, the Regulations so renamed.
 - (i) for clause (e), the following shall be substituted, namely :-
(e) 'Committee' means a Committee constituted under regulation 2A";
 - (ii) in clause (j), the following words and figures shall be inserted at the end namely :-
"and register of beneficial owners maintained by any depository under section 11 of the Depository Act, 1996 (22 of 1996)".

4. after regulation 2, the following new regulation shall be inserted, namely:-

"2A(i) Except as provided in Clause (ii) of regulation 67, the Board may constitute, as and when necessary, a Committee consisting of the Chairman and Managing Director or in his absence Executive Director and two other directors as it may deem fit, for the purposes of these regulations;

(ii) The Committee constituted under this regulation shall observe such rules of procedure as may be specified by the Board".

5. In regulation 5, Clause (v) shall be omitted.

6. After regulation 5, the following regulation shall be inserted, namely:-

"5A(i) The Bank shall, unless the register is in such form as in itself to constitute an index, keep an index, which may be in form of a card index of the names of shareholders and shall, within fourteen days after the date on which any alteration is made in the register of shareholders, make the necessary alteration in the index.

(ii) The index shall be kept with the register of shareholders".

7. In regulation 7, in clause (ii) for the words "in case of firms", the words "in case of partnership firms" shall be substituted.

8. In regulation 8, after clause (ii), the following clause shall be inserted, namely:-

(iii) The register in electronic form shall be maintained subject to such safeguards as stipulated for securing electronic records under the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000).

9. In regulation 11, in clause (ii) for the words "at the rate of Rs.5/- for every 100 words", the words "at the rate of Rs.5/- or at such rate as the Board may decide for every 1000 words" shall be substituted.

10. For regulation 12, the following shall be substituted, namely:-

"12. Closing of the register- The Bank may, after ensuring compliance of the applicable guidelines and the listing agreement with the Stock Exchanges, and after giving not less than seven days previous notice by advertisement in at least two newspapers circulating in India, close the register of shareholders for any period or periods not exceeding in the aggregate forty-five days in each year, but not exceeding thirty days at any one time as may in its opinion, be necessary".

11. In regulation 13,

(i) In clause (ii) for the words "some other officer appointed by the Board", the words "some other officer not below the rank of Scale II or the Company Secretary" shall be substituted;

(ii) Clause (v) shall be omitted.

12. In regulation 15, for the heading "Renewal of share certificate" the following shall be substituted, namely:

"Issue of new or duplicate share certificate".

13. In regulation 17, for the clauses (iii) and (iv), the following clauses shall be substituted, namely:-

"(iii) Upon receipt by the Bank of an instrument of transfer along with a share certificate with a request to register the transfer, the Board or the Committee designated by the Board shall forward the said instrument of transfer along with share certificate to the Registrar or Share Transfer Agent for the purposes of verification that the technical requirements are complied with in their entirety. The Registrar or Share Transfer Agent shall return the instrument of transfer along with the share certificate, if any, to the transferee for resubmission unless the instrument of transfer is presented to the bank, duly stamped and properly executed for registration and is accompanied by the certificate of the shares to which it relates and such other evidence as the Board may require to show the title of the transferor to make such transfer.

Explanation:- "Illustrations of technical requirements" means

- (a) Transfer deed shall be duly stamped ;
 - (b) Certificate number or distinctive number mentioned in the transfer deed shall tally with the share certificate;
 - (c) Transferor's signature shall tally;
 - (d) Transfer deed shall be witnessed. "
- (iv) The Board or the Committee designated by the Board shall, unless it refuses to register the transfer under regulation 19 hereinafter, cause the transfer to be registered.
- (v) Unless the transfer of shares is refused under regulation 19, the share certificate duly transferred shall be delivered to the transferee within sixty days from the date of lodging of the instrument of transfer '.

In regulation 19:-

- (i) In clause (i) for the words "The Board may refuse", the words "The Board or Committee may refuse" shall be substituted;
- (ii) the proviso to clause (i) shall be omitted;
- (iii) in clause (ii)-
 - (a) In the opening portion for the words " The Board shall", the words " the Board or Committee shall" shall be substituted
 - (b) for sub-clause (b), the following sub- clause shall be substituted, namely :-

"If it has formed the opinion that such registration ought to be refused on any of the grounds mentioned in sub regulation (i) intimate the same to the Transferor and the Transferee by notice in writing giving reasons for such refusal within 60 days from the receipt of transfer form or within such period as may be laid down in the Listing Agreement with the concerned Stock Exchange"

15. The following Explanation shall be inserted in regulation 21, namely:-

"Explanation- For the purposes of this regulation, a shareholder may cease to be qualified for registration, -

(a) If he is a guardian of minor, on the minor attaining the majority;

(b) If he is holding shares as a Karta, on his ceasing to be a Karta".

16. In regulation 32, for the words " by a resolution of the Board to that effect" the words " by a resolution of the Board to that effect at its next meeting to be held after the expiry of the notice of forfeiture under regulation 31 " shall be substituted.

17. In regulation 44, for the words " any other Officer of the Bank", the words "Company Secretary or any other Officer of the Bank not below the rank of Scale II" shall be substituted.

18. In Regulation 46, in proviso to the clause (ii), -

(i) for the words " by registered post, with or without acknowledgement due, the words "by registered post, with or without acknowledgement due or by courier service or in an electronic mode" shall be substituted ;

(ii) The words " or electronic media, as the case may be " shall be inserted after the words " ordinary course of post ".

19. In Chapter III, -

(i) in regulation 47, for the words "one or more depository ", the words one or more depository as defined in section 2(e) of the Depositories Act, 1996" shall be substituted;

(ii) regulations 48 to 55 shall be omitted.

20. In regulation 56, in clause (i), for the words " any authorised official" the words " any officer not below the rank of Scale VII or Company Secretary" shall be substituted.

21. After regulation 61, the following regulations shall be inserted, namely:-

"61A Scrutineers at Poll.

- (i) Where a poll is to be taken, the Chairman of the meeting shall appoint two scrutineers to scrutinize the votes given on the poll and to report thereon to him.
- (ii) The Chairman of the meeting shall have the power, at any time before the result of the poll is declared, to remove a scrutineers from the office and to fill the vacancy in the office of the scrutineers arising from such removal or from any other cause.
- (iii) Of the two scrutineers appointed under this regulation one shall always be a shareholder (not being an Officer or employee of the Bank) present at the meeting: provided that such a shareholder is available and willing to be appointed.

61B. Manner of taking poll and result thereof.

- (i) The Chairman of the meeting shall have power to regulate the manner in which a poll shall be taken.
- (ii) The result of the poll shall be deemed to be the decision of the meeting on the resolution on which the poll was taken".

22. In regulation 62, after clause (iii), the following clause shall be inserted, namely:

- "(iv) On written request made by a shareholder for inspection of the minute book or for a copy of the minute of a specified meeting, the Bank shall allow the inspection or furnish the copy of the minute, as the case may be, to the shareholder".

23. In regulation 65, in Clause (i), in sub-clause (a), for the words "holding 100 (one hundred) shares", the words "holding not less than 100 (one hundred) shares" shall be substituted.

The Institute of Chartered Accountants of India

NORTHERN REGIONAL OFFICE

P.B. NO. 7100, Indraprastha Marg

NEW DELHI-110002

Phone : 23370055, 23374806

Gram : CICA NEW DELHI

New Delhi-110002, the 25th November 2003

(Chartered Accountants)

3NCA(4)/1/2002-2003 : In pursuance of Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988, it is hereby notified that in exercise of the powers conferred by Section 20(1)(c) of the Chartered Accountants Act, 1949, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India has removed from the Register of Members of this Institute with effect from 01/10/2002 on account of non payment of prescribed fees, the names of the following members:

S.No. MRN Member Name & Address

- | | |
|---|---|
| 1 | 000998 Mr. BANSAL RAM KANWAR
MOHALLA NEEM WALA
(HARYANA),
HISAR 125001 |
| 2 | 001064 Mr. SURI TEJ PARTAP SINGH
7106, WORTSER AVE.
NORTH HOLLYWOOD,
CA 91605,
USA |
| 3 | 001147 Mr. SURI S P
5267 KOHLAPUR HOUSE
KAMLA NAGAR,
DELHI 110007 |
| 4 | 001199 Mr. BHANDARI RANJEET MAL
C-53 ANAND NIKETAN
NEW DELHI 110021 |
| 5 | 003275 Mr. AGARWAL NARAIN DASS
N D AGARWAL & CO
73 VIJAY BLOCK IIND FLOOR,
VIKAS MARG,
DELHI 110092 |
| 6 | 003276 Mr. RAJARAMAN T V
148 ARAVALLI APARTMENTS
KALKAJI,
NEW DELHI 110019 |
| 7 | 003719 Mr. KAPUR JAG MOHAN
L-29 SARITA VIHAR
NEW DELHI 110044 |

- | | |
|----|--|
| 8 | 003959 Mr. LAL KIRTI BHUSHAN
K B LAL & CO
F-13, SECOND FLOOR,
VIJAY CHOWK, LAXMI NAGAR,
DELHI 110092 |
| 9 | 004149 Mr. MALKANI SAHIB KOTUMAL
3B/1 SIR GANGARAM HOSPITAL ROAD
NEW DELHI 110060 |
| 10 | 004162 Mr. JAIN PADAM KUMAR
D-18, GREEN PARK,
NEW DELHI 110016 |
| 11 | 004197 Mr. HALDIA DURGA DAS
E-115 GREATER KAILASH I
NEW DELHI 110048 |
| 12 | 004312 Mr. SAIGAL JAGAN NATH
K-10/4 DLF PHASE II
HARYANA,
GURGAON |
| 13 | 005142 Mr. BAJAJ JAGDISH KUMAR
13112 WESTGATE
OVERLAND PARK,
KANSAS 66213,
USA
USA |
| 14 | 005866 Mr. MAJUMDAR ANIMESH KUMAR
C/O VINAY JAIN & CO
214 CHAWRI BAZAR,
OPP DENA BANK,
DELHI 110006 |
| 15 | 006799 Mr. MEHRA KRISHAN KUMAR
K K MEHRA & CO
E/32/III LAJPAT NAGAR,
NEW DELHI 110024 |
| 16 | 007047 Mr. BASU PARTHASARATHI
MANAGING DIRECTOR P&O TRAVEL INDIA
LTD
10TH FLOOR HEMKUNT TOWER,
98 NEHRU PLACE,
NEW DELHI 110019 |
| 17 | 007525 Mr. ARORA SUBHASH CHANDER
P.O. BOX 383, GABORONE
BOTSWANA |
| 18 | 008095 Mr. GUPTA RAJENDER PAL
13/5 SHAKTI NAGAR
DELHI 110007 |

- | | |
|--|---|
| <p>19 008361 Mr. BHALLA LALIT MOHAN
PO BOX 325
DUBAI
U A E</p> <p>20 008505 Mr. KHANNA RAJ KUMAR
GOEL GARG & CO
102 SKYLARK,
E-588 GREATER KAILASH-II,
NEW DELHI 110048</p> <p>21 009168 Mr. SETH RAJINDERLAL
85 BUTTWOOD AVENUE
CITY OF YORK,
ONTARIO M6M 2J6,
CANADA
CANADA</p> <p>22 009244 Mr. MEHRA MAN MOHAN
CITY CLINIC BLDG.,
17-A/1, ASAF ALI ROAD,
NEW DELHI 110002</p> <p>23 009247 Mr. CHHATWAL AMAR NATH
491 KRISHNA BHAWAN SUBHASH ROAD
GANDHI NAGAR,
DELHI 110031</p> <p>24 009680 Mr. JAUHARI MOHAN CHANDER
WORLD HEALTH ORGANIZATION
OMS-AFRO, BP-6,
BRAZZAVILLE,
BRAZZAVILLE
REPUBLIC OF CONGO</p> <p>25 009862 Mr. CHATTERJEE GORA
D-2 PANCHSHEEL ENCLAVE
NEW DELHI 110017</p> <p>26 010331 Mr. ANEJA SUDESH KUMAR
JB-11 (2ND FLOOR)
NEW DELHI 110017
MALVIYA NAGAR, NEW DELHI 110017</p> <p>27 010402 Mr. KAPOOR RAMESH CHANDER
VP & TREASURER GOODYEAR PHILIPPINES
INC
P O BOX 1384 MAKATI,
1253 CENTRAL POST OFFICE MAKATI,
PHILIPPINES
PHILIPPINES</p> <p>28 010543 Mr. GUPTA ISHWAR CHANDRA
I.C. GUPTA & CO
FLAT NO.711, C.A. APARTMENTS,
PASCHIM VIHAR,
NEW DELHI 110063</p> <p>29 010981 Mr. AHUJA MULAK RAJ
BOX-7252 MISS VALLEY STATE UNIVERSITY
ITTA BENA,
MS 38941-1400,
MISSISSIPPI (USA)</p> | <p>30 011125 Mr. TANDON DHAN RAJ
88, GOLF LINK (ANNEX)
NEW DELHI 110003</p> <p>31 011394 Mr. KALRA THAKAR DAS
42, JANPATH
TOLSTOY LANE,
NEW DELHI 110001</p> <p>32 011697 Mr. CHOPRA PREM KUMAR
72-A POCKET-B
MAYUR VIHAR PHASE-II,
DELHI 110091</p> <p>33 011725 Mr. JAIN DHANENDRA KUMAR
43, KIRAN VIHAR
DELHI 110092</p> <p>34 011838 Mr. KAPOOR ASHOK KUMAR
M/S. A.K. KAPOOR & ASSOCIATES
C/O. SHRI S.K. AGARWAL,
FLAT NO.27, SHANKAR MARKET,
CONN. CIRCUS,
NEW DELHI 110001</p> <p>35 012491 Mr. SEHGAL RAMESH
R SEHGAL & CO
D-852, NEW FRIENDS COLONY,
NEW DELHI 110065</p> <p>36 012505 Mr. KHERBANDA KISHORE KUMAR
U-112, VIDHATA HOUSE
VIKAS MARG, PATPAR GANJ,
DELHI 110092</p> <p>37 012782 Mr. ANIL PRAKASH
18A NIZAMUDDIN WEST
NEW DELHI 110013</p> <p>38 013123 Mr. KHANNA ASHOK CHAND
F-105 KIRTI NAGAR
NEW DELHI 110015</p> <p>39 013260 Mr. KRISHNA RAO AKELLA
C/O SH BRIJ BHUSHAN AGARWALA
A-17 SWASTHYA VIHAR,
DELHI 110092</p> <p>40 013888 Mr. PURI VIJAY KUMAR
F-213 A, LADO SARAI
MB ROAD,
NEW DELHI 110030</p> <p>41 014072 Mr. SUBHASH CHANDER
TU-1 VISHAKHA ENCLAVE
PITAMPURA,
DELHI 110034</p> <p>42 014223 Mr. RAVINDER NATH
J-6 SAKET
NEW DELHI 110017</p> |
|--|---|

- 43 014914 Mr. SHARMA PARESH NATH
DIRECTOR (FINANCE)
MMTC LTD CORE NO 1,
SCOPE COMPLEX LODI ROAD,
NEW DELHI 110003
- 44 014916 Mr. MITTAL VIJAYENDER
GENERAL MANAGER, FINANCE
JUMBO ELECTRONICS CO LTD,
P.O. BOX 3426,
DUBAI
- 45 015518 Mr. AGARWAL JAGDISH KUMAR
C-2/10 PRASHANT VIHAR
DELHI 110085
- 46 015519 Mr. SINGH AJAY KUMAR
A-15/7 VASANT VIHAR
NEW DELHI 110057
- 47 015538 Mr. SHARMA BRIJ BHUSHAN
80/7-B GROUND FLOOR
MALVIYA NAGAR,
NEW DELHI 110017
- 48 015745 Mr. JAIN GIRISH CHAND
30, GAGAN VIHAR EXTENSION
NEW DELHI 110051
NEW DELHI 110051
- 49 015840 Mr. KHANNA ASHOK
40 E PASCHIMI MARG
VASANT VIHAR,
NEW DELHI 110057
- 50 016116 Mr. MEDIRATTA NARESH
MEDIRATTA & BAWA,
606, EROS APARTMENTS.,
56 NEHRU PLACE,
NEW DELHI 110019
- 51 016242 Mr. KALRA VIPAN KUMAR
FLAT NO 2/15 ABUL FAZAL ROAD
BENGALI MARKET,
NEW DELHI 110001
- 52 016505 Mr. KAPOOR SUDHIR
7, BIRHAL ROAD, JANGPURA EXT.
NEW DELHI 110014
- 53 016640 Mr. MALHOTRA PRADEEP KUMAR
302, 3RD FLOOR
16A, UDAY PARK,
NEW DELHI 110049
- 54 016766 Mr. GUPTA SUDERSHAN K
2228 E. 54TH AVE
VANCOUVER B.C.,
CANADA V5P 1Y7 CANADA
- 55 017157 Mr. AHUJA SANDEEP
AMITEC KENYA LTD
P O BOX NO 56741,
NAIROBI, (KENYA)
- 56 017287 Mr. POPLI SUNIL KUMAR
M/S S.K. POPLI & CO.,
1715, ARYA SAMAJ ROAD.,
NEW DELHI 110005
- 57 017535 Mr. JAIN VINAY KUMAR
VINAY JAIN & CO
214 CHAWRI BAZAR,
OPP DENA BANK,
DELHI 110006
- 58 017537 Mr. BUDHRAJA SUDHIR
BUDHRAJA & ASSOCIATES
R-525, NEW RAJINDER NAGAR,
NEW DELHI 110060
- 59 017557 Mr. GHOSH ABHIJIT
503, PRAGATI HOUSE
47-48 NEHRU PLACE,
NEW DELHI 110019
- 60 017563 Mr. GULATI RAJINDER KUMAR
J-111, KIRTI NAGAR
NEW DELHI 110015
- 61 017584 Mr. GUPTA RAMESH CHAND
A-1/293 JANAK PURI
PANKHA ROAD,
NEW DELHI 110058
- 62 018215 Mr. BALASUBRAMANIAN A
DY. GENERAL MANAGER
CREDIT ADMN DIVN (O)
PUNJAB NATIONAL BANK,
7 BHIKAJI CAMA PLACE III FLOOR,
NEW DELHI 110066
- 63 018721 Mr. RAMAIIH KRISHNAN
502, WALLACE APARTMENTS,
SALTER ROAD.,
MUMBAI 400 007
- 64 021339 Mr. JOHN SAMUEL G
173 KAKA NAGAR
NEW DELHI 110003
- 65 029379 Ms. MALA B
226 UDYOG VIHAR
PHASE-1,
GURGAON 122016
- 66 030803 Mr. MUKERJEE ATRI
AL-FUTTAIM (PVT) LTD
P O BOX 152,
DUBAI,
UAE
UAE
- 67 032188 Mr. SINGH ANURANJAN
ANURANJAN & CO
475 MODEL TOWN,
KARNAL 132001

- 68 032814 Mr. SANTHIKUMAR V
GENERAL MANAGER TAXATION
C/O BALLARPUR IND LTD THAPAR HOUSE,
124 JANPATH,
NEW DELHI 110001
- 69 036354 Mr. NAGANATHAN G
1815 W GOLF DRIVE
120 MOUNT PROSPECT,
IL 60056,
U S A 60056 U S A
- 70 039948 Mr. NAYAK KRISHNA
B-3-61/A LAWRENCE ROAD
DELHI 110035
- 71 040689 Mr. BILLIMORIA PERCIVAL
M-243 GREATER KAILASH PART-II
NEW DELHI 110048
- 72 041537 Mr. OSTWAL DEEPAK
303 DAKHA CHAMERS
2068/38 NAIWALA,
KAROL BAGH,
NEW DELHI 110005
- 73 044492 Mr. KAMATH K SURESH
K K SONI & CO.
130 SAROJANI MARKET,
NEW DELHI 110023
- 74 045432 Mr. DATTA RAKESH JAGDEV
CASTROL INDIA LTD
5TH FLOOR, NBCC PLACE,
BHISHMA PITAMAH MARG,
NEW DELHI 110003
- 75 045693 Mr. GUPTA VIJAYESH
190 SFS
HAUZ KHAS,
NEW DELHI 110016
- 76 046778 Mr. JOGINDER SINGH
S-307 GREATER KAILASH-I
NEW DELHI 110048
- 77 046865 Mr. MITRA TAPAS
CHIEF FINANCIAL OFFICER
FORTIS HEALTHCARE,
B-9, MAHARANI BAGH,
NEW DELHI 110065
- 78 049386 Mr. KANKANWADI SUDHINDRA
C/O BHARAT S RAUT & CO
511 WORLD TRADE CENTRE,
BABAR ROAD,
NEW DELHI 110001
- 79 050100 Mr. GAUTAM HAZRA CHAUDHURY
ASSOCIATE DIRECTOR
HSBC INVESTMENT BANKING,
24 BARAKHAMBA ROAD 3RD FLOOR,
NEW DELHI 110048
- 80 050333 Mr. JALAN BINOD KUMAR
B K JALAN & CO
A-1/15 JIWAN JYOTI APARTMENTS,
ROHIT KUNJ KABIRDAS MARG PITAMPURA,
DELHI 110034
- 81 051048 Mr. BASAK SUROJIT
A-2 ASHISH APARTMENTS
EMPIRE ESTATES,
SULTANPUR VILLAGE,
NEW DELHI 110030
- 82 051756 Mr. SINGHI CHANDRA BHAN
C B SINGHI & ASSOCIATES
ROOM NO 4 I FLOOR,
769/777 D B GUPTA ROAD,
NEW DELHI 110005
- 83 052397 Mr. VIJANDAR KUMAR
127, E-15/SECTOR-8,
ROHINI,
DELHI 110085
- 84 053132 Mr. BIRLA MANOJ KUMAR
C/O SCHLUMBERGER
P.O. BOX 9261,
DUBAI
U.A.E.
- 85 053171 Mr. CHAKRAVARTY PRADEEP
FLAT NO 6343,
SECTOR C-6,
VASANT KUNJ,
NEW DELHI 110070
- 86 053178 Mr. PURKAYASTHA PROSENJIT
B-391, CHITTARANJAN PARK
NEW DELHI 110019
- 87 053806 Mr. RIZVI SYED MOHAMMED
M/S S.M. RIZVI CO.
9, JAI HOUSE,
NIZAMUDDIN WEST.,
NEW DELHI 110013
- 88 054296 Mr. TANEJA VINAY
K-65, LAJPAT NAGAR-II
NEW DELHI 110024
- 89 054476 Ms. GUPTA MADHABI
32 BOLTON CRESCENT
WINDSOR,
BERKSHIRE SLQ 3/JQ U.K
- 90 054623 Mr. AGARWALA RAJ KUMAR
HOUSE NO 578
SECTOR 19,
FARIDABAD (OLD),
FARIDABAD 121001

- 91 055066 Mr. GUPTA BINOD KUMAR
C/O HARYANA ROADWAYS ENGG CORPN LTD
6TH MILE STONE,
BEHRAMPUR ROAD,
KHANDRA, GURGAON
- 92 055693 Mr. AJMANI RAJEEV
RAJEEV AJMANI & CO
J-149 SAKET,
NEW DELHI 110017
- 93 055809 Mr. PANIGRAHI PARTHASARTHI
P O BOX 56921
K S A,
RIYADH 11564 SAUDI ARABIA
- 94 056126 Mr. DEVARAKONDA ANANDA
84 F POCKET
MAYUR VIHAR PHASE- 1,
DELHI 110091
- 95 056206 Mr. MITRA KAUSHIK GUNAKAR
GENERAL MANAGER - PLANNING
FRITO-LAY INDIA, 4TH FLOOR TOWER- A,
GLOBAL BASINES PARK,
MEHRAULI GURGAON ROAD,, GURGAON
- 96 057157 Mr. GUPTA JAYDIP
G-1301 SECOND FLOOR
C R PARK,
NEW DELHI 110019
- 97 057428 Ms. PRASAD RATIKA
C-1/1550 VASANT KUNJ
NEW DELHI 110070
- 98 057497 Mr. KARTHIKEYAN B
CORPORATION BANK-ZONAL OFFICE
16/10 ARYA SAMAJ ROAD,
KAROL BAGH,
NEW DELHI 110005
- 99 057636 Mr. SOMANI SANDIP KUMAR
C/O SHRI R S LADHA,
H.NO. 1411, SECROT-16,,
(HARYANA),
FARIDABAD
- 100 057746 Mr. DHAR JAYDIP
CONRTOLLER (F&A), PHILIPS INDIA LTD,
LIGHTING DIVISION NORTHERN REGION,
9TH FLOOR, ASHOKA ESTATE,
24 BARAKHAMBHA ROAD, NEW DELHI 110001
- 101 058019 Mr. DUGAR MANISH
R 231 GREATER KAILASH
PART--I,
NEW DELHI 110048
- 102 058233 Mr. SINHA BIDHAN
18/304 EAST END APARTMENT
MAYUR VIHAR, PHASE -I EXTENSION,
DELHI 110096
- 103 058667 Mr. SINGHANIA PANKAJ
B-50 CHRISTIAN COLONY
PATEL CHEST,
DELHI 110007
- 104 058926 Mr. CHOUHAN RAJESH KUMAR
B-1/403
IIND FLOOR,
JANAK PURI,
NEW DELHI 110058
- 105 059114 Mr BHOLA SANJAY
G-83/105 VIJAY CHOWK
LAXMI NAGAR,
DELHI 110092
- 106 059445 Mr CHAKRABARTI ARINDAM
C/O INDO MOBIL LTD
4A DLF CORPORATE PARK,
MEHRAULI-GURGAON ROAD,
GURGAON 122001
- 107 059851 Mr CHANDAK VISHAL
INTERNATIONAL MANAGEMENT INSTITUTE
B-10, 30 & 31 QUTUB INSTITUTIONAL AREA,
TARA CRESCENT,
NEW DELHI 110016
- 108 060006 Mr. PRABIN KUMAR
C/O DILIP KUMAR DUBEY
TAYAL KUTIR,
WZ-521 STREET NO 1,
SRINAGAR SHAKUR VASTI,
NEW DELHI 110034
- 109 060068 Ms. CHANANA SONIA
B-84 PANDARA ROAD
NEW DELHI 110003
- 110 060167 Mr CHITLANGIA SACHIN
C/O MR SATISH KUMAR
143/9 J N U ROAD,
KISHANGARH VASANT KUNJ,
NEW DELHI 110070
- 111 060380 Mr. AGARWAL SUNDEEP
C/O SRI OM PRAKASH AGARWAL
C-3/37, ASHOK VIHAR PHASE-II,
DELHI 110052
- 112 060480 Mr. BHALOTIA SANDEEP KUMAR
27/174, 3RD FLOOR,
VIKRAM VIHAR,
LAJPAT NAGAR-IV,
NEW DELHI 110024
- 113 070443 Mr. SINGHVI SURESH CHANDRA
A-240, DERAWALA NAGA, RDELHI 110007
- 114 072886 Mr. CHARANJIT SINGH
10402/8, STREET NO.13,
1ST FLOOR, MULTANI DHANDA,
PAHARGANJ, NEW DELHI 110055

- 115 073172 Mr. GUPTA SUBHASH CHANDRA
S CHANDRA GUPTA & ASSOCIATES
CHAMBER NO 207 WADHWA COMPLEX,
288-89/10, LAXMI NAGAR,
DELHI 110092
- 116 073414 Mr. SHARMA RAJ KUMAR
C/O RAHUL TRIPATHI
43A/A -2 MAYUR VIHAR,
PHASE III,
BESIDES CITY BUS TERMINAL, NEW DELHI
110096
- 117 073428 Mr. ADARSH KUMAR
303 SITA RAM MANSION
718 JOSHI ROAD,
KAROL BAGH,
NEW DELHI 110005
- 118 073479 Mr. SANDEEP KUMAR
OY. MANAGER (FIN.)
POWER FINANCE CORPN. LTD.,
CHANDRALOK, 36, JANPATH,
NEW DELHI 110001
- 119 073520 Mr. MAHESHWARI MARIOUL
M MAHESHWARI & CO
302, 1192/6 NAIWALA,
KAROL BAGH,
NEW DELHI 110005
- 120 073615 Mr. RAM KISHORE MAHESHWARI
315 BAJAJ HOUSE
97 NEHRU PLACE,
NEW DELHI
- 121 073991 Mr. VERMA CHANDRA SHEKHAR
CHANDRA VERMA & CO
G-2 ASSOCIATED APARTMENTS,
83 I.P. EXTENSION,
DELHI 110092
- 122 074429 Mr. MOOLCHANDANI HARISH
K-1/32 1ST FLOOR
CHITTRANJAN PARK,
NEW DELHI 110019
- 123 074525 Mr. SINGH PUSHPENDER
H NO.-553, PHASE-3B1,
PUNJAB,
MOHALI 160059
- 124 074677 Mr. JAIN DHARMA PRAKASH
1097 SECTOR 7C
FARIDABAD 121006
- 125 074710 Mr. SHEKHAR KANCHAN
S KANCHAN & ASSOCIATES
1473A, SECT-BI,
VASANT KUNJ,
NEW DELHI 110070
- 126 074766 Mr. SINGHVI SUDHIR KUMAR
A-240, OERAWALA NAGAR
DELHI 110007
- 127 074852 Mr. KANDHARI TARUN
B-1/543 JANAKPURI
NEW DELHI 110058
- 128 075183 Mr. KISHNANI NANDLAL
KISHNANI & ASSOCIATES
207 1ST FLOOR VIKAS COMPLEX,
37 VEER SAVARKAR BLOCK VIKAS MARG,
DELHI 110092
- 129 075440 Mr. JINDAL MAN MOHAN
C/O M/S AJAY STORES
KHERA BAZAR,
JAGADHRI 135003
- 130 075990 Mr. JAIN MANOJ KUMAR
MANJIT SINGH & ASSOCIATES
21 SHYAM ENCLAVE,
VIKAS MARG I P EXTN-II,
DELHI 110092
- 131 078040 Mr. RATHI RAJ KUMAR
IKEA TRADING (I) LTD
PLOT NO 8 BALAJI ESTATE,
GURU RAVI DAS MARG,
KALKAJI, NEW DELHI
- 132 078333 Mr. SHARMA RAKESH
885, SECTOR-14
URBAN ESTATE,
GURGAON
- 133 078621 Mr. JOSHI BHUWAN CHANDRA
53-F PKT
MAYUR VIHAR,
PHASE 1,
DELHI 110091
- 134 078681 Mr. K SWAMINATHAN
E-7 IOPL APARTMENTS
ROAD NO 44 PITAMPURA,
NEW DELHI 110034
- 135 078743 Mr. TEWARI BIBHAW NATH
MANAGER - OPERATIONS
LOVELOCK & LEWES SERVICE P LTD.
1110, KAILASH BUILDING,
26, KASTURBA GANDHI MARG,
NEW DELHI 110001
- 136 079090 Ms. AGRAWAL SMITA
SHITHKLINE BEECHAM CONSUMER
HEALTHCARE LTD,
DLF PLAZA TOWERS,
DLF CITY PHASE-I, GURGAON 122002
- 137 079430 Mr. KAPOOR SUNIL KUMAR
EP 26 DALPATIAN STREET
JAMMU TAWI 180001

- 138 079502 Mr. BANSAL KRISHNA KUMAR
I-113 LAXMI NAGAR
DELHI 110092
- 139 079948 Mr. JAIN AMIT
F-55 DDA SFS FLATS
BEHIND MALVIYA NAGAR POLICE,
STATION,
SHEIKH SARAI PHASE-I, NEW DELHI
- 140 080017 Mr. MALHOTRA ASHOK KUMAR
B-10/7308 VASANT KUNJ
NEW DELHI 110070
- 141 080063 Mr. PARVEEN KUMAR
31/36, OLD RAJENDRA NAGAR
NEW DELHI 110080
- 142 080161 Mr. MEHRA ASHOK KUMAR
R-690, NEW RAJENDER NAGAR
NEW DELHI 110060
- 143 080175 Mr. SURI RAJAN
B-12 SOAMI NAGAR SOUTH
DELHI 110017
- 144 080185 Mr. SAGAR PRADEEP KUMAR
PRESIDENT CANATRADE INTERNATIONALE
INC
CANATRADE HOUSE 151 BOULEVARD,
JEAN LEMAN CANDIAG J5R 4V5 QUEBEC,
CANADA
CANADA
- 145 080239 Mr. CHADHA ARVINDER SINGH
HOUSE NO 240
SECTOR 9-C,
CHANDIGARH 160017
- 146 080252 Mr. ANAND RUPINDER
M/S. H S GULATI & CO
5640 QUTAB ROAD,
NEW DELHI 110055
- 147 080261 Mr. GOYAL BAL RAJ
HARYANA FINANCIAL CORPORATION
SCO 17 18 & 19,
SECTOR 17,
CHANDIGARH 160017
- 148 080359 Mr. JOSHI SUDHIR
B-3, KAILASH COLONY
NEW DELHI 110048
- 149 080369 Mr. SETH PRADEEP
C-13, MANSAROVER GARDEN
NEW DELHI 110015
- 150 080374 Mr. ARVIND KUMAR
4222, FIRST FLOOR
1, ANSARI ROAD,,
DARYAGANJ,
NEW DELHI 110002
- 151 080629 Mr. AGGARWAL BRIJ MOHAN
46 ADDITIONAL MANDI
SIRSA
- 152 080679 Mr. GUPTA VIJAY KUMAR
303 MAHABIR SHREE HOUSE
4771/23 DR BHARAT RAM ROAD,
DARYA GANJ,
NEW DELHI 110002
- 153 080702 Mr. MURTI SHIV SHANKER
S S MURTI & CO
EXB 45, HARI NAGAR,
NEAR MAYA PURI DDA LIG FLATS,,
NEW DELHI 110064
- 154 080743 Mr. JOLLY RAJAN
A-6 IIND FLOOR
SRI AGRASEN C.G.H SOCIETY LTD,
PLOT NO 10 SECTOR-7,
DWARKA PHASE-1, NEW DELHI 110045
- 155 080763 Mr. SAZAWAL RAMESH
C/O DR. DEEPAK SHARMA
HOUSE NO. 76 INDIRA NAGAR,
SECTOR C (KASHMIR),
SRINAGAR 190004
- 156 080782 Mr. VIJAYA SARADHI P
A-7 KAKATEEYA APARTMENTS
86 I P EXTENSION,
DELHI 110092
- 157 080856 Mr. CHOUDHARY HARSH KUMAR
H K CHOUDHARY & ASSOCIATES
C-530 SARASVATI VIHAR,
DELHI 110034
- 158 080886 Mr. KASHYAP-SUBHASH CHANDER
C/O. BANSAL MITTAL & CO
SCO 1116-17, FIRST FLOOR,
SECTOR 22-B,
CHANDIGARH 160022
- 159 080907 Mr. BAJAJ SHYAM LAL
87 LAXMI APARTMENTS
PLOT NO 24/3 ROHINI SECTOR 9,
DELHI 110085
- 160 080993 Mr. LAKHWANI MOHINDER KUMAR
105 JAINA S RAKESH DEEP 11
YUSUF SARAI COMMERCIAL COMPLEX,
NEW DELHI 110049
- 161 081031 Mr. MALHOTRA SATINDER KUMAR
35 HESTON AVENUE
HESTON LONDON,
MIDDLESEX TW5 9EU U.K
- 162 081102 Mr. GUPTA RAJ KUMAR
R K GUPTA & ASSOCIATES
2503 NEW QUTAB ROAD,
TELIWARA, DELHI 110006

- 162 081114 Mr. MATHUR ANAND KRISHAN
ANAND K MATHUR & CO
P B NO 7200 INDRAPRASTHA HEAD POST OF-
FICE,
B S ZAFAR MARG,
NEW DELHI 110002
- 164 081117 Mr. AGARWAL ARUN KUMAR
ARUN AGARWAL & ASSOCIATES
N-141 SOUTH CITY,
OFF DELHI JAIPUR HIGHWAY NO 8,
GURGAON
- 165 081143 Mr. KALANI RAMESH KUMAR
HOUSE NO 772
SECTOR 2,
PANCHKULA
- 166 081297 Mr. RAI ASHOK
ASHOK RAI & CO
FLAT 301, NILGIRI APARTMENTS,
9, BARAKHAMBA ROAD,
NEW DELHI 110001
- 167 081349 Mr. GUPTA BRIJ BHUSHAN
1368 -B, SECTOR 14
FARIDABAD
- 168 081393 Mr. MEHTA SATISH CHAND
COUNCELLOR,
PERMANENT MISSION OF INDIA
TO THE U N, NEW YORK,
C/O DIPLOMATIC BAG SECTION, MINISTRY,
OF EXT. AFFAIRS SOUTH BLOCK, NEW DELHI
- 169 081415 Mr. IYENGAR R PRASAN KUMAR
C/O SHOBITHA MOHAN
174 B DDA MIG FLATS,
RAJOURI GARDENS,
NEW DELHI 110027
- 170 081454 Mr. LUGANI BAHUSHRUT KUMAR
105 JAINA S RAKESH DEEP 11
YUSUF SARAI COMMERCIAL COMPLEX,
NEW DELHI 110049
- 171 081679 Mr. DHAWAN INDER JEET
SWASTIK SADAN
CLIFFEND ESTATE,
SHIMLA 171001
- 172 081692 Mr. MALIK ANIL
DIRECTOR(FINANCE)
EIH LIMITED,
7, SHAMNATH MARG,
DELHI 110054
- 173 081722 Mr. BANSAL VED PARKASH
OPP HARYANA MISTHAN BHANDAR
OLD ROHTAK ROAD,
SONEPAT 131001
- 174 081725 Mr. SHARMA BALRAJ
MAHARAJ BALRAJ & CO
PD-1A DDA FLATS VISHAKHA,
ENCLAVE PITAMPURA,
DELHI 110034
- 175 081729 Mr. KALRA SURINDER KUMAR
B-139 MALVIYA NAGAR
NEW DELHI 110017
- 176 081734 Mr. SADANA RAJAN
A-641 SUSHANT LOK
GURGAON 122002
- 177 081753 Mr. ASHOK KUMAR
SEHGAL & CO
B-4/5 MODEL TOWN-I,
DELHI 110009
- 178 081786 Mr. ATUL KUMAR
A MATHUR & ASSOCIATES
302 3RD FLOOR,
16-A UDAY PARK,
NEW DELHI 110049
- 179 081804 Mr. VIJAY KUMAR
D-191
SAKET,
NEW DELHI 110017
- 180 081842 Mr. RAJ KUMAR
C-428, SARITA VIHAR,
NEW DELHI 110044
- 181 081968 Mr. GOEL PREM KRISHAN
3038 GURUKASHI MARG
BHATINDA 151001
- 182 082022 Mr. BHATIA HARI OM
H-242, ASHOK VIHAR PHASE-I
DELHI 110052
- 183 082031 Mr. AGARWAL SUBASH C
50-A, POCKET-I
DILSHAD GARDEN,
DELHI 110095
- 184 082050 Mr. GUPTA GIRISH
G GUPTA & CO
5 SADHNA ENCLAVE,
NEW DELHI 110017
- 185 082160 Mr. SHIV KUMAR
FLAT NO.13, NEW DELUXE APARTMENTS,
SECTOR-9, PLOT NO.11,,
ROHINI,
DELHI 110085
- 186 082254 Mr. BHATNAGAR RAJ VIR
SR. FINANCE MANAGER
INDIAN OIL CORPORATION,
YUSUF SARAI,
NEW DELHI 110016

- 187 082303 Mr. BHATNAGAR AJAY
P O BOX 41155
GABORONE,
BOTSWANA
- 188 082340 Mr. VASUDEVA RAJEEV
SACHAR VASUDEVA & ASSOCIATES
X-22 HAUZ KHAS,
NEW DELHI 110016
- 189 082369 Mr. BANSAL ASHOK KUMAR
304 DELHI CHAMBER
3453 DELHI GATE,
DELHI 110006
- 190 082388 Ms. VERMA RAKESH
M/S. R.P. VERMA & ASSOCIATES
H.NO. 1099, VIKAS KUNJ,
VIKAS PURI,
NEW DELHI 110018
- 191 082414 Mr. DHAWAN RAJAN
B-12 COMPETENT HOUSE
F-14 CONNAUGHT PLACE,
NEW DELHI 110001
- 192 082418 Mr. MITTAL MUKESH
G-110 ASHOK VIHAR
PHASE-1,
DELHI 110052
- 193 082493 Mr. MALHOTRA SANJIV
89, POORVI MARG
VASANT VIHAR,
NEW DELHI 110057
- 194 082596 Mr. GULATI MANU DEV
M D GULATI & ASSOCIATES
8/5 W E A KAROL BAGH,
NEW DELHI 110005
- 195 082656 Mr. SANJAY KUMAR
E-14 PRASAD NAGAR
NEW DELHI 110005
- 196 082780 Mr. SHARMA RAMESH KUMAR
RAMESH K SHARMA & CO
B-1, NEW UNIVERSITY COMPUS.,
OPP M.A.M. COLLEGE.,
JAMMU TAWI 180001
- 197 082787 Mr. AHUJA MANOJ KUMAR
M K AHUJA & ASSOCIATES
HOUSE NO 1430,
SECTOR 15,
PANCHKULA 134115
- 198 082953 Mr. KUMAR INDER JEET
I KUMAR & CO
33 U A (5973),
JAWAHAR NAGAR,
DELHI 110007
- 199 082986 Mr. MITRA BISHWAJIT
FLAT NO 305
119176 ELAHI BUX ROAD,
NAIWALA,
KAROL BAGH, NEW DELHI 11000
- 200 083019 Mr. JOSHI ANOOP KUMAR
M K GOSWAMI & CO
4/8 ASAF ALI ROAD,
NEW DELHI 110002
- 201 083038 Mr. SATIJA KANTI RAMAN
291 JAGRITI ENCLAVE
VIKAS MARG,
DELHI 110092
- 202 083080 Mr. MAHESHWARI CHANDRESH
C/O K A JAIN & ASSOCIATES
R-10 GREEN PARK EXTENTION,
NEW DELHI 110016
- 203 083090 Mr. CHHABRA SANJIV
7A/31 W E A
KAROL BAGH,
NEW DELHI 110005
- 204 083105 Mr. MANJIT KUMAR
2667 ASHWOOD CT
GRAND PRAIRIE,
TX 75052,
U S A
U S A
- 205 083155 Mr. TANDON LAV KUMAR
7-A MEDICAL ENCLAVE
AMRITSAR 143006
- 206 083191 Mr. MAHESH BHUSHAN
M BHUSHAN & ASSOCIATES
FLAT NO-117 SFS FLATS,
ASHOK VIHAR PHASE-IV,
DELHI 110052
- 207 083231 Mr. AGGARWAL AWANISH KUMAR
A- 373 A, SUBHASH MARKET
KOTLA MUBARAKPUR,
NEW DELHI 110003
- 208 083232 Mr. GUPTA HARSH K
K B CHANDNA & CO
E-27, SOUTH EXTENSION-II,
NEW DELHI 110049
- 209 083236 Mr. SANJEEV KUMAR
SANJEEV KUMAR & CO
K-48 KIRTI NAGAR,
NEW DELHI 110015
- 210 083247 Mr. MEHTA ARJUN RAJ
ARJUN MEHTA & CO
401 WHITE HOUSE,
382 SANT NAGAR EAST OF KAILASH,
NEW DELHI 110065

- 211 083263 Mr. SUNDAR NURANI
BLOCK 643 # 03-281 HOUGANG AVENUE 8
SINGAPORE 530 643,
SINGAPORE
SINGAPORE
- 212 083270 Mr. JAIN ANIL KUMAR
ANIL JAIN KUMAR & CO
10 GURU NANAK MARKET,
HAZURI ROAD,
LUDHIANA 141001
- 213 083375 Mr. KALRA RAJNI KANT
KALRA & CO
241 MODEL TOWN,
HARYANA,
SONEPAT 131001
- 214 083440 Mr. SYAL SANJIV
W-20, GREEN PARK
NEW DELHI 110016
- 215 083485 Ms. ARORA MADHU
APT # 611-250 WEBB DRIVE
MISSISSAUGA,
ONTARIO L5B 3Z4 CANADA
- 216 083489 Mr. GUMBER RAMAN KUMAR
L-22 INDRAPRASTHA APPARTMENTS
PLOT NO. 114, PATPARGANJ,
DELHI 110092
- 217 083525 Mr. MARYA MANOJ
941, SECTOR -9,
HARYANA,
PANCHKULA 134109
- 218 083549 Mr. KAPOOR RAVI KANT
M/S. RAVI K KAPOOR & ASSOCIATES
10173/15/2 ABDUL AZIZ ROAD,
W.E.A. KAROL BAGH,
NEW DELHI 110005
- 219 083581 Mr. ANAND SUBHASH
831 RORI BAZAR
SIRSA 125055
- 220 083647 Mr. SINGH AJIT SATVINDER
AJIT & ASSOCIATES
D-86 GULMOHAR PARK,
NEW DELHI 110049
- 221 083650 Mr. AGGRWAL NARESH CHAND
D-8 GALI NO 8
JYOTI COLONY,
SHAHDARA,
DELHI 110032
- 222 083692 Mr. GREWAL HARCHARAN SINGH
GREWAL & CO
204 PRAKASH TOWER,
J-BLOCK MARKET,
ASHOK VIHAR-I, DELHI 110052
- 223 083700 Mr. BEHL RAJESH
805
NAC MANIMAJRA,
CHANDIGARH
- 224 083704 Mr. VIRENDER KUMAR
BINDLISH & VIRENDER ASSOCIATES
HOUSE NO 1173,
SECTOR 15-II,
GURGAON
- 225 083742 Mr. BAKSHI GAUTAM
C/O DUSK VALLEY TECHNOLOGIES LTD
227 OKHLA INDUSTRIAL ESTATE,
PHASE III,
NEW DELHI 110020
- 226 083745 Mr. MITTAL PRADEEP KUMAR
M/S. PRADEEP K. MITTAL & ASSOCIATES
B-D8 VISHAKA ENCLAVE,
PITAM PURA,
DELHI 110034
- 227 083777 Mr. CHAUDHARY HARPREET
1465 JAPPAUL
SAN JOSE, CA,
U S A 95132 U S A
- 228 083778 Mr. JAIN PRADEEP KUMAR
M/S. PRADEEP K & ASSOCIATES
4231/XI ANSARI ROAD,
DARYA GANJ,
NEW DELHI 110002
- 229 083787 Mr. PARTI DEEPAK
D-6/10 VASANT VIHAR
NEW DELHI 110057
- 230 083790 Mr. KESWANI GOBIND RAM
G R KESWANI & CO
9/6707 DEV NAGAR,
KAROL BAGH,
NEW DELHI 110005
- 231 083807 Mr. DHAWAN RAVI
RAVI DHAWAN & ASSOCIATES
C-458, DEFENCE COLONY,
NEW DELHI 110024
- 232 083828 Mr. MALHOTRA SANDEEP
89, POORVI MARG
VASANT VIHAR,
NEW DELHI 110057
- 233 083849 Mr. KAPOOR TARVINDER SINGH
52 CHOTTI BARADARI
THE MALL,
PATIALA 147001
- 234 083895 Mr. GULATI IQBAL SINGH
BV/469 MOHALLA BHAG SHAH
TARN TARAN,
AMRITSAR 143401

- 235 083990 Mr. MALHOTRA RAJIVE
A-155, GUJRANWALA TOWN PART-I
DELHI 110009
- 236 084032 Mr. CHOPRA RAJEEV
C/O SH S S CHOPRA
A-Z-23, MIANWALI NAGAR,
ROHTAK ROAD,
NEW DELHI 110041
- 237 084033 Mr. SHARMA SHATA NAND
A-146, IIIRD FLOOR
SHAKARPUR, VIKAS MARG,
DELHI 110092
- 238 084106 Mr. ASHWANI KUMAR
GALHOTRA GARG & CO.
TIKKA BUILDING, RLY ROAD,
KURUKSHETRA 132118
- 239 084181 Mr. TODAR MAL
SCO NO 383
SECTOR 37 - D,
CHANDIGARH 160017
- 240 084185 Mr. GUPTA SUSHIL KANT
D-131 IIND FLOOR
NEW RAJINDER NAGAR,
NEW DELHI 110060
- 241 084222 Mr. LALL AMARJIT SINGH
MANAGING DIRECTOR
LALLSON FINANCIAL & MANAGEMENT SERV-
ICES
1692 ARYA SAMAJ ROAD,
KAROL BAGH, NEW DELHI 110005
- 242 084223 Mr. AGARWAL MAHESH KUMAR
G-406, RASHMI APARTMENTS
AMRIT COOPERATIVE GROUP HSG. SOCIETY,
HARSH VIHAR, PITAMPURA,
DELHI 110034
- 243 084236 Mr. KANOTRA MUKESH
PRADEEP JINDAL & CO
2936/43 BEADON PURA,
SARASWATI MARG KAROL BAGH,
NEW DELHI 110005
- 244 084292 Mr. CHATTERJEE JAIDEEP
85, DARYA GANJ
NEW DELHI 110002
- 245 084397 Mr. AGRAWAL VIVEK KUMAR
A-701 C.A. APARTMENTS
PASCHIM VIHAR,
NEW DELHI 110063
- 246 084402 Mr. SATISH KUMAR
SATISH K SOOD & ASSOCIATES
5493/2 CAT-II MODERN RESIDENTIAL COM-
PLEX,
MANI MAJRA,
CHANDIGARH 160017
- 247 084415 Mr. SURESH KUMAR
SURESH K ALIPURIA & ASSOCIATES
H NO 1320 PHASE-I,
URBAN ESTATE,
JALANDHAR CITY, JALANDHAR 144005
- 248 084446 Mr. JAYASWAL RAJIV KUMAR
JAYASWAL ASSOCIATES
A-160 IIND FLOOR VIKAS MARG,
MAIN ROAD SHAKARPUR,
DELHI 110092
- 249 084474 Mr. VIJ HEMANT
HEMANT VIJ & CO
B-231 GREATER KAILASH-I,
GROUND FLOOR (REAR),
NEW DELHI 110048
- 250 084526 Mr. RAWAT RAMPAL
C-3A, FLAT NO.26-B
JANAK PURI,
DELHI 110058
- 251 084545 Mr. LEKH RAJ
IX/6872, ARYA SAMAJ ST.
GANDHI NAGAR,
DELHI 110031
- 252 084589 Mr. MEHROTRA ANIL KUMAR
ANIL K MEHROTRA & ASSOCIATES
FLAT NO 101 B-85 DUGGAL COLONY,
DEVLI ROAD,
NEW DELHI 110062
- 253 084604 Mr. CHOPRA VINOD
VINOD CHOPRA & ASSOCIATES
N-38 PANCHSHILA PARK,
NEW DELHI 110017
- 254 084629 Mr. GUPTA SUDHIR KUMAR
B-123, GANESH NAGAR
OPP. JANAKPURI CHECK POST,
MAIN NAJAFGARH ROAD,
NEW DELHI 110019
- 255 084654 Ms. MEENA KUMARI
IA 53A ASHOK VIHAR
PHASE-1,
DELHI 110052
- 256 084675 Mr. SINGH DALJIT
DALJIT SINGH & CO
2 CHANDER PURI,
TAYLOR ROAD,
AMRITSAR 143001
- 257 084681 Mr. DEWAN ASHWINI
A-II/87, SAFDARJANG ENCLAVE
NEW DELHI 110029
- 258 084683 Mr. VENKATESH CHARI
M/S CHARI & RAVI
114 JORBAGH,
NEW DELHI 110003

- 259 084695 Mr. GUPTA BABU LAL
M/S B L GUPTA & ASSOCIATES
169, SECTOR-37,,
HARYANA,
FARIDABAD
- 260 084723 Mr. BHALLA HARDEEP
3-B TAGORE NAGAR
LUDHIANA 141001
- 261 084735 Mr. CHOPRA SANJEEV
C-3A/44A, JANAKPURI
NEW DELHI 110058
- 262 084761 Mr. JAIN SANJEEV KUMAR
JAIN & VINAY ASSOCIATES
7575 RAM NAGAR OLD BARAF KHANA,
PAHARGANJ,
NEW DELHI 110055
- 263 084829 Mr. MAITHEL ATUL
BM-1, POORVI
SHALIMAR BAGH,
DELHI 110088
- 264 084849 Mr. GUPTA VIJAY KUMAR
315 SOUTH EX PLAZA II MASJID MOTH
NEW DELHI 110049
- 265 084850 Mr. NARESH KUMAR
NARESH KAPOOR & ASSOCIATES
B-38 NEW GOBIND PURA,
KRISHNA NAGAR,
DELHI 110051
- 266 084855 Mr. GULATI ARUN
ARUN GULATI & CO
FLAT NO 5A BLOCK CA MIG FLATS
NK COLONY,
SHALIMAR BAGH,
NEW DELHI 110052
- 267 084861 Mr. SARDANA RAJEEV
RAJEEV SARDANA & CO
B-2/175 SAFDARJUNG ENCLAVE,
NEW DELHI 110029
- 268 084898 Mr. GUPTA AJAY KUMAR
AJAY KUMAR GUPTA & CO,
4596/2, RAGHUNATH BHAWAN,
11, DARYA GANJ,
NEW DELHI 110002
- 269 084918 Mr. KOHLI RAJAN
2705 BASEMENT BANK STREET
KAROL BAGH,
NEW DELHI 110005
- 270 084984 Mr. JAIN ANIL KUMAR
1717, URBAN ESTATE
SECTOR-4,
GURGAON 122001
- 271 084987 Mr. BHARGAVA DEVENDRA D
26 NETAJI SUBHASH MARG
NEW DELHI 110002
- 272 084991 Mr. BAGGA AMAR JEET SINGH
97-B POCKET-C
SIDDHARTHA EXTENSION,
NEW DELHI 110014
- 273 085008 Mr. SURI RAVI
T-64, NEW ROHTAK ROAD
NEW DELHI
- 274 085032 Ms. SETIA SUJATA
SUJATA SETIA AND ASSOCIATES
A-64 RAJOURI GARDEN,
NEW DELHI 110027
- 275 085096 Mr. KHATEEB PARVAIZ IQBAL
PARVAIZ KHATEEB & CO
NEAR GURUDWARA LAKHDATA BAZAR,
JAMMU TAWI 180001
- 276 085148 Mr. PANNU GUNJEET SINGH
B-97 ASHOK VIHAR
PHASE-1,
DELHI 110052
- 277 085169 Mr. BAKSHI NARESH
N BAKSHI & CO
B-38 INDERPURI,
NEW DELHI 110012
- 278 085190 Mr. SURENDER KUMAR
S K MEDIRATTA & ASSOCIATES
51 SINGLE STORY FLATS,
JWALA HERI,
PASCHIM VIHAR, NEW DELHI 110063
- 279 085207 Mr. AVNISH KUMAR
1F/40, NIT
FARIDABAD,
FARIDABAD 00
- 280 085239 Mr. TALWAR ASHOK
N-125 GREATER KAILASH I
NEW DELHI 110048
- 281 085247 Mr. JAIN KAMAL
ROOM NO.206,
WP -504, SHIV MARKET,
ASHOK VIHAR,
DELHI 110052
- 282 085248 Mr. BHATIA SANJAY KUMAR
1414, DR. MUKHERJI NAGAR
DELHI 110009
- 283 085255 Mr. CHHABRA RAJESH KUMAR
911, SECTOR-15 PART 2
GURGAON

- 284 085257 Mr. SACHDEVA SANJAY
57-A, IIND FLOOR
SANT NAGAR, EAST OF KAILASH,
NEW DELHI 110065
- 285 085286 Mr. ROHIT PRASAD
3/17 A ASAF ALI ROAD
GROVER MANSION 3RD FLOOR,
NEW DELHI 110002
- 286 085291 Mr. GUPTA SHYAM PRAKASH
43, GF, OARYAGANJ
NEW DELHI 110002
- 287 085293 Mr. RAKESH KUMAR
THE NEW INOIA ASSURANCE CO LTO
19, COMMUNITY CENTRE,
NEW FRIENOS COLONY,
NEW DELHI 110065
- 288 085300 Mr. RAJESH KUMAR
23, POPULAR APARTMENTS,
20/1, SECROR- 13,,
ROHINI,
DELHI 110085
- 289 085336 Mr. RAJESHWAR PRASAD
B-19 GULMOHAR PARK
NEW DELHI 110049
- 290 085337 Mr. JAIN RAJESH
107 GUPTA CORNER
B-1/1, COMMERCIAL COMPLEX,
AZADPUR,
DELHI 110033
- 291 085351 Mr. GOPALAKRISHNAN S
FLAT NO 190 POCKET-B
SFS OOA FLATS,
SUKHDEV VIHAR,
NEW DELHI 110025
- 292 085399 Mr. AHUJA KAMAL
IA/52 A ASHOK VIHAR
PHASE-I,
DELHI 110052
- 293 085405 Ms. SOOO VANDANA
92-JOR BAGH
NEW DELHI 110003
- 294 085441 Mr. GUPTA RAJESH
RAJESH PARKASH & CO
C-781, SECTOR -7,,
(HARYANA),
FARIOABAD 121002
- 295 085488 Mr. SHARMA RAJAN
RAJAN GAUTAM & ASSOCIATES
H NO 991 SECTOR 16,
FARIDABAO 121002
- 296 085501 Mr. SAHNI RAMAN KUMAR
C/O INNOVA PROCESSING CO LLC
P O BOX 25902,,
DUBAI,
DUBAI
U.A.E.
- 297 085520 Mr. OBEROI SANJEEV
C-5A/49 JANAKPURI
NEW DELHI 110058
- 298 085657 Mr. UPPAL SANJAY
1128, POME AVENUE,
SUNNYVALE,
CA 94087,
U S A
- 299 085674 Mr. HASH CHANDER
501
SECTOR-23,
HARYANA,
GURGAON
- 300 085679 Mr. KULKARNI NIKHIL P
NIKHIL P KULKARNI & ASSOCIATES
A-137 MADHUVAN,
I P EXTENSION,
DELHI 110092
- 301 085704 Mr. GUPTA ANIL KUMAR
B-40 MANU APARTMENTS
MAYUR VIHAR PHASE I,
DELHI 110091
- 302 085748 Mr. SINGH HARPAL
HOUSE NO. 2533
PHASE 7,
MOHALI
- 303 085792 Mr. KHANNA SUNIL RAI
BG-40 SHALIMAR BAGH (POORVI)
DELHI 110088
- 304 085837 Mr. MOHINDER KUMAR
SHOP NO. 33
SAMPLA MANOI,
ROHTAK 124501
- 305 085840 Mr. GUPTA VINOO KUMAR
2169, MAIN PATEL ROAD,
WEST PATEL NAGAR,,
NEW DELHI 110008
- 306 085854 Mr. AGGARWAL VIRENORA KUMAR
VIRENDRA K AGGARWAL & CO
A-2/166 JANAKPURI,
NEW DELHI 110058
- 307 085873 Mr. SHARMA RAKESH
C-8/1-A VASANT VIHAR
NEW DELHI

- 308 085926 Mr. DUBLISH SANJEEV KUMAR
E-304, PRINCE APARTMENTS
PATPARGANJ ROAD,
DELHI 110092
- 309 085939 Mr. RANDHAWA SANJIT SINGH
S S RANDHAWA & CO
2142 SECTOR 35-C,
CHANDIGARH 160036
- 310 085951 Mr. ANIL KUMAR
ANIL MANJU & ASSOCIATES
M-5 11/8-B TEWARI CHAMBERS,
PUSA ROAD,
NEW DELHI 110005
- 311 085958 Mr. MALHOTRA RAMAN KUMAR
AP-22B PITAM PURA
DELHI 110034
- 312 086031 Mr. TANDON RAJIV
C-124, LAJPAT NAGAR-1
NEW DELHI 110024
- 313 086151 Ms. TRIPATHI NEELIMA
F-9-A, BHAGWAN DASS NAGAR
EAST PUNJABI BAGH,
NEW DELHI 110026
- 314 086199 Mr. GUPTA SUBODH
SUBODH GUPTA & CO.
E-36, SOUTH EXTENSION,
PART -I,
NEW DELHI 110049
- 315 086213 Mr. SURINDER SINGH
S S SANDHEY & ASSOCIATES
HOUSE NO 7 V & PO DUDWINDI,
DISTT KAPURTHALA (PUNJAB),
DUDWINDI
- 316 086247 Mr. MARWAHA RAMAN
MARWAHA RAMAN & ASSOCIATES
MOHAN NIWAS,
39 BROWN ROAD,
LUDHIANA
- 317 086254 Mr. MATHUR RAJINDER BAHADUR
91-B POCKET A, D.D.A. FLATS
SUKHDEV VIHAR,
NEW DELHI 110025
- 318 086260 Mr. GUPTA BHAGWAN DAS
3618/XI/1, N S MARG
DARYAGANJ,
NEW DELHI 110002
- 319 086268 Mr. GOGIA SATISH
SATISH GOGIA & ASSOCIATES
133, SATYA NIKETAN,
MOTI BAGH - II,
NEW DELHI 110021
- 320 086277 Mr. WAHI ANIL
15 COMMUNITY CENTRE
EAST OF KAILSH,
NEW DELHI 110001
- 321 086330 Mr. AGGARWAL MUKESH KUMAR
C-61 PHASE - I
ASHOK VIHAR,
DELHI
- 322 086345 Mr. AILAWADI RAJEEV
RAJEEV AILAWADI & CO
M-8/23 DLF QUTAB ENCLAVE,
PHASE-II,
GURGAON 122002
- 323 086369 Mr. AZAD SANJAY
P.O. BOX- 1408
FRANCISTOWN,
BOTSWANA
BOTSWANA
- 324 086374 Mr. SRINATH S
S SRINATH & ASSOCIATES
D-201, YAMUNA APARTMENTS,
ALAKNANDA KALKAJI,
NEW DELHI 110019
- 325 086383 Mr. MANGAL AJAY
A-22, ANAND VIHAR
DELHI 110092
- 326 086400 Mr. VYAS YOGESH
GULATI VYAS & ASSOCIATES,
FLAT NO 47,
POCKET -A-1,
SECTOR-7 ROHINI, DELHI 110085
- 327 086413 Mr. TANDON RAJIV KUMAR
10-A/17, SHAKTI NAGAR
DELHI 110007
- 328 086454 Mr. UPADHYAY SHRI KANT
R-52 IIIRD FLOOR
VIKAS MARG,
SHAKARPUR,
DELHI 110092
- 329 086457 Mr. GUPTA NEERAJ KUMAR
740 SECTOR 15A
FARIDABAD
- 330 086500 Mr. GUPTA NAGESH KUMAR
NAGESH GUPTA & CO
KALANDARI GATE,
G T ROAD,
KARNAL 132001
- 331 086503 Mr. SHARMA ARUN
C/O PRICEWATERHOUSE COOPERS
P.O. BOX NO. 294,
GABORONE,
BOTSWANA

- 332 086577 Mr. KAUSHAL ARUN KUMAR
304-C DDA FLATS
MAYUR VIHAR PHASE II,
DELHI 110091
- 333 086581 Mr. MADAN PANKAJ
D-64, FIRST FLOOR
MAIN VIKAS MARG,
SHAKERPUR,
DELHI 110091
- 334 086605 Mr. VIRMANI DEEPAK
DEEPAK VIRMANI & CO
C-11 CHIRAGH ENCLAVE,
NEW DELHI 110048
- 335 086703 Mr. MANOHAR KUMAR
J-140 SARITA VIHAR
NEW DELHI 110044
- 336 086757 Mr. GUPTA VIJAY
C/O FLOUR TECH ENGINEERS
16/5 MATHRA ROAD,
FARIDABAD 121002
- 337 086778 Mr. GUPTA RAKESH KUMAR
RAKESH HANS RAJ GUPTA & CO.
113, BHAGYALAXMI APARTMENTS,
PLOT NO. 24/3, SECTOR IX, ROHINI,
DELHI 110085
- 338 086783 Mr. AGGARWAL RAVI KUMAR
RAVI SHUBH & ASSOCIATES
J-6 NEW GOBIND PURA EXTN,
ANARKALI ROAD,
DELHI 110051
- 339 086870 Mr. SHARMA ANAND MURTI
SPECIAL PROJECTS MANAGER
HSBC BANK MIDDLE EAST,
P.O. BOX 66,
DUBAI
U.A.E.
- 340 086907 Mr. KAPUR RAJIV
3017, RANJEET NAGAR
NEAR SOUTH PATEL NAGAR,
NEW DELHI 110008
- 341 086909 Mr. SIKKA RAKESH
RAKESH SIKKA & ASSOCIATES
C-2D/10C JANAK PURI,
NEW DELHI 110058
- 342 086922 Mr. AGARWAL MANOJ KUMAR
MANOJ K. AGARWAL & ASSOCIATES
B-28, SUBHASH CHOWK,
LAXMI NAGAR,
DELHI 110092
- 343 086959 Mr. GARG ANAND SWAROOP
SHARMA GARG & BANSAL
CH.NO.225, D-288 WADHWA COMPLEX,
STREET NO. 10, LAXMI NAGAR,
DELHI.110092
- 344 087018 Mr. SARIN RAJU
E-2/2 JHANDEWALAN EXTENSION
NEW DELHI 110055
- 345 087049 Mr. JAIN SANJAY
19 JAIN BHAWAN
12 BHAGAT SINGH MARG,
NEW DELHI 110001
- 346 087051 Mr. GOGIA SUBHASH CHAND
2137, GALI NO. 59 (IIRD FLOOR)
NAIWALA, KAROL BAGAH,
NEW DELHI 110005
- 347 087058 Ms. GUPTA PRAVEEN
B-40,, MANU APARTMENT
IIRD FLOOR,
MAYUR VIHAR PHASE-I,
DELHI 110091
- 348 087088 Mr. NARESH KUMAR
NARESH DHAMLIJA & CO
102 PALCO HOUSE 2162/T-10,
GURU ARJUN NAGAR WEST PATEL NAGAR,
NEW DELHI 110008
- 349 087160 Mr. SOOD RAJIV KUMAR
SOOD CHAWLA & ASSOCIATES
G-55 ROYAL PLACE,
VIKAS MARG LAXMI NAGAR,
DELHI 110092
- 350 087170 Mr. KARM VEER KALYAN DEV
FLAT NO. 23C
NEEL KANTH APARTMENTS,
46, I.P. EXTENSION,
DELHI 110092
- 351 087183 Ms. SINGH TANYA A
ADVEST MARKETING SERVICES.PVT LTD
C-2 GREEN PARK EXTN,
NEW DELHI 110016
- 352 087212 Mr. KHERA ARUN
B-32, KIRTI NAGAR
NEW DELHI 110015
- 353 087214 Mr. HARMILAPI MUKUL
73 STATE BANK COLONY
G T.ROAD,
DELHI 110033
- 354 087226 Ms. KAPOOR REENA
GENERAL MANAGER-COMMERCIAL
WHIRLPOOL OF INDIA LTD,
A-8, VAITALIK,
QUTAB INSTITUTIONAL AREA,NEW DELHI
110067

- 355 087274 Mr. GIOTRA RAJESH
C/O NAVRANG SAREE HOUSE
MAIN BAZAR PATHANKOT,
DISTT. GURDASPUR (PUNJAB),
PATHANKOT 145001
- 356 087277 Mr. REWARI SANJAY
C-109 PUSHPANJALI ENCLAVE
PITAMPURA,
DELHI 110034
- 357 087315 Mr. AGGARWAL SUNIL KUMAR
SUNIL K AGGARWAL & CO
1213/5 IIND FLOOR PEAREYLAL,
ROAD NAIWALA KAROL BAGH,
NEW DELHI 110005
- 358 087316 Mr. JAIN SANDESH KUMAR
111, JEEVAN VILLA
DARYA GANJ,
NEW DELHI 110002
- 359 087376 Mr. NARULA RAJAT
RAJAT NARULA & ASSOCIATES
96 KALI JANNI,
JAMMU TAWI 180001
- 360 087379 Mr. JAIN KAMAL KUMAR
9A, VIKAS COMPLEX (BASEMENT)
36, V S BLOCK, VIKAS MARG,
SHAKARPUR,
DELHI 110092
- 361 087413 Mr. KAMATH UDAYA KUMAR
M/S U K KAMATH & ASSOCIATES
FLAT NO M-1 MAZZININE FLOOR,
6 COMMUNITY CENTRE NARAINA,
NEW DELHI 110028
- 362 087436 Mr. KARWA RAMESH KUMAR
R K KARWA & ASSOCIATES
D- 266, PITAMPURA,,
DELHI 110034
- 363 087457 Mr. LAROIA SANJEEV
BHALLA & LAROIA
504 SAVITRI CINEMA COMPLEX,
GREATER KAILASH-II,
NEW DELHI 110048
- 364 087473 Mr. ABBOTT SANDEEP
11104 DORIWALAN
KAROL BAGH,
NEW DELHI 110005
- 365 087511 Ms. KAVALEKAR RAJESHWARI
GEIOC
AIFACS BUILDING,
1 RAFI MARG,
NEW DELHI 110001
- 366 087515 Mr. KASHMIR LAL
HOUSE NO.30 SHIVALIK APARTMENTS
PLOT NO.105,
INDRAPRASTHA EXTENSION,
DELHI 110092
- 367 087558 Mr. RAJNISH BAHL
DADOO & ASSOCIATES
D - 65 PREET VIHAR,
DELHI 110092
- 368 087570 Mr. BHATIA ANISH
ANISH BHATIA AND ASSOCIATES
4/57 ROOP NAGAR,
DELHI 110007
- 369 087582 Mr. AGARWAL DEVESH KUMAR
C-51 SUCHNA APPTT.
VASUNDHARA ENCLAVES,
DELHI 110096
- 370 087585 Mr. GUPTA ATUL
ATUL GUPTA & CO
2365 SECTOR-38-C,
CHANDIGARH 160036
- 371 087586 Mr. DINESH KUMAR
303-A,SASCO BHAWAN
AZADPUR COMMERCIAL COMPLEX,
DELHI 110006
- 372 087600 Mr. CHOWDHURY RAVNEET SINGH
RAVNEET CHOWDHURY & ASSOCIATES
C-32 DEFENCE COLONY,
NEW DELHI 110024
- 373 087621 Mr. RAY SANJIV
ASSTT VICE PRESIDENT-FINANCE
ESCORTS FINANCE LTD,
N-6 PRATAP BUILDING,
CANNAUGHT CIRCUS,NEW DELHI 110001
- 374 087625 Ms. SINGH HARLEEN NIRMAL
575,TORLAND COURT
SUNNYVALE,
CA 94087,
U S A
- 375 087688 Mr. GUPTA AJAY KUMAR
AJAY RAJ GUPTA & CO
104 SHREE GANESH COMPLEX,
E-35 JWAHAR PARK,
LAXMI NAGAR,DELHI 110092
- 376 087750 Mr. SUSHIL KUMAR
A-2/37A, KESHAV PURAM
DELHI 110035
- 377 087755 Ms. BALASUBRAMANIAM UMA
POLYMER LAND INDIA
PLOT NO 405-B SECTOR 20,
UDYOG VIHAR PHASE-III,
GURGAON 122016

- 378 087813 Mr. BEDI GAGANDEEP SINGH
FINANCE & ACCOUNTING MANAGER
PHILIPS MIDDEN OOSTEN B.V. (PHILIPS
EAST), P O BOX 7785, DUBAI,
U A E
U A E
- 379 087864 Mr. VIJAY SINGH
A-96/101
IST FLDOR,
MAIN ROAD, GOUP IND. AREA,
WAZIRPUR, DELHI 110052
- 380 087894 Ms. VERMA SHELLY
WZ-1247 A/4 NANGAL RAYA
OPP JANAKPURI D-BLOCK,
NEW DELHI 110046
- 381 087919 Ms. SHARMA SUJATA RANI
D-650
SARASWATI VIHAR,
DELHI 110034
- 382 087960 Mr. SEHGAL RAJESH
SEHGAL RAJESH ASSOCIATES
16-C/C GANDHI NAGAR,
(OPP AQUAF COMMERCIAL COMPLEX),
JAMMU TAWI 180004
- 383 088005 Mr. PARTI VIVEK
A-166 (SF)
DEFENCE COLONY,
NEW DELHI 110024
- 384 088036 Mr. GARG MUKESH KUMAR
MUKESH GARG & ASSOCIATES
2/6095 STREET NO 1,
DEV NAGAR KAROL BAGH,
NEW DELHI 110005
- 385 088038 Mr. TOYE RAJIV LAXMAN
B-257 GREATER KAILASH I
NEW DELHI 110048
- 386 088047 Mr. YOGENDER MEHTA
25, CH. DEVI LAL MARKET,
G T ROAD,,
FATEHABAD 125050
- 387 088062 Mr. RAJ KUMAR
RAJ KUMAR JINDAL & CO
LAL BAZAR,
MALERKOTLA 148023
- 388 088074 Ms. MITTAL ARCHANA
12 MUNIRKA MARG
VASANT VIHAR,
NEW DELHI 110057
- 389 088201 Mr. NAGPAL RAMESH KUMAR
23-D PLOT NO 108
SANCHAR LOK GROUP HOUSING SOCIETY,
I P EXTN PATPARGANJ, DELHI 110092
- 390 088225 Mr. BAKHRU VINESH KUMAR
VINESH BAKHRU & CO
51-A DDA FLATS MASJID MOTH,
PHASE-I,
NEW DELHI 110048
- 391 088296 Mr. BAHL RAVI KANT
ONE/43 NIRMAL PURI OLD DOUBLE STOREY
LAJPAT NAGAR-IV,
NEW DELHI 110024
- 392 088302 Mr. LAMBA SANJAY
D-27 IST FLOOR
SARITA VIHAR,
NEW DELHI 110044
- 393 088322 Mr. DIXIT SANDEEP
CAP GEMINI ERNST & YOUNG US LLC
2 COMMERCE SQ,
2001 MARKET ST,
PHILADELPHIA 19103-7096 USA
- 394 088336 Mr. RAJENDRA KUMAR
FLAT NO 156 B
POCKET-IV,
MAYUR VIHAR,
PHASE-I, DELHI 110091
- 395 088339 Mr. JAIN KAMLESH KUMAR
KAMLESH JAIN & CO
139-D POCKET-B,
MAYUR VIHAR PHASE-II,
DELHI 110091
- 396 088350 Ms. GUPTA MANJU
28/21 IIND FLOOR
OLD RAJINDER NAGAR,
NEW DELHI 110060
- 397 088427 Mr. SALUJA AKSHAY
A-3/16C D D A FLATS
GREEN APARTMENTS,
PASCHIM VIHAR,
NEW DELHI 110063
- 398 088459 Mr. BHANDARI NEERAJ
NEERAJ BHANDARI & CO
B-88, ASHOK VIHAR,
PHASE - I,
DELHI 110052
- 399 088465 Mr. SHARMA ASHWANI
PRAVEEN & SHARMA ASSOCIATES
110 GUPTA APPARTMENTS,
K-138 KALKAJI,
NEW DELHI 110019
- 400 088474 Mr. BANSAL SANJEEV KUMAR
C/O VINOD HEMCHAND & ASSOCIATES
1574/30,
NAIWALA KAROL BAGH,
NEW DELHI 110005

- 401 088523 Mr. TANDON SANJAY
155, WEST, 68TH STREET
APT # 612,
NEW YORK 10023 U.S.A.
- 402 088537 Mr. GUPTA VINAY PRAKASH
3575 LEHIGH DRIVE
UNIT NO -24,
SANTA CLARA,
CALIFORNIA 95051 USA
- 403 088556 Mr. RAJENDRA PRASAD
RAJENDRA PRASAD AGARWAL & CO
MIG FLAT NO. 84 POCKET B-5,
SECTOR-8 ROHINI,
DELHI 110085
- 404 088648 Mr. SEHGAL RAJ KUMAR
R K SEHGAL & ASSOCIATES
7-V-BEGUM ZAIDI MARKET,
MOTI BAGH I,
NEW DELHI 110021
- 405 088655 Mr. CHATURVEDI ASHUTOSH B
A-37 MANSAROVER PARK SHAHDARA
DELHI 110032
- 406 088660 Mr. GOYAL MURARI LAL
2 A DEEPA APARTMENTS
10 I.P EXTN,
DELHI 110092
- 407 088666 Mr. SHARMA RAKESH KUMAR
D 650 SARASWATI VIHAR
DELHI 110034
- 408 088734 Mr. SURI SUNIL KUMAR
S K SURI & ASSOCIATES
H.NO 159 SECTOR -70,
S.A.S NAGAR,
DISTT. ROPAR (PB), MOHALI 160059
- 409 088757 Mr. PARMINDER SINGH
1558 SECTOR - 70
MOHALI
- 410 088813 Mr. TALWAR VINAY
E-4, BALI NAGAR, IIND FLOOR
NEW DELHI 110015
- 411 088820 Mr. MALHOTRA AJAY
6222 SECTOR -C
POCKET - 6 & 7,
VASANT KUNJ,
NEW DELHI 110070
- 412 088834 Mr. MALIK SANJAY
SANJAY MALIK & CO
M. KIRTI NAGAR,
NEW DELHI 110015
- 413 088853 Mr. NARAIN LAXMI
H5-524 1ST FLOOR,
SCHOOL BLOCK SHAKARPUR,
DELHI 110092
- 414 088881 Mr. VISHAV JYOTI
VISHAV JYOTI MAHAJAN & CO
715-C SECTOR 39,
SAMRALA ROAD,
LUDHIANA
- 415 088892 Ms. MOHINDER KAUR
K-14 FATEH NAGAR
NEW DELHI 110018
- 416 088925 Mr. AGGARWAL PIYUSH
PIYUSH AGGARWAL & ASSOCIATES
HOUSE NO 3437,
SECTOR 40-D,
CHANDIGARH 160014
- 417 088936 Mr. GUPTA RAJESH
C-297, SARITA VIHAR
NEW DELHI 110044
- 418 088939 Mr. PARDUMAN KUMAR
IIND FLOOR JAI SINGH COMPLEX
595 MODEL TOWN,
(PB),
LUDHIANA 141 002
- 419 088969 Mr. PREM SINGH
11, VIVEKANAND PURI
DELHI 110007
- 420 089008 Mr. KHANNA ANIL KUMAR
A-118 VIVEK VIHAR
DELHI 110095
- 421 089043 Mr. KANODIA ANIL KUMAR
E-89 DDA FLATS
NEAR PRESS ENCLAVE,
SAKET,
NEW DELHI 110017
- 422 089091 Mr. SYAL SANJAY
C-2/9B LAWARANCE ROAD
DELHI 110035
- 423 089112 Mr. CHAWLA HARISH
HARISH CHAWLA & ASSOCIATES
NO.1, SAINIK VIHAR,
DELHI 110034
- 424 089134 Mr. VERMA ANU
305E 3081 GLEN DRIVE
COQUITLAM (VANCOUVER),
B C CANADA,
CANADA V3B 2P8 CANADA
- 425 089136 Mr. SAXENA ANIL
A-27/B-6, LANE NO. 2 KRISHNA MARKET
MADHU VIHAR,
PATPARGANJ, DELHI 110092

- 426 089144 Mr. ANOOP KUMAR
KUMAR ANOOP & CO
B-112/2 EAST OF KAILASH,
NEW DELHI 110065
- 427 089204 Mr. VIJAY KUMAR
26, 1ST FLOOR
NEHRU SIDHANT KENDRA,
FIROZE GANDHI MARKET,
LUDHIANA
- 428 089217 Ms. SHARMA RITU
C/O V D SHARMA
P O BOX 74,
SAFAT 13001,
KUWAIT
KUWAIT
- 429 089224 Mr. BHUPENDAR KUMAR
BHUPENDAR ARORA & ASSOCIATES
WZ-439 M S BLOCK,
HARI NAGAR,
NEW DELHI 110064
- 430 089227 Mr. BHATIA RAVINDER PAUL
RAVINDER BHATIA & ASSOCIATES
329-B POCKET-II,
MAYUR VIHAR PHASE-I,
DELHI 110091
- 431 089325 Mr. AGARWAL ANUJ
55-A ARJUN NAGAR
SAFDARJUNG ENCLAVE,
NEW DELHI 110029
- 432 089368 Mr. GUPTA ALOK
CHIEF ACCOUNTANT
ALNIMR STEEL TRADING CLC,
P.O. BOX 6169,
SHARJAH
U.A.E.
- 433 089422 Mr. BHAGOLI WAL SANJAY
134 NEW SURYA KIRAN APARTMENTS
65 I P EXTENSION,
DELHI 110092
- 434 089437 Mr. OBEROI VIKRAM KUMAR
A-332 DEFENCE COLONY
NEW DELHI 110024
- 435 089449 Mr. JAIN RAJEEV
1147, SECTOR 16,
FARIDABAD 121002
- 436 089571 Mr. SANJEEV BHATIA
SANJEEV BHATIA & CO
H-176 ASHOK VIHAR,
PHASE I,
DELHI 110052
- 437 089581 Mr. BHAT SUSHEEL KUMAR
79 MUNIR MANZIL
REGAL CHOWK,
(J&K),
SRINAGAR
- 438 089594 Mr. BANSAL ASHOK
SHOP NO 15 MANGAL MARKET
CHARKHI DADRI,
(HARYANA),
BHIWANI 127306
- 439 089595 Mr. THUKRAL SUNIL
M/S SUNIL THAKRUL & CO
45, ANUPAM APARTMENT,
M.B. ROAD,
NEW DELHI 110030
- 440 089598 Mr. SOOD KAMAL KISHORE
E-182 SARITA VIHAR
NEW DELHI 110044
- 441 089637 Mr. SHARMA VARUNA DEVA
ERNST & YOUNG
P O BOX 74,
SAFAT 13001,
KUWAIT
KUWAIT
- 442 089642 Mr. MATHUR RAJIV
C/O MR SHIVAJI
B4/74 PHASE-II,
ASHOK VIHAR,
DELHI 110052
- 443 089666 Ms. PRUTHI VIMMI
M/S VIMMI ARORA & ASSOCIATES
338, POCKET-C, SHEIKH SARAI,
PHASE -I,
NEW DELHI 110017
- 444 089741 Mr. ANEJA VIJAY
VIJAY ANEJA & ASSOCIATES
2467 RAJPURA TOWN,
DISTT PATIALA (PUNJAB),
RAJPURA TOWN 140401
- 445 089744 Mr. KHANNA RAKESH
1ST FLOOR 461 & 462
S C O SECTOR 35-C,
CHANDIGARH 160022
- 446 089817 Mr. ARORA RAVINDER SINGH
C4C-14-120,
JANAK PURI,,
NEW DELHI 110058
- 447 089845 Mr. SHARMA ANUPAM
ANUPAM SHARMA & ASSOCIATES
4837 GURU ARJUN DEV NAGAR,
P O KHALSA COLLEGE,
AMRITSAR 143001

- 448 089887 Mr. GOEL NITIN K
40 INDUSTRIAL AREA-I
CHANDIGARH 160002
- 449 089903 Mr. MADHU SUDAN
M SUDAN & ASSOCIATES
UPPAL VILLA,
744-A, MAHAVIR COLONY,
YAMUNANAGAR 135001
- 450 089920 Mr. JAIN PANKAJ
E-21/33 SECTOR - III
ROHINI,
DELHI 110085
- 451 089979 Mr. FAZILI MUNEEB OMAR
FAYSAL ISLAMIC BANK OF BAHRAIN
P O BOX 3005,
MANAMA,
BAHRAIN
BAHRAIN
- 452 090080 Mr. MEHTA VISHAL
VISHAL MEHTA & ASSOCIATES
A-367, DEFENCE COLONY,
NEW DELHI 110024
- 453 090121 Mr. MITTAL PANKAJ
PANKAJ MITTAL & ASSOCIATES
25 HIG HOUSING BOARD COLONY,
KALKA 133302
- 454 090177 Mr. SHARMA RAKESH
61-C, PARK CLUB LN
WILLIAM SUICCE,
NEW YORK 14221 U.S.A.
- 455 090182 Mr. RISHI PRAKASH
RISHI PRAKASH & CO.
A-10, GUJARAT APPTTS.,
PARVANA ROAD PITAMPURA,
DELHI 110034
- 456 090212 Mr. SDOTA RAHUL
B-429, MEERA BAGH
NEW DELHI 110063
- 457 090260 Ms. KAUR GURVINDER
3F/44 NIT
FARIDABAD
- 458 090294 Mr. GANDHI AJIT
413 SUNEHARI BAGH APARTMENTS
SECTOR-13 PLOT NO-15,
ROHINI,
DELHI 110085
- 459 090303 Ms. MATHUR ABHA
A MATHUR & CO.
JD-7A CRYSTAL APARTMENTS,
PITAMPURA,
DELHI 110034
- 460 090338 Mr. SEN DIBYENDU
R-207, GREATER KAILASH-I
NEW DELHI 110048
- 461 090340 Mr. KHARBANDA ARUN
JP - 115 MAURYA ENCLAVE
PITAM PURA,
DELHI 110034
- 462 090346 Ms. WAHI SIMREN
1106, SECTOR-A
POCKET-B, VASANT KUNJ,
NEW DELHI 110070
- 463 090353 Mr. SUNIL KUMAR
SUNIL KUMAR SHARMA & CO
C/O LALSON INDUSTRIES 10-S SWARN VIHAR,
SWARG DHAM MARG NEAR AGGARSEN HOS-
PITAL,
PATIALA 147001
- 464 090371 Mr. PARANJPE DHANANJAY M
FF-47, LAXMI NAGAR
DELHI 110092
- 465 090374 Mr. KASLIWAL ANUJ
144-A, POCKET C
MAYUR VIHAR-II,
DELHI 110091
- 466 090395 Mr. SHARMA AJAY
B-1/464, JANAK PURI
NEW DELHI 110058
- 467 090455 Mr. CHOWDHURY ASHISH KUMAR
S-1/241 SADIQ NAGAR
NEW DELHI 110049
- 468 090500 Mr. SANJEEV KUMAR
2250, LATOOR PURA
ARNA BARNA,,
PATIALA 147001
- 469 090540 Mr. RAGHVAN S MURALI
P.O. BOX 27242
17TH FLOOR, ALMOOSA TOWER-II
SHIEKH ZAYED ROAD,
DUBAI
U.A.E.
- 470 090642 Mr. AGGARWAL VISHAL
P.O. BOX 50574
DUBAI
U.A.E.
- 471 090651 Mr. NANDA SANDEEP
S C O 2A 2ND FLOOR
SECTOR 7 MADHYA MARG,
CHANDIGARH 160019
- 472 090680 Mr. CHANDER MOHAN
S.C.O. 32, SHANKAR MARKET
SETHI PALACE ROAD,
ABOHAR 152116

- 473 090689 Mr. AGGARWAL ANUJ
N.K.244, CHARANJIT PURA
JALANDHAR CITY,
JALANOHAR 144005
- 474 090725 Mr. MEHRU RAJESH KUMAR
RAJESH MEHRU & CO
99 IIND FLOOR FOUNTAIN PLAZA,
CEMENTRY ROAD,
LUDHIANA 141001
- 475 090738 Ms. MANJU LATA
B-264 1ST FLOOR
NEAR PUNJAB & SIND BANK,
NEHRU GROUND N I T,
FARIDABAD 121001
- 476 090744 Mr. AGGARWAL LALIT
E-81 IIND FLOOR
GREATER KAILASH-I,
NEW DELHI 110048
- 477 090753 Mr. RAMESH KUMAR
6/69 W.E.A.
KAROL BAGH,
NEW DELHI 110005
- 478 090833 Mr. HIMANSHU MITTAL
HOUSE NO. 3398
SECTOR-D, POCKET-3,
VASANT KUNJ,
NEW DELHI 110070
- 479 090865 Mr. RAJESH KUMAR
PARAKH STREET
BHADRA BAZAR,
SIRSA 125055
- 480 090942 Mr. RAJPUT ADESH KUMAR
C/O K.S. CHAUHAN,
RZ 46A/15A, GALI NO. 2.,
WEST SAGARPUR (MAIN),
NEW DELHI 110046
- 481 090974 Mr. BHAGI SURINDER MOHAN
H NO 8253 MULTANI BUILDING
ROSHAN ARA ROAD,
DELHI 110007
- 482 090994 Mr. RAJ KUMAR CHAUHAN
H NO 3823
A/7 KANHAIYA NAGAR (TRI NAGAR),
DELHI 110035
- 483 090997 Mr. SETHI PANKAJ
34/16 WEST PATEL NAGAR
NEW DELHI 110008
- 484 091008 Mr. PARWANI HEMANSHU
HEMANSHU PARWANI & CO
42/1 EAST PATEL NAGAR,
NEW DELHI 110008
- 485 091012 Mr. DATTA NEERAJ
H NO C-9008
VASANT KUNJ,
NEW DELHI 110070
- 486 091043 Mr. NARANG RAJINDER
R K NARANG & ASSOCIATES
THANA ROAD,
FATEHABAD 125050
- 487 091060 Mr. SHARMA SUDHIR KUMAR
C/O VIJAY SHARMA
306 MASJID MOTH,
N D S E -II,
NEW DELHI 110049
- 488 091131 Mr. CHHABRA ANUJ
216 MODERN APARTMENTS
SECTOR -XV,
ROHINI,
DELHI 110085
- 489 091153 Mr. DEVENDRA KUMAR
IIND FLOOR, 31-C, MOHAMMEDPUR
BHIKAJI CAMA PLACE,
NEW DELHI 110066
- 490 091167 Mr. MEHTA KULDEEP
347-348 2ND FLOOR
12TH STREET, JOSHI ROAD,
KAROL BAGH,
NEW DELHI 110005
- 491 091173 Mr. VIJAY KUMAR
H.NO 157 SECTOR-17
PANCHKULA 134109
- 492 091209 Ms. KAUR DALJIT
DALJIT & ASSOCIATES
K NO 582 PHASE-VII,
MOHALI (NEAR CHANOIGARH),
MOHALI 160061
- 493 091230 Mr. JAIN ARUN KUMAR
MIG FLAT NO 117 C PKT 'C'
PHASE-II JHILMIL,
SHIVAM ENCLAVE,
DELHI 110032
- 494 091238 Mr. GARG KAMAL
B-2 INDRAPRASTHA TOWER
WAZIRPUR COMMERCIAL COMPLEX,
DELHI 110052
- 495 091306 Mr. GANESH IYER V
95 SUNIL PARK
FEROZEPUR ROAD,
OPP. RAJGURU NAGAR,
LUDHIANA

- 496 091363 Mr. BAHL SANJAY
MANAGER CORPORATE & INSTITUTIONAL
THE BRITISH BANK OF THE MIDDLE EAST,
P O BOX 57,
BAHRAIN
BAHRAIN
- 497 091403 Mr. VASHISTH VIPIN
A-198, DEEPALI,
PITAM PURA,
DELHI 110034
- 498 091436 Mr. KATHURIA VARUN
KHERA NIWAS
BEHIND S B I,
DELHI ROAD,
HISAR 125001
- 499 091475 Mr. KAPOOR SHALABH
H.NO 2427, CHIPPIWARA KALAN
DELHI 110006
- 500 091499 Mr. SHARMA VINEET KUMAR
VINEET SHARMA & CO
308 PRAKASH MOHALLA,
EAST OF KAILASH,
NEW DELHI 110065
- 501 091604 Ms. JAIN REENA
1178 D-1 VASANT KUNJ
NEW DELHI 110070
- 502 091694 Ms. SAGGAR DOLLY
RZF - 903/6 RAJ NAGAR PART-II
NEXT TO CHURCH,
PALAM COLONY,
NEW DELHI 110045
- 503 091700 Ms. NIRJABHATIA
109 - F
MAYUR VIHAR PHASE - I,
PKT IV,
DELHI 110091
- 504 091739 Mr. GUPTA LAXMI KANT
B-65 GUPTA COMPLEX
MAIN MARKET,
SHAKARPUR,
DELHI 110092
- 505 091795 Mr. AGGARWAL MANISH KUMAR
MANAGER-INTERNAL AUDIT
CALTEX LUBRICANTS INDIA LTD,
F-47, N.D.S.E. PART-I,
NEW DELHI 110049
- 506 091822 Mr. PANKAJ KUMAR
13-B, 2ND FLOOR
NETAJI SUBHASH MARG,
DARYA GANJ,
NEW DELHI 110002
- 507 091843 Mr. RABINDRA KUMAR
B-8 SUBJI MANDI ROAD
MOLARBAND EXTN.,
P.O. BADARPUR,
NEW DELHI 110044
- 508 091859 Mr. GUPTA SANJAY
2782, GALI ARYA SAMAJ,
BAZAR SITA RAM,,
DELHI 110006
- 509 091895 Mr. SETH JAGMOHAN SINGH
94-A, SHIVAJI MARG,
NEAR SBI THE MALL,
AMBALA CANTT,
AMBALA
- 510 091972 Mr. RAKESH KUMAR
SHOP NO 4 NEAR M.C.
DISTT. FARIDABAD,
PALWAL 121102
- 511 091975 Mr. PAHUJA DINESH
DINESH PAHUJA & CO
15/9 NEW COLONY MORE,
GURGAON 122001
- 512 092032 Mr. GARG NARINDER KUMAR
NARINDER GARG & CO
B 1-222 RAM NAGAR,
INDRA BASTI,
DISTT SANGRUR (PUNJAB), SUNAM 148028
- 513 092035 Mr. SURINDER CHAWLA
554/8 FIELD GANJ
(PUNJAB),
LUDHIANA 141008
- 514 092052 Mr. WALIA SAMEER
ACCENTURE
6TH FLOOR, DLF CENTER,
SANSAD MARG,
NEW DELHI 110001
- 515 092293 Mr. GUPTA CHANDRA SHEKHER
C-9/160 YAMUNA VIHAR
DELHI 11053
- 516 092336 Mr. SAXENA AKHILESH
A-137 DDA COLONY
NEW RANJEET NAGAR,
NEW DELHI 110008
- 517 092369 Mr. AZARIAH AJIT EMMANUEL
FINANCE MANAGER
MOTOROLA INC,
1500. W. DUNDEE,
ARLINGTON, HTS IL 60004, U.S.A. II 60004
- 518 092370 Mr. SAT PAL
H.NO 3042 SECTOR 38 -D
PUNJAB,
CHANDIGARH 160017

- 519 092378 Mr. SHARDA DAVINDER KUMAR
D K SHARDA & ASSOCIATES
INDIRA COLONY UNA ROAD,
V & PO GAGRET DISTT UNA (H.P.),
GAGRET 176209.
- 520 092426 Mr. BIJUR DARSHAN SHARAD
KPMG UK LTD
8, SALISBURY SQUARE,
LONDON EC4 Y8B UK
- 521 092464 Mr. GROVER RAMAN
67, BACHITTAR NAGAR
PATIALA 147001
PATIALA 147001
- 522 092465 Mr. MANDAL ROHIT
D-62 MALCHA MARG
CHANAKYAPURI,
NEW DELHI 110021.
- 523 092517 Mr. DADOO DIWAKAR
C-13, MANSAROVAR GARDEN
NEW DELHI 110015
- 524 092566 Mr. GOGIA SARABJIT SINGH
HOUSE NO 952
SECTOR 41-A,
CHANDIGARH 160036
- 525 092580 Mr. SINGHAL PRAKHAR
D-213,
PRASHANT VIHAR,
DELHI 110085
- 526 092602 Ms. SHARMA AARTI
B-4/97 PASCHIM VIHAR
NEW DELHI 110063
- 527 092623 Mr. SURINDER PAL SINGH
3058, SECTOR 37-D
CHANDIGARH.
- 528 092651 Mr. RAJ KUMAR
S/O SH-BAJRANG DASS (CLOTH MERCHANT)
NEAR PUNJAB NATIONAL BANK,
DISTT MANSA (PUNJAB),
BUDHLADA 151502
- 529 092751 Mr. SAXENA ALOK
B-161 SARITA VIHAR
NEW DELHI 110044
- 530 092762 Mr. THAKRAL NEERAJ
154 KADAMBARI APPTS.
SECTOR-9,
ROHINI,
DELHI 110085
- 531 092773 Mr. SHRIVASTAVA MUKUL
B-50 FRIENDS COLONY (WEST)
NEW DELHI 110065
- 532 092870 Ms. PARVATI KARAN
J -147
MARRIED DOCTORS HOSTEL,
PGI,
CHANDIGARH 160012
- 533 092898 Mr. KALA PRAMOD KUMAR
D-1, VIJAY CHOWK
LAXMI NAGAR,
DELHI 110092
- 534 092917 Mr. SINGH MANDEEP
MANDEEP SINGH & CO
4D NAVSENA APARTMENTS,
9 WEST ENCLAVE PITAMPURA,
DELHI 110034
- 535 092933 Mr. GUPTA RAJEEV
A-2/25 SHAKTI NAGAR EXTENSION
DELHI 110052
- 536 092946 Mr. SHARMA VINOD KUMAR
L-1/1A DDA FLATS
KALAKJI,
NEW DELHI 110019
- 537 092962 Mr. GUPTA SHALABH
ADARSH COLONY
SAMADHI COLONY,
KHANNA 141001
- 538 092981 Mr. AGGARWAL SANJAY
2743 2ND FLOOR
UNION BANK BUILDING,
CHOWK QUTAB ROAD,
DELHI 110006
- 539 093003 Mr. DHADWAL ROHIT
BAZAR BANSA
PHAGWARA 144401
- 540 093026 Mr. GOEL RAJESH
C/O MAM & ASSOCIATES
III RD FLOOR,
3-B, PUSA ROAD,
NEW DELHI 110005
- 541 093039 Ms. KOTAMRAJU UMASREE
QTR NO 531 SECTOR-V
R K PURAM,
NEW DELHI 110022.
- 542 093058 Mr. SETHI GAUTAM
V-6 GREEN PARK (MAIN)
NEW DELHI 110016
- 543 093101 Mr. AGGARWAL DHEERA
4/8 ASAF ALI ROAD
NEW DELHI 110002
- 544 093103 Mr. GULATI RAJESH KUMAR
653 MODEL COLONY
MOHALLA KARTARPURA,
YAMUNANAGAR 135001

- 545 093109 Mr. DHIMAN RAKESH
2766 TIMBER MARKET
AMBALA CANTT,
AMBALA 133001
- 546 093142 Mr. SINGH MAHENDER
DINKAR MARLA & CO
B-7 EXTN/101, FIRST FLOOR,
SAFDARJANG ENCLAVE,
NEW DELHI 110029
- 547 093146 Mr. DHILLON DEVENDER JEET
452, SECTOR-7
PANCHKULA 134109
- 548 093160 Mr. SEHGAL SANJEEV
SANJEEV SEHGAL & ASSOCIATES
32 DESHBANDU APARTMENTS,
KALKAJI,
NEW DELHI 110019
- 549 093181 Mr. SHARMA GAVENDRA KUMAR
21D. OVERSEAS APARTMENT
VASUNDHARA ENCLAVE,
MAYUR VIHAR-III,
DELHI 110096
- 550 093185 Mr. MALHOTRA DEEPAK
D MALHOTRA & ASSOCIATES
F-66 ASHOK VIHAR-I,
DELHI 110052
- 551 093205 Mr. SARIN SANDEEP RAJ
R-683 NEW RAJENDRA NAGAR
NEW DELHI 110060
- 552 093223 Mr. GUPTA JEET DAS
NOKIA UK LTD
LANCASTER HOUSE,
HUNTINGDON,
HUNTINGDON
U.K.
- 553 093238 Mr. ARORA ROHIT
C-16, OXFORD APARTMENTS
PLOT NO. 11, PATPARGANJ,
DELHI 110092
- 554 093283 Mr. SINGHAL PRASHANT
C-360 DEFENCE COLONY
NEW DELHI 110024
- 555 093329 Ms. KAPASI SONAL
F-3 PRESS ENCLAVE
SAKET,
NEW DELHI 110017
- 556 093330 Mr. RAVISH KUMAR
FLAT NO. F-48, 1ST FLOOR
SUSHANT LOK-II,
SECTOR-57,,
HARYANA, GURGAON
- 557 093333 Mr. ARORA JAYANT
E-273 EAST OF KAILASH
NEW DELHI 110065
- 558 093342 Ms. RASTOGI RITU
WZ-1408
NAGAL RAYA,
NEW DELHI 110046
- 559 093343 Mr. SHRUTI KANT
WZ - 1408, NAGAL RAYA
NEW DELHI 110046
- 560 093367 Mr. VERMA LALIT KUMAR
21 SATNAM PARK
CHANDER NAGAR,
DELHI 110051
- 561 093398 Mr. SHARMA NEERAJ
B-P-137 (WEST)
SHALIMAR BAGH,
DELHI 110052
- 562 093429 Mr. MATHUR SARVESH
2049 SECTOR-D
POCKET-II,
VASANT KUNJ,
NEW DELHI 110070
- 563 093521 Mr. SOMANI ANIL KUMAR
898 SECTOR 29
FARIDABAD
- 564 093544 Ms. JAIN HEMA
M/S H JAIN & CO.
E - 161/162 AMAR COLONY
LAJPAT NAGAR - IV
NEW DELHI 110024
- 565 093546 Mr. MAHAJAN ASHISH
M/S ASHISH MAHAJAN & ASSOCIATES
C/O SH ASHWANI SHARMA,
H.NO - 1303A SECTOR - 29,
HARYANA, FARIDABAD
- 566 093589 Mr. GUPTA SHISHIR
SHISHIR GUPTA & ASSOCIATES
B-95 CHETAK APARTMENTS,
OPP BAGRODIA PUBLIC SCHOOL SECTOR 9
DELHI 110085
- 567 093619 Mr. S V KUMAR
C-202 UNESCO APARTMENTS
PLOT NO 55,
I.P EXTENSION,
DELHI 110092
- 568 093671 Ms. GUPTA PARUL
80, KRISTIN CIRCLE # 1
SCHAUMBURG,
SCHAUMBURG IL 60195 U.S.A.

- 569 093690 Ms. ANJU
H-11/6 MALVIYA NAGAR
NEW DELHI 110017
- 578 093724 Mr. SHARMA VIRENDRA KUMAR
5/212, 2ND FLOOR
LAITA PARK,
LAXMI NAGAR,
DELHI 110092
- 571 093740 Mr. KAPOOR SUDHIR
PRICE WATERHOUSE
PW CENTRE,
SAIDULAJAB,
M.B. ROAD, OPP. D BLOCK, SAKET, NEW DELHI
- 572 093768 Mr. SAXENA ANURAG
1451 RANI BAGH
NEW DELHI 110034
- 573 093776 Mr. AKHAREMKA SHIV DAYAL
A-82 GROUP INDUSTRIAL AREA
WAZIRPUR,
DELHI 110052
- 574 093801 Mr. PARMINDER SINGH
MS-99 HARI NAGAR
NEW DELHI 110064
- 575 093805 Mr. GARCHA RAJESH KUMAR
H NO-1284/10 STREET NO-5
GURU NANAK DEV NAGAR,
RAHON ROAD,
LUDHIANA 141007
- 576 093818 Mr. SIKRI BHARAT RAJ
AP-13 SHALIMAR BAGH
DELHI 110052
- 577 093873 Ms. JAIN PRATIBHA
1623 DARIBA KALAN
CHANDNI CHOWK,
DELHI 110006
- 578 093894 Ms. SUMAN LATA
RZ-263/1, DURGA OARK
DWARKA PROJECT,
P.O. PALAM,
NEW DELHI 110045
- 579 093899 Mr. GARG VIVEK
1010-A KIRTI SHIKHAR TOWER
DISTT CENTRE,
JANKPURI,
NEW DELHI 110058
- 580 093928 Mr. GUPTA NALIN KUMAR
Q-605 ANUPAM APPTT.
4 CBD,
EAST ARJUN NAGAR,
DELHI 110032
- 581 093935 Mr. SHARMA YATIN
75/7 TRIKUTA NAGAR
JAMMU TAWI
- 582 093938 Ms. RITU REKHA
D-93 SARITA VIHAR
NEW DELHI 110044
- 583 093939 Mr. GOMES RAHUL
APARTMENT 207
695 MARTIN GROVE ROAD,
ETOBICOKE,
TORONTO, ONTARIO M9R 3T6 CANADA
- 584 093998 Mr. GUPTA MUNISH
198-C, YAMUNA ENCLAVE
PANIPAT 126102
- 585 094016 Ms. SRINIVASAN SRIKRIPA
5/34 IIND FLOOR
OLD RAJINDER NAGAR,
NEW DELHI 110060
- 586 094024 Mr. SAXENA ASHOO
A-137 ODA FLATS
NEW RANJEET NAGAR,
NEW DELHI 110008
- 587 094055 Mr. KUKREJA RAJESH
C-19 GREATER KAILASH
ENCLAVE-I,
NEW DELHI 110048
- 588 094058 Mr. MADAN BHUVAN
A-103, ASHOK VIHAR PHASE 3
DELHI 110052
- 589 094083 Mr. JAIN VISHAL
MANAGER FINANCE
IBILT TECHNOLOGIES LIMITED,
THAPAR HOUSE,
124 JANPATH, NEW DELHI 110001
- 590 094112 Mr. DUA NAVEEN
BAIAJ MARKET
RAILWAY ROAD,
YAMUNA NAGAR,
JAGADHRI 135003
- 591 094128 Mr. HIRA LAL
302 KALE RAM CHAMBER - 2
EAST GURU ANGAND NAGAR,
LAXMI NAGAR,
DELHI 110092
- 592 094150 Mr. JHA ASHOK KUMAR
ABOVE SINGLA RADIO & CYCLE STORE
JAWAHERKEA ROAD,
MANSA MANDI,
(PUNJAB), MANSA 151505
- 593 094166 Mr. SHARMA SUDHIR KUMAR
POST BOX NO 10269
G P O, KATHMANDU, NEPAL

- 594 094177 Mr. PARDEEP KUMAR
LIFE BREWAERIES CO. LTD
PJORT HARCOURT ROAD,
STHA
NIJERIA
- 595 094236 Mr. GUPTA SAJAL
207/208 VAKIL CHAMBER
115 SHAKARPUR,
DELHI 110092
- 596 094261 Mr. MALIK JATINDER
8 1ST FLOOR NEW HIRA COMPLEX
NEAR DAILY AJIT,
N G ROAD,
JALANDHAR 144055
- 597 094355 Mr. KHURANA SANJEEV
A3/158, PASCHIM VIHAR
NEW DELHI 110063
- 598 094387 Mr. MD ALI SHAUKAT
119 (2ND FLOOR-LEFT)
LANE NO - 16,
ZAKIR NAGAR,
OKHLA, NEW DELHI 110025
- 599 094392 Mr. MADAN MOHAN
FLAT NO 87
POCKET G-5,
SECTOR-15,
ROHINI, DELHI 110085
- 600 094395 Mr. HANDA MOHIT
B-9/7 VASANT VIHAR
NEW DELHI 110057
- 601 094408 Mr. GAMBHIR SANDEEP
LUCENT TECHNOLOGIES HINDUSTAN LTD
16TH FLOOR, DLF SQUARE,
DLF CITY PHASE-2,
GURGAON 110063
- 602 094420 Mr. GUPTA VINAY KUMAR
A-2/6, (2ND FLOOR)
SAFDARJUNG ENCLAVE,
DPP. BHIKAJI CAMA PLACE,
AFRICA AVENUE, NEW DELHI 110029
- 603 094454 Mr. SETH ALOK
8A/19, W E A PUSA ROAD
NEW DELHI
- 604 094484 Ms. GANGWAR MANISHA
187-E 1ST FLOOR
JEEVAN NAGAR,
NEW DELHI 110014
- 605 094507 Mr. YOGESHWAR GOPAL
687-II FLOOR
GILL ROAD,
NEAR S B I, LUDHIANA 141003
- 606 094527 Mr. SHARMA MAHESH KUMAR
H NO 2056 A
SECTOR -3,
BALLABGARH,
FARIDABAD 121004
- 607 094547 Mr. BHATIA VAIBHAV
132-B A/D
SHALIMAR BAGH,
DELHI 110052
- 608 094557 Mr. BANSAL DINESH
M-72 SHASTRI NAGAR
DELHI 110031
- 609 094585 Mr. BHARDWAJ PANKAJ
ACCOUNTS OFFICER
HEINZ INDIA LIMITED,
THE GREAT EASTERN CENTRE,
70, NEHRU PLACE, NEW DELHI 110019
- 610 094620 Mr. YADAV APACHH KUMAR
POST BOX NO 10269
SUNDHARA,
KATHMANDU
NEPAL
- 611 094645 Mr. BHAGWAN LAL
210 WADHWA COMPLEX
D-289 STREET NO 10,
LAXMI NAGAR,
DELHI 110092
- 612 094656 Mr. SURI AMIT
1225 GEETA BHAWAN
KASHMERE GATE,
DELHI 110006
- 613 094661 Mr. UPPAL TARUN
B-131 PHASE -I
ASHOK VIHAR,
DELHI 110052
- 614 094683 Mr. KOHLI SANJAY
ABN AMRO BANK
P.O. BOX 2567,
DUBAI
U.A.E.
- 615 094699 Mr. JAIN DHEERAJ
SHAKUNTALA COMPLEX
FIRST FLOOR,
PALIKA BAZAR,
PANIPAT 132103
- 616 094716 Mr. PANT DHIRAJ KUMAR
302 SHRI GANESH COMPLEX
E-35 JAWAHAR PARK,
LAXMI NAGAR,
DELHI 110092
- 617 094736 Mr. SINGH RAVINDER PAL
140/3 INSAR BAZZAR PANIPAT 132103

- 618 094804 Mr. VIPIN KUMAR
446 SECTOR -15A
CHANDIGARH 160017
- 619 094806 Mr. GULATI VISHAL
227 RAM NAGAR
STREET NO-4,
DELHI 110051
- 620 094807 Mr. KRISHNAN RAGHUNATHAN
FLAT # 1. NDMC FLATS,
KAKA NAGAR RAM NAGAR,
NEW DELHI 110003
- 621 094808 Ms. MALHOTRA ARTI
234 SHEIKH SARAI
PHASE -I,
NEW DELHI 110017
- 622 094848 Mr. RAVINDER SINGH
IX/3648 DHARAMPURA
DELHI 110031
DELHI 110031
- 623 094877 Mr. THUKRAL SAURABH
J-37B ASHOK VIHAR
PHASE -I,
DELHI 110052
- 624 094901 Mr. BATRA MANEESH
III/B-18 LAJPAT NAGAR
NEW DELHI 110024
- 625 094924 Mr. JAIN TARUN
R-68 FIRST FLOOR
GREATER KAILASH I,
NEW DELHI 110048
- 626 094943 Mr. KHER SANDEEP
B-2-101A SAFDERJUNG ENCLAVE
NEW DELHI 110029
- 627 094961 Mr. GULATI SANJEEV
6/18 EAST PUNJABI BAGH
NEW DELHI 110026
- 628 094976 Ms. VANJANI MEENA
E-18/185 SECTOR -3
ROHINI,
DELHI 110085
- 629 094977 Mr. NAGPAL ASHUTOSH
813 NAI BASTI
OPP DESRAJ DIARY
BHATINDA 151005
- 630 095012 Mr. RAJESH KUMAR
C/O KRISHNA SEWING MACHINE WORKS
RAILWAY ROAD, ROHTAK 124001
- 631 095036 Mr. JAIN VAKUL VIMAL PRASAD
MEDLEY MARKETING PRIVATE LIMITED
52 OLD RAJINDER NAGAR MARKET,
3RD FLOOR, NEW DELHI 110060
- 632 095057 Ms. OHRI PRIYA
PRICE WATERHOUSE & CO
PW CENTRE,
MEHRAULI BADARPUR ROAD,
SAIDULAJAB OPP. D BLOCK SAKET,
NEW DELHI
- 633 095111 Mr. VINAY KUMAR
HUGHES ESCORTS COMMUNICATIONS LTD
2ND FLOOR
INTERNATIONAL TRADE TOWERS,
NEW DELHI 110019
- 634 095121 Ms. SHARMA ANU
A-90, SECTOR 49B
PUSHPAC SOCIETY,
CHANDIGARH 160047
- 635 095141 Mr. AGARWAL KAPIL
U1 1ST FLOOR
GREEN PARK EXTN,
NEW DELHI 110016
- 636 095150 Mr. MEHTA AMIT
G-237 SARITA VIHAR
NEW DELHI 110044
- 637 095164 Mr. SUNIL KUMAR
545 SECTOR-31
GURGAON 122001
- 638 095172 Ms. S RADHA
C-1/E DDA FLATS
MUNIRKA,
NEW DELHI 110067
- 639 095195 Mr. KANDPAL HARISH CHANDRA
T-IV/3 NIEPA FLATS (NCERT CAMPUS)
AUROBINDO MARG,
NEW DELHI 110016
- 640 095208 Mr. SHRINGI DHURUV
ARTHUR ANDERSEN
17TH FLOOR STC BUILDING
TOLSTOY MARG,
NEW DELHI 110001
- 641 095229 Mr. KAPIL RAJ KISHOR
83/29 CHAWLA COLONY
(NEAR DOUBLE FATAK),
HARYANA,
ROHTAK 124001
- 642 095243 Ms. CHAWLA RITU
9/14 EAST PANJABI BAGH
NEW DELHI 110026
- 643 095307 Mr. MAHAJAN NAVDEEP
H.NO 327 SECTOR-11
(HARYANA),
PANCHKULA 147001

- 644 095378 Mr. GHANSHYAM DASS
268 REHARI COLONY BEHIND BOARD OF
SCHOOL EDUCATION,
JAMMU TAWI
- 645 095402 Mr. RIMAL SUJIT
5/441 GURU RAM DAS NAGAR
LAXMI NAGAR,
DELHI 110092
- 646 095407 Mr. RAJ KUMAR
WZ-565 (E-70) RISHI NAGAR
SHAKUR BASTI,
DELHI 110034
- 647 095416 Mr. ADITYA NATH
1/10900A GALI NO-5
SUBHASH PARK,
NAVEEN SHAHDARA,
DELHI 110032
- 648 095424 Mr. CHHIKARA PAWAN
NO 487/36 NATIONAL MARKET
PEERAGARHI,
DELHI 110041
- 649 095425 Mr. MEHTA MANDEEP
C-1/125 LAWRENCE ROAD
DELHI 110035
- 650 095468 Mr. GUPTA MANISH
3/8 POCKET-E
MAYUR VIHAR-II,
DELHI 110091
- 651 095495 Mr. IMRAN UL HAQ
19-C POCKET-4
MAYUR VIHAR PHASE-I,
DELHI 110091
- 652 095505 Mr. SHARMA SUMIT
1652 SECTOR 13
KARNAL 132001
- 653 095538 Mr. MEHTA ARVIND
401 WHITE HOUSE
382 SANT NAGAR,
EAST OF KAILASH,
NEW DELHI 110065
- 654 095539 Ms. GUPTA PARUL
B-2, INDRAPRASTHA TOWER,
WAZIRPUR COMMERCIAL COMPLEX,
DELHI 110052
- 655 095583 Mr. SHAHANI ANUJ
209 HIMGIRI APARTMENTS
J BLOCK,
VIKAS PURI,
NEW DELHI 110018
- 656 095633 Mr. KASHMIR SINGH SOKHAL
H. NO 168 V P O SANT NAGAR
TEHSIL RANIA, (HARYANA), SIRSA 125075
- 657 095698 Mr. DHINGRA CHETAN
18/24/13, OLD GOVINDPURA
DELHI 110051
- 658 095701 Mr. GUPTA SUDHIR
C-137/C, HARI NAGAR
NEW DELHI 110064
- 659 095703 Mr. SURI SANJIV
C-3A/4A (MIG)
PANKHA ROAD,
JANAKPURI,
NEW DELHI 110058
- 660 095765 Mr. VASDEV AMIT
H NO -2139 SECTOR 42-C
CHANDIGARH
- 661 095776 Mr. GARG VINOD KUMAR
32/202 VIKRAM VIHAR
LAJPAT NAGAR-IV,
NEW DELHI 110024
- 662 095792 Mr. GURMEET SINGH
28/28 WEST PATEL NAGAR
NEW DELHI 110008
- 663 095793 Mr. VASUDEV GAURAV
R-695 NEW RAJINDER NAGAR
NEW DELHI 110060
- 664 095807 Mr. GUPTA AJAY
B-3/317 PASHCHIM VIHAR
NEW DELHI 110063
- 665 095817 Mr. SINHA BIJAY PRAKASH
689, WEST GURU ANGAD NAGAR
(GALI NO. 17)
LAXMI NAGAR,
DELHI 110092
- 666 095836 Mr. VINEET KUMAR
A-477 PANKHA ROAD
OPP BUS TERMINAL,
UTTAM NAGAR,
NEW DELHI 110059
- 667 095839 Mr. SHARMA DHIRAJ
B P-137 (WEST)
SHALIMAR BAGH,
DELHI 110052
- 668 095852 Ms. MADAN ANJUM
C-90 DEFENCE COLONY
NEW DELHI 110024
- 669 095865 Mr. VIJAY KUMAR
BU - 84 VISHAKHA ENCLAVE
PITAMPURA,
DELHI 110088
- 670 095879 Ms. KAUL REKHA
C-19 GREATER KAILASH ENCLAVE-I
NEW DELHI 110048

- 671 095886 Mr. PARAMJIT SINGH
HOUSE NO 2108
SECTOR 9,
FARIDABAD 121008
- 672 095898 Mr. KANSAL DEEPAK
C-633 NEW FRIENDS COLONY
NEW DELHI 110065
- 673 095927 Mr GHOSH SANDIP
GH/13-544,SFS FLATS,
PASCHIM VIHAR,,
NEW DELHI 110041
- 674 095935 Mr SACHDEVA HARSH
POCKET B-2/27-B LAWRENCE ROAD
DELHI 110035
- 675 095945 Ms KAUR JASPREET
Q-9, LAJPAT NAGAR IV
NEW DELHI 110024
- 676 095970 Mr GOYAL MANOJ
1/7016 SHIVAJI PARK
SHAHADARA,
DELHI 110032
- 677 095994 Mr BHARDWAJ MANISH
C-78 EAST OF KAILASH
NEW DELHI 110065
- 678 096011 Mr SUSHIL KUMAR
H.NO 137
SECTOR- 18,
HARYANA,
PANCHKULA
- 679 096023 Ms CHHABRA MEETA
GE CAPITAL INTERNATIONAL SERVICES
78 SECTOR-18,
HARYANA,
GURGAON 122015
- 680 096030 Mr KEDIA SIDHARTH
ERNST & YOUNG
SRB HOUSE,
20, COMMUNITY CENTRE,
PUSHPA VIHAR,NEW DELHI
- 681 096063 Mr ACHARYA BUDDHI PRASAD
H-68, LAXMI NAGAR
DELHI 110092
- 682 096115 Mr SETHI VIKRAM
B-68 VIVEK VIHAR
DELHI 110095
- 683 096133 Ms LAYAL GAGAN DEEP
8/23 W E A
KAROL BAGH,
NEW DELHI 110005
- 684 096174 Mr KAPUR MANISH
HOUSE NO. 1087
SECTOR 37,
CHANDIGARH
- 685 096235 Mr UMA SHANKAR
56-A MANSAROVER PARK
DDA FLATS (MIG),
SHAHADARA,
DELHI 110032
- 686 096276 Mr SOFAT SHIVINDER
MOTIA KHAN
NEAR UNION BANK OF INDIA,
MANDI GOBINDGARH 147301
- 687 096297 Ms AGARWAL SAVITA
D-101 MAYFAIR APARTMENTS
96 I P EXTENSION,
DELHI 110092
- 688 096299 Mr VERMA VIKAS
C-2/160 JANAKPURI
NEW DELHI 110058
- 689 096327 Mr SAINI SANDEEP
D-224, VIVEK VIHAR,
DELHI 110095
- 690 096359 Mr GUPTA AJAY KUMAR
S -562, SCHOOL BLOCK
LANE NO -1,,
SHAKARPUR,
DELHI 110092
- 691 096407 Mr KOHLI ASHWANI
61/9 U-BLOCK
DLF CITY PHASE-III,
(HARYANA),
GURGAON
- 692 096427 Ms. RASTOGI SHYAMALA
280, SECTOR -28
HARYANA,
FARIDABAD 121008
- 693 096432 Mr BHANDARI SANJEEV
B-88,
ASHOK VIHAR PHASE - 1
DELHI 110052
- 694 096433 Mr SETHI NITIN
S-315 GREATER KAILASH
PART II,
NEW DELHI 110048
- 695 096440 Mr. SINGH SANJAY KUMAR
ACCOUNTS OFFICER
M/S HMT LIMITED,
TRACTOR DIVISION PINJORE,
HARYANA,PANCHKULA 134101
- 696 096472 Ms SAINI RITU
C-17 BALI NAGAR NEW DELHI 110015

- 697 096493 Ms GUPTA RENU
D-10, SUKHDAYAK CHS,
J B NAGAR,,
ANDHERI (EAST),
MUMBAI 400059
- 698 096504 Mr JAIN ANSHUL
KP 317 MAURYA ENCLAVE
PITAM PURA,
DELHI 110034
- 699 096533 Mr AGGARWAL TARUN
8N-39 [WEST]
SHALIMAR BAGH,
DELHI 110052
- 700 096557 Ms RACHEL ANN BURN
KPMG OMAN
P O BOX 641,
PC -112,
RUWI
SULTANATE OF OMAN
- 701 096561 Mr SANJEEV KUMAR
KD-168 PITAMPURA
DELHI 110034
- 702 096574 Mr JAISINGH RAJIV KUMAR
M/S JAISINGH RAJIV & ASSOCIATES
S.C.O. 2445-46,
SECTOR 22-C,
CHANDIGARH
- 703 096583 Mr MANANDHAR SANJEEV
BALAGV- 16
KATHMANDU,
NEPAL
NEPAL
- 704 096584 Mr UPADHYAY KAMLESH KUMAR
10/133 WEST GURU ANGAD NAGAR
MAIN GURUDAWARA ROAD,
LAXMI NAGAR,
DELHI 110092
- 705 096606 Mr PANDEYA ARJUN PRASAD
GA-1, 745 KATHMANDU-4
PO BOX 6641,
GPO KATHMANDU,
KATHMANDU
NEPAL
- 706 096636 Mr GULIA GAURAV
2090 SECTOR D II
VASANT KUNJ,
NEW DELHI 110070
- 707 096664 Mr SUNDEEP KUMAR
S-50A SUNDER BLOCK
SHAKARPUR,
DELHI 110092
- 708 096681 Mr GUPTA OINESH
SR. OFFICER FINANCE
HERO HONDA MOTORS LTD,
37 K.M STONE,
DELHI JAIPUR HIGHWAY,GURGAON 122001
- 709 096685 Mr GURDEEP SINGH
4 DHUDIAL APTS
PITAMPURA,
DELHI 110034
- 710 096689 Mr MAHAJAN BHUPESH
C/O K S GUPTA
D-80 SURAJ MAL VIHAR,
DELHI 110092
- 711 096721 Mr RAJESH KUMAR
D-57 & 58, 3 RD FLOOR
AMAR COLONY,
LAJPAT NAGAR -IV,
NEW DELHI 110024
- 712 096769 Mr MURARKA NIRAJ KUMAR
1-C CITIZEN APARTMENTS
SECTOR-14 EXT.,
ROHINI,
DELHI 110085
- 713 096850 Mr JAIN AMIT
1332, O B GUPTA ROAD,
KAROL BAGH,
NEW DELHI 110005
- 714 096859 Mr DUTTA CHANDRACHUR
M-19, C R PARK
NEW DELHI 110019
- 715 096862 Mr ARORA TARUN
C-108 PUSHPANJALI
VIKAS MARG EXTENSION,
DELHI 110092
- 716 096898 Mr VAISH PEEYUSH
1119 VIKAS KUNJ
VIKAS PURI,
NEW DELHI 110018
- 717 096975 Mr BANEET KUMAR
H NO 38 WARD NO 7
BHAGAT SINGH MARG STREET DAV MODEL
SCHOOL,
DISTT - MANSA,
(PUNJAB),BUDHLADA 151502
- 718 096986 Mr GARG MANISH
MIG SUPER 684/B PHASE-XI
SAS NAGAR,
MOHALI 160 062
- 719 096993 Mr DASS PREMJIT
C-100 DEFENCE COLONY
NEW DELHI 110024

- 720 097012 Mr GUPTA AMIT
38 MOOEL BASTI
KAROL BAGH,
NEW DELHI 110005
- 721 097035 Mr SURINDER PAL SINGH
152-C
POCKET -C,
SIDHARTH EXTENSION,
NEW DELHI 110014
- 722 097056 Mr PAREEK ASHISH
D-3/3243 VASANT KUNJ
NEW DELHI 110070
- 723 097171 Ms AGARWAL ANUPAMA
143-25
41ST ST. AVENUE,
APT# 314,
FLUSHING, NY 11355 USA
- 724 097178 Mr ASHOK KUMAR
F-63/B LAXMI NAGAR
LANE NO 4,
DELHI 110092
- 725 097205 Mr JAIN ABHISHEK
46 KOCHAR MARKET
JHAJJAR ROAD,
HARYANA,
ROHTAK 124001
- 726 097234 Mr PRADHAN SUMAN KUMAR
FLAT NO 859
POCKET D OOA FLATS.
DILSHAO GARDEN,
DELHI 110095
- 727 097262 Mr NARANG JATINDER
318/24 JAGOISH COLONY
HARYANA,
ROHTAK
- 728 097299 Mr BHASIN VIKAS
559 SECTOR-14
GURGAON
- 729 097301 Mr RAJEEV KUMAR
C/O BHANDARI GUPTA & ASSOCIATES
202 RAJ TOWER-I,
G-1 ALAKNANDA COMMUNITY CENTRE,
NEW DELHI 110019
- 730 097308 Mr JAISINGH VINOD
B-295 SARITA VIHAR
NEW DELHI 110044
- 731 097402 Mr LUTHRA SHARAD
A2/67
RAJOURI GARDEN,
NEW DELHI 110027
- 732 097463 Mr KAPOOR MANPREET SINGH
B-2/107 JANAKPURI, NEW DELHI 110058
- 733 097518 Mr ARYAL KHUMA PRASAO
P.O. BOX 11930
OEERBAR MARG,
KATHMANDU
NEPAL
- 734 097520 Mr SATI KAMAL KISHORE
19/10 OLO RAJINDER NAGAR
NEW DELHI 110060
- 735 097562 Mr APURV KUMAR
151- C POCKET- B
MAYUR VIHAR,
PHASE-II,
DELHI 110092
- 736 097563 Ms CHATURVEOI PALLAVI
B-10 7447
VASANT KUNJ,
NEW DELHI 110070
- 737 097575 Mr BHATIA MOHIT
J-1/4 OLF QUTAB ENCLAVE
PHASE-II,
GURGAON 122002
- 738 097605 Mr SUNIL KUMAR
C/O SHRI ROOP CHAND GOYAL
WARD NO. 10,
DISTRICT GURGAON,
HARYANA, PUNHANA 121104
- 739 097624 Ms KESWANI LALITA
9/6707, GALI NO. 8
OEV NAGAR,,
KAROL BAGH,
NEW DELHI 110005
- 740 097631 Mr P V VENU GOPAL
675 KAMALJIT SANOHU BLOCK
ASIAD VILLAGE,
NEW DELHI 110049
- 741 097652 Mr GOVIL SANTOSH
M-115 A GREATER KAILASH -I
NEW DELHI 110048
- 742 097662 Mr. MANGAL VAIBHAV
G E CAPITAL INTERNATIONAL SERVICES
ASSISTANT MANAGER,
78 SECTOR 18,
JIL BUILDING, UDYOG VIHAR, GURGAON
- 743 097691 Mr. MARWAH RAJAT
J-4 KAILASH COLONY,
NEW DELHI 110048
- 744 097723 Mr GOYAL RAJNEESH
C/O SH. YASHPAL GUPTA
B-93 (1ST FLOOR) SHIVALIK,
NEAR MALVIYA NAGAR,
NEW DELHI

- 745 097745 Mr GOYAL HARSH
A-497 SARITA VIHAR
NEW DELHI 110044
- 746 097782 Mr. JAIN VIKAS
R-163 VANI VIHAR
UTTAM NAGAR,
NEW DELHI 110059
- 747 097788 Mr. SHARMA AMIT
C/O MANENDER SHARMA
BLOCK-C POCKET B HNO 27-C,
SHALIMAR BAGH,
DELHI 110052
- 748 097814 Mr SINGH DAVINDER
K-64 KRISHNA NAGAR
NEAR CHHACHHI BUILDING,
DELHI 110051
- 749 097832 Mr BISTA SANTOSH RAJ
P O BOX 6641
KATHMANDU,
KATHMANDU
NEPAL
- 750 097841 Mr. KIRTISIMHA
B-10 POCKET A
INA COLONY,
SAFDARJUNG,
NEW DELHI 110029
- 751 097849 Mr PURI GAGANPREET SINGH
D-31 JIWAN JYOTI APARTMENTS
PITAMPURA,
DELHI 110034
- 752 097871 Mr SHARMA ROHIT
KD-320
PITAMPURA,
DELHI 110034
- 753 097902 Mr. MITTAL ASHISH KUMAR
D-211 LAXMAN SINGH COMPLEX,
A-1 1ST FLOOR,
MUNIRKA,
NEW DELHI 110067
- 754 097957 Mr BHUGRA SAMEER
2343, SECTOR 13,
URBAN ESTATE,
KARNAL
- 755 097998 Mr TOMAR HARVINDRA SINGH
C-511, CHITTRANJAN PARK
NEW DELHI 110019
- 756 098094 Mr MAHAJAN MAN MOHAN
BLOCK NO 5 GALI NO 7
HOUSE NO 3 GEETA COLONY,
DELHI 110031
- 757 098104 Ms JAIN ARTI
405 DR MUKHERJEE NAGAR
DELHI 110009
- 758 098152 Mr JAI BHAGWAN
H NO G-194
K C BADKHAL ROAD,
FARIDABAD 121001
- 759 098221 Ms SHARMA MEENAKSHI
HOUSE NO. 60
SECTOR 21-A,
CHANDIGARH 160022
- 760 098256 Ms CHAUHAN VEENA
19, SARAJA MARKET
NAHARPUR,
SECTOR-7, ROHINI,
DELHI 110085
- 761 098285 Mr MANOCHA ANIL
BABA BANDA BHADUR
DHARAM KANTA,
NEAR DABRA CHOWK,
(HARYANA), HISAR 125005
- 762 098356 Mr VOHRA BHANU
C-256 DEFENCE COLONY
NEW DELHI 110024
- 763 098443 Mr. AGRAWAL VIJENDRA KUMAR
N-59 1ST FLOOR
LAXMI NAGAR,
DELHI 110082
- 764 098456 Mr TULI ANKUSH
H NO 1220 SECTOR 18 C
CHANDIGARH
- 765 098482 Ms PRITI GARG
SUKRITI
J-9/10 DLF CITY PHASE-II,
(HARYANA),
GURGAON 122002
- 766 098492 Mr JAISWAL PANKAJ KUMAR
1202-1204 ANTRIKSH BHAWAN
K G ROAD,
NEW DELHI
- 767 098500 Mr CHHILLAR KULDEEP
NO-75, SECTOR-C,
INDRA NAGAR,,
J & K,
SRINAGAR 190001
- 768 098532 Ms ARORA NITU
WZ-382/2 ST.NO.21
SHIV NAGAR,
NEW DELHI 110058
- 769 098571 Ms KAPUR RUCHI
A12 GREATER KAILASH ENCLAVE-II
NEW DELHI 110048

- 770 098575 Mr THUKRAL MOHIT
45 ANUPAM APARTMENTS
M B ROAD,
NEW DELHI 110030
- 771 098576 Mr. KEJRIWAL UMESH
C/O MR RAJENDRA CHOUDHARY
9004 GAUSALA MARG,
KJSHANGANJ,
DELHI 110006
- 772 098597 Mr SAHAI GOPAL KRISHAN
A-12 GURU RAM DASS NAGAR
LAXMI NAGAR,
DELHI 110092
- 773 098613 Mr MAHAJAN RAJIV
HOUSE NO 589 SECTOR 15 A
FARIDABAD 121007
- 774 098633 Mr SHARMA VIJAY KUMAR
639 POCKET I
PASCHIM PURI,
NEW DELHI 110063
- 775 098646 Mr GOMBER AMAR JYOTI
E-33B M I G FLATS MAYAPURI
NEW DELHI 110064
- 776 098669 Ms JAIN RITU
C/O MR RAM GOPAL JAIN
85 B BLOCK 25,
NEW DESU COLONY,
DELHI 110014
- 777 098690 Mr BANSAL NEERAJ KUMAR
5606 MOHALLA PUJAN WALA
BHATINDA
- 778 098759 Mr SHARMA RAJAN
P.O BOX 8913
KATHMANDU
NEPAL
- 779 098782 Ms MALHOTRA RICHHA
BHARAT S RAUT & CO
511 WORLD TRADE CENTRE,
BABAR ROAD,
NEW DELHI 110001
- 780 098815 Mr RAHUL KUMAR
M/S. THAKUR VAIDYANATH AIYAR & CO
212 DEEN DAYAL MARG,
NEW DELHI 110002
- 781 098838 Mr JAIN ADITYA
2505 MASJID KHAZOR
KINARI BAZAR,
DELHI 110006
- 782 098852 Mr RESHAM LAL
A-2/108 PRINTER SOCIETY
SECTOR 13,
ROHINI, DELHI 110085
- 783 098855 Mr WADHWA SUMIT
BHARAT S RAUT & CO
511 WORLD TRADE CENTRE,
BABAR ROAD,
NEW DELHI
- 784 098868 Mr SAHNI NITIN
C/O ARTHUR ANDERSEN & ASSOCIATES
2ND FLOOR, CAPITAL COURT,
LSC PHASE-III, OLDF PALME MARG,
MUNIRKA, NEW DELHI 110067
- 785 098898 Mr. KAPOOR NISHANT
ARTHUR ANDERSEN AND ASSOCIATES
2ND FLOOR, CAPITAL COURT, LSC PHASE III,
OLO PALME MARG,
MUNIRKA, NEW DELHI 110067
- 786 099021 Mr GARG SANJAY KUMAR
E-17 JAWAHAR PARK
LAXMI NAGAR,
DELHI 110092
- 787 099096 Mr NARWANIA ABHISHEK KUMAR
117/17 NARWANIA BUILDING,
KAITHAL 136027
- 788 099141 Mr BHANOT RAJAN
142, SHRESTHA VIHAR
NEW DELHI
- 789 099169 Mr AGRAWAL NARAYAN KUMAR
C/O P K CHAWLA
26-B J & K EXTENSION,
LAXMI NAGAR,
DELHI 110092
- 790 099170 Mr. AGGARWAL RAJESH
HOUSE NO C-179,
GANGOTRI APARTMENTS,,
VIKASPURI,
NEW DELHI 110018
- 791 099193 Mr MEHRA KUNAL JIT
F-10/11 VASANT VIHAR (FF)
NEW DELHI 110057
- 792 099221 Ms SOOD DEEPIKA
B-2/205 SAFDARJUNG ENCLAVE
NEW DELHI
- 793 099222 Mr AGGARWAL SUMIT
7/8 EAST PUNJABI BAGH
NEW DELHI 110026
- 794 099268 Ms AGRAWAL SHARIKA
A-43/3 S.F.S. SAKET
NEW DELHI 110017
- 795 099295 Mr BANSAL NEERAJ
M-22A JANGPURA EXTN
NEW DELHI 110014
- 796 099315 Mr. MUKESH KUMAR
2574 SECTOR 37 FARIDABAD

- 797 099325 Mr. JAIN ABHISHEK
D-14/81 SECTOR -7
ROHINI,
DELHI 110085
- 798 099575 Mr. MANDAL ASHOK KUMAR
C/O SHRI VED PRAKASH GUPTA
F-187 MANGAL BAZAR,
LAXMI NAGAR,
DELHI 110092
- 799 099595 Mr SINGHAL MITESH
BG 7/106 PASCHIM VIHAR
NEW DELHI-110063
- 800 099605 Mr POKHREL SURYA BHAKTA
C/O MR VINOD KUMAR AGGARWAL
52/1794 NAIWALA KAROL BAGH,
NEW DELHI 110005.
- 801 099705 Mr BEDI AMIT
BM-147 (WEST) SHALIMAR BAGH
NEW DELHI 110088
- 802 099708 Mr JOSHI AMAN
GE CAPITAL
4A, DLF CORPORATE PARK,
MEHRAULI GURGAON ROAD,
GURGAON 110064
- 803 099717 Mr. GANGWANI SUNIL KUMAR
RATAN S MAMA & CO
516-517, WORL TRADE CENTRE,
BARAKHAMBA LANE,
NEW DELHI 110001
- 804 099750 Mr. QAMRA ROHIT
A-4/602 PRINTERS APARTMENTS
PLOT NO.18 SECTOR 13,
ROHINI,
DELHI 110085
- 805 099831 Mr KALRA SAURABH
PRICE WATERHOUSE CODPERS
PWC CENTER SAIDULAJAB,
M B ROAD, OPP D BLOCK SAKET,
NEW DELHI 110030
- 806 099855 Mr MITTAL NITIN
1346-D, MODEL TOWN EXTN.
LUDHIANA 141001
- 807 099917 Mr MALHOTRA SAMIR
172-E
KAMLA NAGAR,
DELHI 110007
- 808 099934 Mr GUPTA KAPIL
B-1 INDER PURI
NEW DELHI 110012
- 809 099941 Ms PADMAGIRISAN JAYASHREE
D/4 4098
VASANT KUNJ, NEW DELHI 110070
- 810 102287 Mr. SINHA AMRENDRA KUMAR
CENTRAL WAREHOUSING CORPN
SCO NO 19 SECTOR 16,
HARYANA,
PANCHKULA 134109
- 811 104832 Mr. BENDRE SUHAS VINAYAK
706-POCKET-E DDA FLATS
MAYUR-VIHAR-PHASE II,
NEW DELHI 110 092
- 812 205458 Mr. KRISHNAMOHAN BHAVARAJU
319, JASWANT NAGAR,
GARHA ROAD,
PB,
JALANDHAR
- 813 205629 Mr. R SURESH
FINANCE MANAGER
PITARA KIDS NETWORK PRIVATE LTD,
4195 B-5&6 VASANT KUNJ,
NEW DELHI 11070
- 814 208185 Mr. PRANEETH YENDAMURI
INVESTMENT ALAYST - INTL FINANCE CORPN
NO.1 PANCHSHEEL MARG,
CHANKYAPURI,
NEW DELHI 110021
- 815 209806 Mr. SRINIVASAN P S
GE CAPITAL INTERNATIONAL SERVICES
ASST.MANAGER-QUALITY,
90A, BUILDING,
SECTOR-18,GURGAON 122001
- 816 500082 Mr SIDDHARTH LAL
ARTHUR ANDERSEN & ASSOCIATES
2ND FLOOR, CAPITAL COURT,
LSC PHASE-III, OLOF PAME MARG,
MUNIRKA, NEW DELHI 110067

Ashok Haldia
(Dr. ASHOK HALDIA)
SECRETARY